



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 5—मार्च 11, 2005 (फाल्गुन 14, 1926)  
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 5—MARCH 11, 2005 (FALGUNA 14, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2005

सं. एन-15/13/6/5/2004-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 फरवरी, 2005 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

“जिला कोल्लम के पत्तनापुरम तालुक में राजस्व ग्राम पुन्नाला में आने वाले क्षेत्र।”

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

## इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

नई दिल्ली-110068, दिनांक 15 फरवरी 2005

सं. आईजी/प्रशा(जी)/एस.टी. 10/2003/26--इ.गा.रा.मु.वि. अधिनियम, 1985 (1985 का सं. 50) की धारा 25(2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने 28.02.2003 को आयोजित अपनी 74वीं बैठक में संविधि 10 ए में कृषि और विधि विद्यापीठ की स्थापना के संबंध में संशोधन किया है। इसे कुलाध्यक्ष के रूप में भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त है। यह अनुमोदन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र सं. एफ.-5.23/2003-डेस्क (यू) (ए) दिनांक 04 फरवरी, 2005 द्वारा प्राप्त हुआ है।

## संविधि 10ए-अध्ययन विद्यापीठ

संविधि 10 ए के अंतर्गत संशोधित खंड (1) परिवर्द्धन के बाद इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

10. कृषि विद्यापीठ
11. विधि विद्यापीठ
12. संविधि द्वारा स्थापित कोई अन्य विद्यापीठ

ए. एस. नारंग  
कुलसचिव

विश्वभारती

शान्ति निकेतन

परीक्षित लेखा

वर्ष 2001-2002

कोलकाता-700 001, दिनांक 18 सितम्बर 2003

## लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र

सं.ओए II/एबी/एआर/2001/बीबी/330.—मैंने विश्वभारती, बीरभूम के 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष में प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय और व्यय लेखा तथा दिनांक 31 मार्च, 2002 के तुलन पत्र की जाँच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं और संलग्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गयी अभ्युक्तियों के अध्यधीन अपनी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिये गये स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में किये गये उल्लेख के अनुसार ये लेखे और तुलन पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किये गये हैं और विश्वभारती, बीरभूम के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

शान्तनु बसु  
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा  
केन्द्रीय : कोलकाता

## वर्ष 2001-2002 के विश्वभारती, शांतिनिकेतन के लेखा पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

### 1. पूर्वपीठिका:

1.1 विश्वभारती की स्थापना दिसम्बर, 1921 ई. में हुई तथा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 ई. के अधीन मई, 1922 ई. में सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हुई। विश्वभारती अधिनियम, 1951 के प्रभाव से बाद में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में रुपान्तरित हुई।

1.2 विश्वविद्यालय मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान से वित्तसाधित है। यह विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भारत सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार तथा अन्य संगठनों यथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद से भी अनुदान प्राप्त करता है।

वर्ष 2001-2002 की अवधि में, विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्रोतों से रु 4512.54 लाख की राशि अनुदान स्वरूप प्राप्त की जो निम्न उल्लेखित हैं--

अनुदान के स्रोत	अनुरक्षण अनुदान	विशिष्ट उद्देश्य अनुदान	रुपये लाख में
			कुल
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	3,769.17	627.93	4,387.10
भारत सरकार	0.00	71.87	71.87
पश्चिम बंगाल सरकार	0.00	09.66	09.66
अन्य स्रोत	0.00	43.91	43.91
<b>कुल</b>	<b>3,769.17</b>	<b>743.37</b>	<b>4,512.54</b>

1.3 विश्वभारती अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षा (कतव्य, अधिकार एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन विश्वविद्यालय के वर्ष 2001-2002 की लेखापरीक्षा की गई।

## 2. लेखा पर टिप्पणियाँ

### 2.1. समेकित तुलन पत्र (शांतिनिकेतन)

2.1.1 विगत वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के बावजूद, परिसम्पत्ति लेखा अधिग्रहण खाता मूल्य में दर्शाया गया और अप्रचलित, अप्रयोजनीय, गैर मरम्मत योग्य तथा निकम्मी परिसम्पत्तियों को अलग नहीं किया गया और पूँजीगत लेखा के अनुरूप कमी से मूल्यहास लेख में भी सम्मिलित नहीं किया गया। इस प्रकार पूँजी तथा परिसम्पत्ति लेख में अत्युक्ति रही और सही चित्र नहीं दिया गया।

2.1.2 पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेख के बावजूद, विश्वविद्यालय ने प्रपत्र जीआरएफ-19 में परिसम्पत्तियों के रजिस्टर जो सामान्य वित्तीय नियम की धारा 5(4)(अ) के अधीन अपेक्षित है बनाए नहीं रखा। वार्षिक लेखा में रजिस्टर से संबंधित सार को संलग्न नहीं किया गया। यद्यपि भवन से संबंधित परिसम्पत्ति के केन्द्रीय रजिस्टर का अनुरक्षण किया गया जो प्रपत्र जीएफआर-19 की भाँति नहीं था तथा 2001-2002 में उपाजित परिसम्पत्तियों को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। 31 मार्च, 2002 तक परिसम्पत्तियों के प्रगति मूल्य को भी नहीं लिया गया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा में अचल परिसम्पत्तियों (रु.3346.53 लाख) को सत्यापित नहीं किया गया।

2.1.3 विश्वविद्यालय ने अचल परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार, 2001-2002 की अचल परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन हुआ या नहीं इसका सत्यापन नहीं किया गया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा में परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष अस्तित्व/स्थिति को सुनिश्चित नहीं किया गया।

2.1.4 निवेश अनुसूची, विस्तार में यथाक्रम बैंक/वित्तीय संस्थान, राशि, तिथि, अवधि, ब्याज दर, परिपक्व तिथि/परिपक्व मूल्य आदि संकेत कर रहे हैं, इसे वार्षिक लेखा में संलग्न नहीं किया गया।

2.1.5 (1) प्रकाशन विभाग (2) संगीत परिषद (3) शिल्पसदन के लेखों के संबंध में विभिन्न मदों के अधीन समेकित तुलन पत्र में जोड़े गये आँकड़े, इसे स्पष्टरूप से चिह्नित नहीं किया गया क्योंकि ये लेखे लेखा के गये फार्मेट में नहीं तैयार किया गया।

### 2.2 तुलन पत्र-परिसम्पत्तियाँ (शांतिनिकेतन लेखा)

2.2.1 रु.36.998 लाख का भंडार तथा वर्तमान चाल परिसम्पत्ति, कंज तथा आर्द्र आदि (अनुसूची-17) में दर्शाया गया जबकि विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग भंडार में उपरोक्त उप-शीर्ष के अधीन रु.10.25 लाख का शेष दर्शाया गया।

उपरोक्त उल्लिखित विसंगतियों के समाधान की आवश्यकता है।

2.2.2 तुलन पत्र में रु.494.62 लाख का निवेश दर्शाया गया जबकि प्राप्तियों तथा भुगतान लेखा(गैरराजस्व)(शांतिनिकेतन)के अनुसार, रु. 512.59 लाख (अथ शेष:रु.451.68 लाख, वर्षाधीन अतिरिक्त रु.60.91 लाख) कुल निवेश दिखाता है। तथापि रु.494.62 लाख का न तो निवेश और न ही रु.512.59 लाख, निवेश रजिस्टर से तादात्म्य नहीं था, जिसे रु.443.48 लाख के निवेश में दर्शाया गया।

उपरोक्त उल्लिखित विसंगतियों के समाधान की आवश्यकता है।

2.2.3 विश्वविद्यालय ने रु.443.48 लाख की परची/अभिलेख निधि/लेखानुसार प्रस्तुत किया जो विस्तार से निम्न रहे--

क्रम संख्या	निधि/लेखा का नाम जिससे निवेश किया गया	राशि (रुपये लाख में)
1.	धर्मस्व निधि	115.40
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकाग्रता केन्द्र	2.80
3.	निष्पन्नभवन	10.96
4.	ग्रंथन विभाग निधि	187.72
5.	अभिलेख निधि/लेखानुसार प्रस्तुत किया	126.60
	<b>कुल</b>	<b>443.48</b>

उपरोक्त दिखाया गया निधि/लेखा कम से निवेश तुलन पत्र में दर्शाये आँकड़े से जोड़ा नहीं गया। रु.51.14 लाख (रु.494.62 लाख - रु.443.48 लाख) के निवेश की निवेश परची/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.2.4 रु. 467.14 लाख संयोजन ( राजस्व लेखा: रु. 43.72 लाख, गैर-राजस्व लेखा: रु.423.42 लाख) तुलन पत्र(अनुसूची 1) में अचल परिसम्पत्तियों को दर्शाया गया। राजस्व लेखा से अचल परिसम्पत्तियों से उत्पन्न फर्नीचर तथा फिक्सचर में सम्मिलित किया गया। रु.32.03 लाख की पूँजी का औचित्य लेखापरीक्षा में सत्यापित किया गया। क्योंकि मद के अनुसार विवरण स्पष्ट रूप से प्राप्तियों तथा भुगतान लेखा (राजस्व)में नहीं दर्शाया गया। पुनः प्राप्तियों तथा भुगतान लेखा के अनुसार पूँजी व्यय (गैर-राजस्व) रु. 499.50 लाख का है करता है जो विस्तार से निम्न रहे--

शीर्ष का नाम	प्राप्तिर्था तथा भुगतान लेखा के अनुसार पूंजी व्यय	रुपये लाख में
भवन		222.43
फर्नीचर तथा फिक्सचर		191.21
विद्युत संस्थापन		0.04
पुस्तकालय ग्रंथ		47.00
नलकूप तथा जल आपूर्ति		35.00
अन्य अचल परिसम्पत्तियाँ		2.92
<b>कुल</b>		<b>499.50</b>

रु.76.08 लाख ( रु.499.50 लाख- रु.423.42) लाख की विसंगति गैर राजस्व लेखा के संबंध में समाधान की आवश्यकता है।

2.2.5 तुलन पत्र (अनुसूची-14 ) में अचल परिसम्पत्तियाँ शीर्षाधीन रु. 16.86 लाख वाहनों के मूल्य दर्शाए गए जबकि संबंधित विभाग के रिकार्ड्स के अनुसार, 19 वाहनों के मूल्य रु. 26.49 लाख थे। जीप, डिजल बस तथा उपदानित कार के मूल्य उपलब्ध नहीं थे। विसंगति के समाधान की आवश्यकता है।

2.2.6 अन्य (उचिन्त) उप शीर्ष के अधीन चालू परिसम्पत्तियाँ, कर्ज, अग्रिम आदि तुलन पत्र (अनुसूची-17) में रु.4.83 लाख की राशि दर्शाया गया था।

विश्वविद्यालय को परामर्श दिया जाता है कि समुचित शीर्ष के अधीन लेनदेन को दर्ज करें तथा उचिन्त शीर्ष का प्रचालन वर्जित करें। क्योंकि यह लेखा की परिशुद्धि को हल्का करता है।

2.2.7 31 मार्च, 2002 तक तुलन पत्र में रु. 4107.47 लाख विगत वर्ष की कुल परिसम्पत्तियाँ/दायिताएँ दिखाई गई जबकि विगत वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार रु.4215.17 लाख थे। यह रु.107.70 लाख का अंतर फलित हुआ। तथ्यों को स्वीकारते हुए विश्वविद्यालय ने उल्लेख किया कि लेखा के नए फार्मेट के सन्वेषण के कारण, विगत वर्षों के शेषों को पुनर्गठित किया गया। तथापि, इस संबंध में लेखा में विवरण के समाधान का संलग्न नहीं किया गया।

2.2.8 अन्य परिसम्पत्तियों के अधीन रु. 1.65 लाख विगत वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाया गया जो उपाचार्य के विवेकाधीन अनुदान निधि का गैर वसूल कर्ज रु. 0.03 लाख का शेष में समाविष्ट किया गया। यह निधि 31 मार्च, 2002 तक के तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा में 31 मार्च, 2002 तक गैर वसूल कर्ज की स्थिति को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

### 2.3 तुलन पत्र-परिसम्पत्तियाँ ( शिल्पसदन)

विगत तीन वर्षाधीन, शिल्पसदन के इति स्टाक का मूल्यांकन निम्न रीति से किया गया--

वर्ष	मूल्यांकन की पद्धति
1999-00	बाजार मूल्य का 25 प्रतिशत
2000-01	बाजार मूल्य
2001-02	बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत

यद्यपि मूल्यांकन की पद्धति वर्ष-दर-वर्ष अन्तर था। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने लेखा में टिप्पणी अनुलग्न नहीं किया।

### 2.4 तुलन पत्र- परिसम्पत्तियाँ (प्रकाशन विभाग)

2.4.1 रु. 19.20 लाख की राशि, चालू परिसम्पत्तियों के अधीन उचित शीर्षाधीन तुलन पत्र (अनुसूची-15) में दर्शाया गया। विश्वविद्यालय को परामर्श दिया जाता है कि समुचित शीर्षाधीन लेनदेन को दर्ज करें तथा उचित शीर्ष का प्रचालन वर्जित करें। क्योंकि यह लेखा की परिशुद्धि को हल्का करता है।

2.4.2 रु. 0.48 लाख की अधूरी पुस्तकों के स्टाक का मूल्य तुलन पत्र में हाथ में भंडार शीर्षाधीन नहीं समाविष्ट किया गया। यह हाथ में भंडार शीर्षाधीन परिसम्पत्तियों की न्यूनोक्ति रही तथा लाभ तथा हानि अनुपातिक लेखा उप-शीर्षाधीन रु. 0.48 लाख की दायिताएँ रही।

2.4.3 कुल रु. 527.01 लाख का निवेश, तुलन पत्र के निम्न शीर्षाधीन सम्मिलित था जबकि रु. 560.22 लाख के कुल निवेश, निवेश रजिस्टर में अनावृत किया गया। फलस्वरूप रु. 33.21 लाख की विसंगति जिसे समाधान की आवश्यकता है:-

रुपये लाख में	
जिस मद में सम्मिलित	निवेश राशि
अचल परिसम्पत्तियाँ (अनुसूची-4)	176.74
निवेश (अनुसूची-5)	50.32
रघ लोकप्रिय परिसम्पत्तियाँ (अनुसूची-17)	95.80
हाथ में नकद (अनुसूची-14)	155.15
चालू परिसम्पत्तियाँ (अनुसूची-15)	40.00
<b>कुल</b>	<b>527.01</b>

विगत वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेख के बावजूद, कुल राशि निवेश शीर्षाधीन तुलन पत्र के परिसम्पत्ति के पक्ष में नहीं रखा गया।

## 2.5 तुलन पत्र-परिसम्पत्तियाँ (पल्ली शिक्षा भवन)

तुलन पत्र (अनुसूची) 10 में चालू परिसम्पत्तियाँ, कर्ज, अग्रिम आदि के अधीन रु. 9.85 लाख कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) के बैंक शेष में दिखाया गया जबकि रु. 13.21 लाख का बैंक शेष केवीके के नकद खाता में दिखाया गया। फलस्वरूप, रु. 3.36 लाख की परिसम्पत्तियों की न्यूनोक्ति रही।

## 2.6 तुलन पत्र-परिसम्पत्तियाँ (भविष्य निधि लेखा)

2.6.1 विगत वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेख के बावजूद, विश्वविद्यालय ने साभनि तथा अंभनि के अधीन अलग से नकद/बैंक शेष तथा इसके निवेश के नहीं दर्शाया।

2.6.2 31 मार्च, 2002 तक सावधि जमा के अधीन रु. 1877.17 लाख का कुल निवेश, तुलन पत्र में दर्शाया। विश्वविद्यालय ने अप्रैल, 1998 से इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश की पद्धति का अनुकरण नहीं किया जो नीचे दिखाए गए तथा सावधि जमा में पूरी राशि को निवेशित किया -



निवेश के प्रकार	भारत सरकार से निर्धारित प्रतिशत
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	25
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	15
बॉण्ड/सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों तथा/अथवा सार्वजनिक उपक्रम बैंकों से जमा प्रमाणपत्र निर्गत में निवेश	40
उपराक्त तीन में से किसी एक में निवेश होना चाहिए	20

निवेश योजना पर पुनर्विचार की आवश्यकता है तथा भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सटीक कारवाई की जानी चाहिए।

2.6.3 भारतीय स्टेट बैंक, शांतिनिकेतन में रु.227.87 लाख की सावधि जमा, तुलन पत्र में भारतीय स्टेट बैंक, कलकता में सावधि जमा के रूप में गलत से दर्शाया गया।

## 2.7 तुलन पत्र- दायिताएँ (शांतिनिकेतन)

2.7.1. गृह निर्माण अग्रिम चक्राकार निधि के अधीन रु. 303.90 लाख तुलन पत्र (अनुसूची- 3) में दर्शाया गया। विगत वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेख के बावजूद, विश्वविद्यालय ने 2001-02 वर्षाधीन अपने कर्मचारियों से उगाही रु.9.55 लाख का ब्याज जमा नहीं किया। फलस्वरूप, यह 31 मार्च, 2002 तक रु.9.55 लाख तुलन पत्र के अधीन दायिता में न्यूनोक्ति रही।

2.7.2. गृह निर्माण अग्रिम की चक्राकार निधि के रु. 303.90 लाख की निधि शेष के बदले, तुलन पत्र (अनुसूची-17) में तत्संबंधी परिसम्पत्तियाँ दर्शित की गईं जो विस्तार से निम्न रहे --

शीर्ष का नाम	राशि (रुपये लाख में)
कर्ज: स्टाफ(गृ.नि.अ.)	246.31
बैंक शेष(रु.1169.74 में सम्मिलित)	4.31
<b>कुल</b>	<b>250.62</b>

रु.53.28 लाख की कमी (रु.303.90 लाख- रु.250.62 लाख) संकेत करता है कि जिस उद्देश्य के लिए यह नियत किया गया था, सम्पूर्ण निधि का उपयोग नहीं किया गया।

## 2.8. तुलन पत्र- दायिताएँ ( भविष्य निधि लेखा)

2.8.1. वि.अ.आ को विश्वभारती का अंशदान वापस योग्य शीर्षाधीन तुलन पत्र में रु. 18.00 लाख दर्शित किया गया। राशि अ.भ.नि से सा.भ.नि में परिवर्तित के कारण नियोजनकर्ता के अंशदान वापसयोग्य प्रोत्त वित्त किया। एक अंशदाता के संबंध में रु. 2.25 लाख की राशि नियोजनकर्ता का अंशदान था। तथापि वि.अ.आ को वापस योग्य विश्वभारती का अंशदान के बदले विविध जमा लेखा में सम्मिलित किया गया। बाद में विविध जमा लेखाधीन दायिता तथा वि.अ.आ का वापसयोग्य विश्वभारती का अंशदान रु.2.25 लाख न्यूनोक्ति था।

2.8.2. 31 मार्च, 2002 तक तुलन पत्र में साभनि तथा अंभनि के निधि शेष के रूप में दर्शित था। 2001-2002 के बड़े चिट्टे में हल किए शेष से सहमत नहीं हुआ जो विस्तार से निम्न रहे --

रुपये लाख में			
निधि का नाम	सा.भ.नि	अ.भ.नि	कुल
तुलन पत्र में बचत दिखाया गया	2,473.39	136.02	2,609.41
बड़े चिट्टे के अनुसार बचत	2,477.84	131.57	2,609.41
अन्तर	- 4.45	-4.45	0.00

यद्यपि एक साथ सा.भ.नि तथा अं.भ.नि का अंतर नहीं लिया गया। संबंधित निधियों के समाधान की आवश्यकता है।

## 2.9. तुलन पत्र- दायिताएँ (प्रकाशन विभाग)

शेष पत्र विश्वभारती पत्रिका के अधीन रु. 0.85 लाख का दायिता दर्शित किया जबकि शीर्षक अधीन तत्संबंधी परिसम्पत्ति रु. 1.59 लाख का दिखाया गया। फलस्वरूप, रु.0.74 लाख के अंतर के समाधान की आवश्यकता है।

## 2.10. आय तथा व्यय लेखा- (शांतिनिकेतन)

विवृत वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेख के बावजूद, आय तथा व्यय लेखा में योजना तथा गैरयोजनाधीन अलग से रु. 283.31 लाख का व्यय के उपर आय की अधिकता को नहीं दर्शाया गया।

## 2.11. आय तथा व्यय लेखा(शिल्पसदन)

2.11.1 शिल्पसदन के निम्न इकाइयों के संबंध में लाभांश के रु.0.82 लाख दर्शित,शिल्पसदन के शेष पत्र के अधीन लाभ तथा हानि लेखा के बदले संबंधित इकाइयों के आय तथा व्यय लेखा में दिखाये गये:-

इकाई का नाम	लाभांश की राशि (रुपये लाख में)
पत्र निर्माण	0.03
बुनाई	0.19
बढ़ईगिरी	0.31
जिल्दसाजी	0.27
बाटिक	0.02
कुल:	0.82

फलस्वरूप यह 0.82 लाख के व्यय के ऊपर आय की अधिकता की न्यूनोक्ति रही।

2.11.2. शांतिनिकेतन दुकान के वेतन तथा भत्ता के लिए रु.0.88 लाख का व्यय,शिल्पसदन के निम्न इकाइयों से विभाजित किया गया:-

इकाई का नाम	वेतन तथा भत्ता की राशि(रुपये लाख में)
पत्र निर्माण	0.04
बुनाई	0.69
मृत्तिका	0.03
चर्म	0.07
बाटिक	0.05
कुल	0.88

शांतिनिकेतन दुकान का अस्तित्व नहीं था। इस दुकान के बदले में व्यय को जोड़ना ठीक नहीं था।

## 2.12 आय तथा व्यय लेखा (पल्ली शिक्षा भवन)

निम्न शीर्षाधीन लिया गया व्यय तत्संबंधी अनुसूचियों में दिखाए गए आँकड़ों से अंतर दिखाया गया जो लेनदेन के उलझन को निर्देशित किया:-

(रुपये लाख में)

शीर्ष का नाम	अनुसूची	आय तथा व्यय के अनुसार खर्च	तत्संबंधी अनुसूची में खर्च दिखाया गया	अंतर
संस्थापन व्यय	15	207.37	209.17	1.80
अन्य शासकीय व्यय	16	19.13	17.33	1.80

इस विसंगति को समाधान करने की आवश्यकता है।

## 2.13 प्राप्तियाँ तथा भुगतान लेखा

2.13.1. प्राप्तियाँ तथा भुगतान लेखा में स्पष्ट रूप से योजना तथा गैर-योजना प्राप्तियाँ/भुगतान नहीं दर्शाया गया। लेनदेन की गड़बड़ी से बचने के लिए योजना तथा गैर-योजना मदों को स्पष्ट रूप से प्राप्तियाँ तथा भुगतान लेखा में दर्शित करना चाहिए।

2.13.2 बैंक विवरणों ने उद्घाटित किया कि विश्वविद्यालय के परामर्शानुसार, 12.11.2001 को बैंक से रु. 11.13 लाख की राशि स्थानान्तरित किया गया। तथापि, गलती से राशि जमा किए जाने के बदले शांतिनिकेतन मुख्य लेखा के नकद खाता के खर्च में लिया गया। फलस्वरूप, रु. 22.26 लाख की दायिताओं (जमा तथा अग्रिम) तथा परिसम्पत्तियों (बैंक में नकद) की उपरोक्ति रही !

## 2.14. अनुदानों का उपयोग

2.14.1. 2001-2002 में विभिन्न स्रोतों से विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त अनुदान, अनुदानों के उपयोग, दिखाए गए विवरण में सही दर्शित नहीं किया गया। फलस्वरूप, प्राप्तियाँ तथा भुगतानों में अंतर रहा जो निम्न दिखाए गए:

रुपये लाख में			
अनुदान के स्रोत	प्राप्तियाँ तथा भुगतान लेखा के अनुसार अनुदान	अनुदानों के उपयोग के विवरण के अनुसार अनुदान	अंतर अधिक (+) कम (-)
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	617.93	618.74	-0.21
भारत सरकार	71.87	70.64	1.23
पश्चिम बंगाल सरकार	09.66	09.91	-0.25
अन्य एजेन्सीज	43.91	41.51	2.40
कुल	743.37	740.20	3.17

2.14.2. जुलाई, 2002 में विश्वविद्यालय ने अनुदान स्वीकृति प्राधिकारी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) का उपयोग प्रमाणपत्र जिस प्रयोजन के लिए स्वीकृत किया गया था, प्रस्तुत किया कि रु. 3769.17 लाख का सम्पूर्ण गैर-योजना अनुरक्षण अनुदान को उपयोग में लाया गया। तथापि गैर-योजना अनुरक्षण अनुदान के अप्रयुक्त शेष रु. 60.00 लाख (इति शेष: रु. 231.98 लाख कमी आंतरिक प्राप्तियाँ: रु. 171.98 लाख) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत, 2001-2002 के गैर-योजना अनुरक्षण अनुदान के समर्थन में प्रमाण पत्र सही नहीं था।

## 2.15 बैंक समाधान विवरण

2.15.1 शान्तिनिकेतन मुख्य लेखा के संबंध में 31 मार्च, 2002 तक बैंक समाधान विवरण की जाँच ने निम्न विसंगतियों का उजागर किया जिनके सामंजस्य/शोधन की प्रतीक्षा थी-

रुपये लाख में

क्रम संख्या	विवरण	3 वर्षों से अधिक	6 महीने से अधिक किंतु 3 वर्षों से कम	6 महीने तक	कुल
1.	बैंक में जमा तथा बैंक द्वारा जमा नहीं	0.00	1.35	208.67	210.02
2.	बैंक में जमा किंतु नकद खाता में नहीं लिया गया	0.00	0.75	0.88	1.63
3.	बैंक से निकाला किंतु नकद खाता में नहीं लिया गया	0.00	0.00	0.17	0.17
4.	चेक निर्गत किंतु बैंक में जमा नहीं	.52	0.51	283.06	285.09

मार्च, 1999 से मार्च, 2002 की अवधि में अमेरिकन डालर 15 तथा पाउण्ड 406 की विदेशी मुद्राएँ प्राप्तियाँ रिकार्ड्स में उद्घाटित किया गया। राशि न तो लेखा में लिया गया और न ही नकद खाता में 31 मार्च, 2002 तक बैंक में जमा किया गया। विश्वविद्यालय ने अंतर समाधान के लिए बैंक समाधान विवरण नही तैयार किया।

2.15.2. प्रकाशन विभाग का नकद खाता भारतीय स्टेट बैंक, पार्क स्ट्रीट शाखा में बचत शेष कुछ नहीं दर्शाया जबकि 31 मार्च, 2002 तक का बैंक विवरण रु. 0.57 लाख का शेष उद्घाटित किया। विश्वविद्यालय ने अंतर के समाधान के लिए बैंक समाधान विवरण नहीं तैयार किया।

## 2.16 सामान्य

2.16.1 विगत वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेख के बावजूद भविष्य निधि लेखा को छोड़कर, मुख्यतः नकद आधार पर, विश्वविद्यालय ने वार्षिक लेखा तैयार किया जो संभूति आधार पर सम्प्रेषित किया गया। लेखा की प्रणाली संभूति के आधार पर होने की आवश्यकता है जिससे आय तथा व्यय लेखा एवं तुलन पत्र विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का स्पष्ट दृष्टिकोण तथा अर्थपूर्ण चित्र उपस्थित करता है।

2.16.2 विश्वविद्यालय ने समेकित आय तथा व्यय लेखा एवं समेकित प्राप्तियाँ तथा भुगतान लेखा तैयार नहीं किया। 31 मार्च, 2002 तक समेकित तुलन पत्र में विगत वर्ष के आँकड़ों का भी उल्लेख नहीं किया गया। 31 मार्च, 2002 तक समेकित तुलन पत्र में सभी उप-लेखा की परिसम्पत्तियों तथा दायित्ताओं की कुल राशि को प्रदर्शित किया। तथापि आंतरिक समायोजन विभिन्न उप लेखा के बीच समेकित तुलन पत्र में विचारार्थ नहीं लिखा गया। विश्वविद्यालय को सुझाव दिया जाता है कि केन्द्रीय स्वायत्तीय निकाइयों के लेखा के सामान्य फॉर्मेट के अनुसार, युक्त अनुसूचियों से समेकित आँकड़ों को दर्शाते हुए समेकित लेखा के पूर्ण सेट तैयार करें जिससे विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति एक दृष्टि में उपलब्ध हो।

## 2.17 तुलन पत्र तथा आय तथा व्यय लेखा पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों का प्रभाव

पिछले पाराओं में टिप्पणियों का नेट प्रभाव है कि 31 मार्च, 2002 तक परिसम्पत्तियों पर रु. 18.42 लाख की उपरोक्ति रही। दायित्ताओं की रु. 12.23 लाख उपरोक्ति तथा वर्ष के व्यय के उपर आय की अधिकता की न्यूनोक्ति रु. 0.82 लाख रही।

## 2.18 उत्तर की अप्राप्ति

28.04.2003 को उत्तर/टिप्पणियों के लिए विश्वविद्यालय को मसौदा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किया गया था। किंतु विश्वविद्यालय ने अनुबद्ध अवधि में अपना उत्तर नहीं प्रस्तुत किया।

2.19 यद्यपि 31 मार्च, 2002 तक वर्ष 2001-2002 का तुलन पत्र (पी.एस.वी तथा आय तथा व्यय लेखा (प.शि.भ) क्रमशः 1 एवं 8 अनुसूचियों में उल्लेख किया गया। उन अनुसूचियों को मुद्रित नहीं किया गया। उसी प्रकार, अनुसूची-1 यद्यपि 31 मार्च, 2002 तक के तुलन पत्र में उल्लेख किया गया किंतु उसे मुद्रित नहीं किया गया।

स्थान: कोलकाता  
दिनांक 18.09.2003

( शांतनु वसु )  
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा  
केन्द्रीय: कोलकाता

## विश्वभारती शांतिनिकेतन

1. वर्ष 2001-2002 में वि.अ.आ./संघ तथा अन्य निकाइयों से आवर्ती अनुदानों (शांतिनिकेतन) के उपयोग का विवरण

क्रम सं.	अथ शेष	निधिकरण प्राधिकारी का नाम	पत्र सं.	2001-2002 में अनुदान प्राप्त	कुल अनुदान प्राप्त	वर्ष 2001-2002 में व्यय	अप्रयुक्त शेष 2001-2002	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-1,42,000.64	वि. अ.आ. : खंड अनुदान अनुदान : वर्ष 2001-2002 के	एफ 21-10/99 (सीयु) दि. 31.3.2001 एफ 21-10/2001 (सीयु) दि. 31.3.2001 एफ 21-10/2001 (सीयु) दि. 30.7.2001 एफ 21-10/2001 (सीयु) दि. 9.8.2001 एफ 21-10/2001 (सीयु) दि. 28.12.2001 एफ 21-10/2001 (सीयु) दि. 8.2.2002	9,58,50,000.00 2,00,00,000.00 6,39,00,000.00 12,77,99,000.00 6,53,89,000.00 39,79,000.00	37,67,74,999.36	35,35,76,920.17	2,31,98,079.19	वर्ष 2001-2002 में कुल खंड अनुदान अनुदान प्राप्त किया अनुदान प्राप्त :- 37,69,17,000.00 अथ शेष :- (-) 1,42,000.64 कुल :- 37,67,74,999.36 विश्वविद्यालयी अंतरिक प्राप्तियाँ तथा अन्य प्राप्तियाँ 1,71,97,700.68 कुल प्राप्तियाँ 39,39,72,700.04 कुल व्यय 37,07,74,620.85
				37,69,17,000.00	37,67,74,999.36	35,35,76,920.17	(-) 2,31,98,079.19	(-) 2,31,98,079.19



## विश्वभारती शांतिनिकेतन

1.वर्ष 2001-2002 में वि.अ.आ/संघ तथा अन्य निकाइयों से आवर्ती अनुदानों (शांतिनिकेतन) के उपयोग का विवरण

क्रम सं.	अथ शेष	निधिकरण प्राधिकारी का नाम	पत्र सं	2001-2002 में अनुदान प्राप्त	कुल अनुदान प्राप्त	वर्ष 2001-2002 में व्यय	अप्रयुक्त शेष 2001-2002	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वि. अ.आ								
वर्ष 2001-2002 का								
खंड पोषण अनुदान								
कुल राजस्व व्यय								
कमी: विश्वविद्यालय								
को अंतरिक प्राप्ति								
अन्य प्राप्ति								
2001-2002 के पोषण								
अनुदान से कुल								
राजस्व व्याय								
				37,07,74,620.85				
				(-) 1,71,97,700.68				
				<u>35,35,76,920.17</u>				

प्रमाणित किया जाता है कि 2001-2002 को अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / संघ तथा अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान विश्वविद्यालय के खर्चा में सही रूप से दर्शाए गए हैं। पुनः यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान के साथ संलग्न नियम एवं प्रतिबंध के अनुसार, जिनके लिए यह मंजूर किया गया था, उन्होंने प्रयोजनों में उपयोग किए गए।

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

वित्त अधिकारी  
विश्वभारती

कर्मसचिव (रजिस्ट्रार)  
विश्वभारती

**विश्वभारती**  
31 मार्च, 2002 तक समेकित तुलन-पत्र

पूँजी निधि तथा दायितारें	शान्तिनिकेतन	श्रीनिकेतन परिसर	शिल्पसदन	निम्पन भवन	ग्रन्थन विभाग	संगीत परिसर	चालू वर्ष
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
पूँजी निधि	3,351,690		163,592				3,515,282
खंड पूँजी निधि	279,201,829	13,563,047	17,941,486	2,474,321	231,9635		315,601,818
आरक्षित तथा अतिरिक्त	86,089,576						
धर्मदाय निधि	11,884,715					549,5132	148,284,158
विनियोग निधि	6,413,502					151,5000	13,399,715
विकास निधि	66,888,559						6,413,502
एडुकेटर प्रकल्प निधि	15,260,053						67,792,725
आंसप्रो निधि	5,358,454	331,497					
स्केट निधि	1,229,485	540,705					
प्रवाह निधि	823,263						
स्व वित्त योजना निधि	1900,729						16,436,346
जमा तथा अग्रिम	19,352,800						6,918,469
चालू दायितारें तथा प्रावधान	1,769,342						2,214,803
कुल	499,523,977	24,343,735	23,053,188	6,493,364	79,796,727	12,142,139	881,278
सम्पत्तियाँ							
जमा परिसम्पत्तियाँ	279,201,829						1,900,729
निवेश-धर्मदाय निधि	6,724,314						47,340,723
अन्य निवेश	42,738,057						
चालू सम्पत्तियाँ, कर्ज, अग्रिम आदि	170,859,777						
कुल	499,523,977	10,780,688	5,111,702	2,923,293	52,581,553	650,586	252,597,369
		24,343,735	23,053,188	6,493,364	79,796,727	12,142,139	655,144,400
		13,563,047	17,941,486	2,474,321	21,283,226	87,783	334,653,192
				1,095,750	5,931,948	11,403,770	6,724,314
							61,169,525

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

वित्त अधिकारी  
विश्वभारती

कर्मसचिव (रजिस्ट्रार)  
विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**शांतिविश्वकेन्द्र**  
31 मार्च, 2002 तक का तुलन-पत्र

पूँजी निधि तथा दायितारें	अनुसूची	राशि (रु.)	घातु वर्ष	विगत वर्ष
पूँजी निधि	1		3,351,690	3,753,410
खंड पूँजी निधि	2		279,201,829	232,492,169
आरक्षित तथा अतिरिक्त	3		86,089,576	62,117,214
धर्मदाय निधि	4		11,884,715	11,275,072
वित्तियोग निधि	5		6,413,502	5,959,269
विकास निधि	6		66,888,559	66,219,335
एडुकेअर प्रकल्प निधि	7		15,260,053	9,527,331
आंसप्रो निधि	8		5,358,434	2,231,974
स्पेक्ट निधि	9		1,229,485	-493,772
प्रवाह निधि	10		823,263	1,274,449
स्व वित्त योजना निधि	11		1,900,729	
जमा तथा अग्रिम	12		19,352,800	15,264,234
घातु दायितारें तथा प्राक्खान	13		1,769,342	1,126,381
कुल			499,523,977	410,747,066
सम्पत्तियाँ				
जमा परिसम्पत्तियाँ	14		279,201,829	232,492,169
निवेश-धर्मदाय निधि	15		6,724,314	6,762,174
अन्य निवेश	16		42,738,057	39,405,472
घातु सम्पत्तियाँ, कर्ज, अग्रिम आदि	17		170,859,777	133,097,250
कुल			499,523,977	410,747,066

सेवा अधिकारी  
विश्वभारती

वित्त अधिकारी  
विश्वभारती

कर्मसचिव (उपस्थित)  
विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**शान्तिनिकेतन**  
31 मार्च, 2002 तक के तुलन-पत्र अंश निर्माण की अनुसूचियाँ

अनुसूची - 1	राशि (रु.)	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष
अनुसूची-1 कोर्पस / पूँजी निधि (अनुलग्नक - अ) अ) निधियों का अग्र शेष आ) निधियों से अतिरिक्त i) उपादान / निधियाँ ii) निधियों लेख पर बने निवेश से आय iii) अन्य अतिरिक्त (प्रकृति उल्लेख करें) कुल (अ+आ) इ) निधियों के उद्देश्य के उपयोग / व्यय i) पूँजी व्यय ii) राजस्व व्यय कुल (इ) वर्ष-शेष तक नेट शेष (अ+आ+इ)	3,753,410  104,341  3,857,751  506,061 506,061 3,351,690	3,655,733  97,677  3,753,410   3,753,410
अनुसूची - 2 (अनुलग्नक "आ") ब्लॉक तथा पूँजी निधि वर्ष के आरम्भ में शेष वर्षाधीन वकत वर्षाधीन कटौती वर्ष-शेष तक शेष	232,492,169 46,714,167 4,507 279,201,829	210,163,465 22,328,704  232,492,169

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**शांतिनिकेतन**  
 31 मार्च, 2002 तक के तुलन-पत्र अंश निर्माण की अनुसूचियों

	राशि (रु.)	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष
अनुसूची -3 (अनुलग्नक "इ") आरक्षण तथा अधिकता		
1. मूल्यहास आरक्षण निधि		549,647
निधि का अथ शेष	779,954	
वित्तिय वर्षाधीन बढोतरी		230,307
निवेश पर व्याज	52,534	
वित्तिय वर्ष में कटौती		
वर्ष शेष तक शेष	832,488	779,954
2. विनियोग निधि-गृह निर्माण अग्रिम		
निधि का अथ शेष	25,390,000	18,890,000
वित्तिय वर्षाधीन अधिकता	5,000,000	6,500,000
वित्तिय वर्ष में कटौती		
वर्ष शेष तक शेष	30,390,000	25,390,000
3. राजस्व आरक्षण		
निधि का अथ शेष	244,788	13,381,295
वित्तिय वर्षाधीन अधिकता	23,659,550	
वित्तिय वर्ष में कटौती	5,375	13,136,507
वर्ष शेष तक शेष	25,898,963	244,788
4. पेंशन आरक्षण निधि		
निधि का अथ शेष	17,335,209	17,335,209
वर्ष में योग	512,990	
वर्षाधीन कटौती	6,031,589	
वर्ष शेष तक शेष	11,816,610	17,335,209

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**शान्तिनिकेतन**  
 31 मार्च, 2002 तक के तुलन-पत्र अंश निर्माण की अनुसूचियों

	राशि (रु.)	
	बालू वर्ष	विगत वर्ष
5. ग्रन्थन विभाग आरक्षण निधि निधि का अथ शेष वर्ष में योग वर्षाधीन कटौती वर्ष शेष तक शेष	18,235,335 3,124,819 2,346,627 19,013,527	18,235,335   18,235,335
6. शिल्प सदन आरक्षण निधि निधि का अथ शेष वर्षाधीन योग वर्षाधीन कटौती वर्ष शेष तक शेष	106,548 3,871  110,419	106,548   106,548
7. संगीत परिषद आरक्षण निधि विगत लेखानुसार वर्षाधीन योग वर्षाधीन कटौती वर्ष शेष तक शेष कुल	25,380 2,189  86,089,576	25,380   62,117,214
अनुसूची - 4 (अनुलग्नक "इ") धर्मत्व (इंजमेन्ट) निधियों अ) निधियों का अथ शेष आ) निधियों का योग I. उपादान / अनुदान II. नेट अर्जित निवेश आय (अनुलग्नक के अनुसार विस्तारित विभाजन) III. अन्य अतिरिक्त (निधि स्थानान्तरित) कुल (अ + आ)	11,275,072  50,000 744,622 32,786 12,102,480	6,737,974  4,512,898 24,200 11,275,072

19-13  
लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**शाब्दिकिकेन्द्र**  
 31 मार्च, 2002 तक के तुलन-पत्र और निर्माण की अनुसूचियों

	राशि (रु.)	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष
वर्षाधीन निस्सारित विनियोग निधि में स्थानान्तरण	97,352	
कुल (इ)	120,413	
वर्ष-शेष तक नेट	217,765	
शेष (अ+आ+इ)	11,884,715	11,275,072
अनुसूची - 5 (अनुलग्नक च) विनियोग निधि		
अ) निधियों का अथ शेष	5,959,269	3,682,817
आ) निधियों में योग		14,595
i) उपदान/अनुदान	374,605	2,261,857
ii) निवेश से अर्जित आय	120,413	
iii) योग (प्रकार सुनिश्चित करें)	6,454,287	5,959,269
कुल (अ+आ)		
इ) निधियों में ध्येय से उपयोग/व्यय		
i) सैजी व्यय	10,000	
ii) राजस्व व्यय	30,785	
iii) धर्मस्व निधि में स्थानान्तरण	40,785	
कुल (इ)	6,413,502	5,959,269
वर्ष शेष तक कुल शेष (अ+आ+इ)		

लेखा अधिकारी  
 विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**शान्तिनिकेतन**  
 31 मार्च, 2002 तक के तुलन-पत्र अंश निर्माण की अनुसूचियाँ

	राशि (रु.)	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष
अनुसूची - 6 (अनुलग्नक "ऊ") योजना अधीन विकास (डेवलप) अ) निधियों का अध शेष आ) निधियों में योग i. वर्षाधीन अनुदान प्राप्त ii. निवेश से आय iii. अन्य योग (प्रकार सुनिश्चित करें)	66,219,335 55,800,000 43,100 122,062,435	41,314,778 1,136,087 23,768,470 66,219,335
कुल (अ+आ)		
इ) निधियों के उद्देश्यों से सुनिश्चित करें		
i. पूँजी व्यय - जमा परिसम्पत्तियाँ - अन्य कुल ii. राजस्व व्यय - दैतन, मजदुरी तथा भत्ता आदि - किराया - अन्य प्रशासनिक व्यय स्पेक्ट निधि में स्थानान्तरण कुल	42,342,671 42,342,671 9,701,019 1,000,000 2,130,186 12,831,205 55,173,876 66,888,559	
कुल (इ)		
वर्ष शेष तक नेट शेष (अ+आ+इ)		66,219,335
अनुसूची - 7 (अनुलग्नक "झ") सरकार प्रायोजित शैक्षणिक तथा आरक्षण (एडुकेअर) प्रकल्प निधि अ) निधियों का अन्य शेष आ) निधियों में योग i. वर्षाधीन प्राप्त अनुदान ii. निवेश से आय निधियों के लेखा किया गया iii. अतिरिक्त योग	9,527,331 11,918,532 1,776,310 23,222,173	9,527,331 9,527,331
कुल (अ+आ)		

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती



**विश्वभारती**  
**शान्तिनिकेतन**  
 31 मार्च, 2002 तक के तुलन-पत्र अंश निर्माण की अनुसूचियाँ

	राशि (रु.)	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष
इ) निधियों के उद्देश्य से उपयोग/व्यय	7,962,120	
कुल (इ)	7,962,120	
वर्ष-शेष तक नेट शेष	15,260,053	9,527,331

अनुसूची - 8 (अनुलग्नक "एच") अन्य प्रायोजित प्रकल्प (आसप्रो) निधि अ) निधियों का अथ शेष आ) वर्षाधीन निधियों का योग इ) वर्षाधीन उपयोग	2,231,974 4,945,213 1,818,753 5,358,434	3,643,395 806,826 2,218,247 2,231,974
वर्ष-शेष तक नेट शेष		
अनुसूची - 9 (अनुलग्नक "आई") प्रायोजित क्रियाकलाप (स्पेक्ट) निधि अ) निधियों का अथ शेष आ) निधियों में योग i. वर्षाधीन अनुदान प्राप्त ii. निधियाँ लेखा पर निदेश से आव किया गया iii. अन्य निधि से स्थानान्तरण iv. अन्य योग	-493,772 6,959,448 2,130,186 5,700,205 14,296,067	
कुल (अ+आ)		
इ) निधियों के उद्देश्य से उपयोग/व्यय	13,066,582	493,722
वर्ष-शेष तक नेट शेष (अ+आ+इ)	1,229,485	-493,772

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**शान्तिनिकेतन**  
 31 मार्च, 2002 तक के तुलन-पत्र अंश निर्माण की अनुसूचियों

	राशि (रु.)	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष
अनुसूची - 10 (अनुलग्नक - "जे") निधि प्रवाह निधि अ) निधि का अथ शेष आ) वर्ष के अधीन अनुदान प्राप्त इ) वर्ष के अधीन उपयोग	1,274,449 504,944 956,130	297,735 1,699,248 722,534
वर्ष-शेष तक नेट शेष (अ+आ+इ)	823,263	1,274,449
अनुसूची - 11 (अनुलग्नक - "के") स्व-वित्तीय (सेल्फिनि) योजना निधि अ) निधियों का अथ शेष आ) निधियों में अतिरिक्त i. वर्षाधीन आय प्राप्त ii. निवेश से आय iii. अन्य अतिरिक्त (प्रकार उल्लेख करें)	2,651,643	
कुल (अ+आ)	2,651,643	
इ) निधियों के उद्देश्यों से उपयोग/व्यय	750,914	
कुल (इ)	750,914	
वर्ष-शेष तक नेट शेष (अ+आ+इ)	1,900,729	

लेखा अधिकारी  
 विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**शान्तिनिकेतन**  
 31 मार्च, 2002 तक के तुलन-पत्र अंश निर्माण की अनुसूचियाँ

	राशि (रु.)	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष
<b>अनुसूची - 12</b>		
जमा तथा अग्रिम		
1. तैन्द्र सरकार	-	-
2. राजस्व सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक	-	-
अ) सानवधि कर्ज	-	-
आ) अन्य कर्ज (उल्लेख करें)	-	-
5. अन्य संस्थान तथा एजेंसियाँ	-	-
6. ऋणपत्र एवं बंधपत्र	-	-
7. मीयादी जमा	-	-
8. अन्य विविध जमा	19,352,800	15,264,234
<b>कुल</b>		
<b>अनुसूची - 13 (अनुलग्नक - एल)</b>		
चालू दायितारें तथा प्राबधान		
अ. चालू दायितारें		
1. गैर-वितरित छात्रवृत्तियाँ/दजीफा	345,043	226,337
2.		
3. सांविधिक दायितारें		
अ) अतिदेय	--	--
आ) अन्य	--	--
4. अन्य चालू दायितारें	1,424,299	900,044
<b>कुल (अ)</b>	1,769,342	1,126,381

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती





## विश्वभारती

## शान्तिनिकेतन

31 मार्च, 2002 तक के तुलन-पत्र अंश निर्माण की अनुसूचियाँ

	राशि (रु.)	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष
अनुसूची - 15 धर्मस्व निधि से निवेश (अनुलग्नक - "एम")		
1. सरकारी प्रतिभूति		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूति		
3. शेअर		
4. ऋणपत्र एवं बंधपत्र		
5. समनुबंजी एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य भारतीय स्टेट बैंक में मीयादी जमा (उल्लेख करें)	6,762,174	6,762,174
कुल	6,762,174	6,762,174

	राशि (रु.)	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष
अनुसूची - 16 अन्य निवेश (अनुलग्नक - "एम")		
1. सरकारी प्रतिभूति		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूति		
3. शेअर	9,000	9,000
4. ऋणपत्र एवं बंधपत्र		
5. समनुबंजी एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (उल्लेख करें) अ) डाक वयत बैंक	20,203	20,203
आ) बैंक आव इंडिया प्रमाणपत्र	3,575	3,575
इ) कापेरटिव बैंक में	7,936	7,936
ई) भारतीय स्टेट बैंक में	42,697,343	42,697,343
कुल	42,738,057	38,405,472

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**शान्तिनिकेतन**  
२१ मार्च, २००२ तक के तुलन-पत्र अंश निर्माण की अनुसूचियों

अनुसूची - 17 चालू परिसम्पत्तियों, कर्ज, अग्रिम आदि (अनुलानक "एन")	चालू वर्ष	विगत वर्ष
<b>अ. चालू परिसम्पत्तियाँ</b>		
1. सुची		
अ) भंडार तथा स्पेअर्स	3,499,867	2,797,708
आ) स्वच्छंद उपकरण		
इ) व्यापार के लिए स्टॉक		
तैयार माल प्रगति पर		
कच्चा माल		
2. विविध देनदार		
अ) 6 महीना से अधिक अवधि के लिए बकाया कर्ज	3,698,867	2,797,708
आ) अन्य	17,530	161,780
3. हाथ में नकद (चेक/ड्राफ्ट तथा अप्रदाय सह)	692,316	41,126
4. बैंक शेष		
अ) सहित अनुसूचित बैंक		
चालू लेखा	116,973,723	95,188,689
जमा लेखा (सीमित राशि सह)		
वचत बैंक		
आ) सहित गैर-अनुसूचित बैंक		
चालू लेखा	116,973,723	95,188,689
जमा लेखा		
वचत लेखा		
5. डाकघर वचत लेखा		
कुल (अ)	121,382,436	121,382,436
		98,189,303

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**शान्तिनिकेतन**  
31 मार्च, 2002 तक के तुलन-पत्र अंश निर्माण की अनुसूचियाँ

	राशि (रु.)	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष
आ. कर्ज, अग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियाँ		
1. कर्ज		
अ) स्टाफ (एचबीए)	24,631,046	17,210,234
आ) अन्य सम्पत्तियाँ क्रियाकलाप/उद्देश्य से नियोजित		
इ) अन्य (उल्लेख) अग्रिम (जी)+अग्रिम (आर)+अग्रिम उत्सव	23,399,946	16,926,768
2. अग्रिम तथा अन्य राशि नगद तथा सामग्री से अदाययोग्य अथवा मूल्य प्राप्त योग्य		
अ) पूँजी लेखा		
आ) पूर्व भुगतान	483,457	483,457
इ) अन्य (उद्धित)		
3. आय अर्जित		
अ) उद्दीष्ट/धर्मस्व निधियों से निवेश		
आ) निवेश - अन्य		
इ) कर्ज तथा अग्रिम		
ई) अन्य (छात्र शुल्क)	962,892	760,945
(गैर-वसूल आय वनाया सह रु.....)		
4. दावा प्राप्ययोग्य		
कुल (आ)	49,477,341	34,897,947
कुल (अ+आ)	170,859,777	133,087,250

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती



विश्वभारती  
शान्तिनिकेतन

अनुलोक - अ से अनुसूची - 1	रु.	प.
पूर्वी निधि		
एस.बी.आई.दान (इन्व.)	2,030,762.00	
विजया मिलान अनुदान	125,000.00	
जमा निधि (इन्व.)	1,048,323.47	
शताब्दिकी निधि	130,684.03	
विविध उत्पादान	292,020.73	
अरुण सरकार आनन्द बाजार मंत्रका	28,943.75	
अथ शेष - 2000 - 2001	3,655,733.98	
योग: इन्व. गलती जमा निवेश से आय	97,677.40	
अथ शेष	3,753,411.38	
योग: इन्व. गलती जमा निवेश से आय	104,340.68	
वर्षाधीन व्यय	3,857,752.06	
इति शेष 2001 - 2002	506,061.00	
	3,351,691.06	

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**शान्तिनिकेतन**

अनुलग्नक - आ से अनुसूची - 2  
खाक पूंजी निधि : खाक परिसम्पत्तियों

	अन्य शेष		अतिरिक्त		कटौती		कुल शेष		निम्न अनुदान से	
	रु.	प.	रु.	प.	रु.	प.	रु.	प.	2009-02 वर्षी अवधि से परिसम्पत्तियों अर्जित	रु.
1. भूमि	2,585,826.21	-	-	-	-	-	2,585,826.21	-	अनुरक्षण	4,371,496.61
2. मवन	104,114,733.98	-	21,830,363.78	-	-	-	125,945,097.76	-	अनुदान	42,342,670.66
3. जल आपूर्ति	5,768,392.49	-	-	-	-	-	5,768,392.49	-	विकास निधि	
4. विद्युत संस्थापन	1,329,348.78	-	4,391.00	-	-	-	1,333,739.78	-		
5. वाहन दीवारी एवं घेरा	1,156,433.53	-	287,984.00	-	-	-	1,444,417.53	-		
6. सड़क तथा नालियाँ	1,676,181.82	-	-	-	-	-	1,676,181.82	-		
7. तरण ताल	8,499.61	-	-	-	-	-	4,499.61	-		
8. मशीनरी एंड प्लान्ट्स	12,384,634.10	-	99,435.00	-	-	-	12,484,069.10	-		
9. एक्सरे / कार्डोग्राफी	350,756.48	-	-	-	-	-	350,756.48	-		
10. चिकित्सालय उपकरणों	21,725.48	-	-	-	-	-	21,725.48	-		
11. मोटर/बस/साइकिल आदि	1,686,396.26	-	-	-	-	-	1,686,396.26	-		
12. फर्नीचर तथा उपकरण	40,801,319.03	-	17,341,809.14	-	-	-	58,143,128.17	-		
13. वैज्ञानिक प्रयोगशाला उपकरणों तथा फर्निचर	18,428,609.03	-	748,646.00	-	-	-	19,177,255.03	-		
14. टाइप्स एवं प्रेस के लिए केसेज	381,650.80	-	-	-	-	-	381,650.80	-		
15. पुस्तकालयों ग्रन्थ एवं पाठ्यलिपियाँ	41,602,337.28	-	6,401,538.35	-	4,506.65	-	47,999,368.98	-		
16. चित्रकलर/आकृतियों तथा रेखाचित्र	70,324.43	-	-	-	-	-	70,324.43	-		
17. फापी राइट	125,000.00	-	-	-	-	-	125,000.00	-		
	232,492,169.31	-	46,714,167.27	-	4,506.65	-	279,201,829.93	-		46,714,167.27

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

अनुलग्नक - इ से अनुसूची - 3

आरक्षण तथा अतिरिक्त

1. मूल्य प्राप्त निधि आरक्षण निधि

	राज्य निधि रु. प.	ग्राम्य वर्ष रु. प.	विगत वर्ष रु. प.
अ) शान्तिनिकेतन प्रेस - मूल्यहास निधि	64,977.00	78,464.00	72,473.00
आ) विनयमवन मूल्यहास	31,729.00	87,615.00	84,601.00
इ) मूल्यहास साधारण	452,941.00	666,227.00	622,880.00
	549,647.00	832,488.00	779,945.00
2. गृह निर्माण अग्रिम के लिए चक्राकार निधि			
अथ शेष		25,390,000.00	18,890,000.00
वित्तीय वर्ष में योग		5,000,000.00	6,500,000.00
		30,390,000.00	25,390,000.00
3. राजस्व आरक्षण :			
अथ शेष			13,189,824.00
आय की अधिकता			323,088.00
कमी : गोजनालयों में हानि			13,512,912.00
योग : उपचार्य की विवेकाधीन निधि			201,333.00
दूरदर्शन से शुल्क			13,311,579.00
कमी : आय से ऊपर व्यय की औद्यकता			53.00
हति शेष			69,664.00
अथ शेष			13,311,579.00
योग : आय की अधिकता			13,136,508.00
			244,788.00
कमी : दूरदर्शन के शुल्क से व्यय (रु. 69,664.00 - रु. 64,289.00)		244,788.00	
		23,659,550.00	
		23,904,338.00	
		5,375.00	
		23,898,963.00	

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

विश्वभारती  
शान्तिनिकेतन

अनुलग्नक - इ से अनुसूची - 3 (क्रमशः)

	समूह निधि		चातुर्वर्ष		विगत वर्ष	
	रु.	पै.	रु.	पै.	रु.	पै.
4. पेशान आरक्षण निधि			11,816,610.00		17,335,209.00	
5. ग्रन्थन विभाग आरक्षण निधि			19,013,527.00		18,235,335.00	
6. शिल्पसदन आरक्षण निधि			110,419.00		106,548.00	
7. संगीत परिषद आरक्षण निधि			27,569.00		25,380.00	
			30,968,125.00		35,702,472.00	
कुल (1 से 7) राजस्व आरक्षण			86,089,576.00		62,117,214.00	

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**शान्तिनिकेतन**  
धर्मत्व निधि का सम्पत्ति विवरण

अनुसूचक - ई से अनुसूची नं - 4

क्रमिक	समूह निधि	नियेश	1.4.2003 तक व्यय संचित		वर्षीय व्यय अर्जित	वर्षीय संचित	31.3.2002 तक संचित व्यय	31.3.2002 तक निधि
			अ	आ	इ	उ	(इ+ई+उ)	ए (अ+ए)
1	2	शान्तिनिकेतन आश्रमिक संघ	29,970.44	29,970.40	78,140.86	4,994.33	83,135.19	113,105.63
2	3	आश्रमिक संघ पुरस्कार (I)	7,028.89	7,028.14	15,517.44	839.89	16,197.33	23,226.22
3	5	बाई हीरा बाई	15,481.00	15,481.00	45,762.15	2,208.79	47,970.94	63,451.94
4	6	सुन्दरलाल अय्यादेन	500.00	500.00	1,068.50	140.00	1,208.50	1,708.50
5	7	वीरभूम स्मारक	15,990.00	15,990.00	32,414.77	1,839.80	34,254.57	50,244.57
6	8	कुमारी अपराजीता यदक	1,600.00	1,600.00	1,762.59	190.50	1,953.09	3,553.09
7	9	बरदाकान्त स्मारक	1,450.00	1,450.00	2,286.16	156.72	2,442.88	3,892.88
8	12	अरुण अभित धर्मदाय	16,531.98	16,541.98	3,964.76	1,985.04	4,949.80	21,481.78
9	14	टंगोर हाइवेन	1,250.00	1,250.00	2,892.05	205.85	3,097.90	4,347.90
10	15	एच.के.कांग	35,000.26	35,000.26	34,533.13	4,543.37	39,076.50	74,076.76
11	16	स्मृति स्मारक	3,602.95	3,602.95	5,979.76	396.61	6,376.37	9,979.32
12	17	अजित/मीरा/प्रतिमा पुरस्कार	520.00	520.00	609.63	58.65	643.28	1,163.28
13	19	शिक्षा-सत्र पुरस्कार (ए.टी.सेन)	525.00	525.00	467.52	62.40	529.92	1,054.92
14	22	गोपा स्मारक	2,100.00	2,100.00	3,587.94	249.48	3,837.42	5,937.42
15	28	दीनबन्धु एनडुज स्मारक	557,801.68	557,801.31	181,546.15	62,476.48	331,334.63	889,136.31
16	31	गवेषणा छात्रवृत्ति (एन.आर. घर)	317,522.10	317,522.31	677,361.69	50,293.63	727,655.32	1,045,177.42
17	35	शान्तमयी पुरस्कार (स्वर्ण पदक)	3,000.00	3,000.00	2,475.86	360.00	2,565.86	5,565.86
18	37	एस.के. लाहिडी स्मारक पुरस्कार	2,007.25	2,000.00	6,424.84	360.00	6,784.84	8,792.09
19	40	राम चन्द्र पांडा स्मारक	1,000.00	1,000.00	3,143.93	80.50	3,224.43	4,224.43
20	41	इन्दुवाला मजुमदार पुरस्कार	2,500.00	2,500.00	6,684.82	200.25	6,885.07	9,385.07
21	42	जगत मोहिनी पुरस्कार	1,000.00	1,000.00	1,121.42	80.50	1,101.92	2,101.92
22	43	निवारण चन्द्र पुरस्कार	1,000.00	1,000.00	1,613.82	80.50	1,594.32	2,594.32
23	45	आश्रमिक संघ पुरस्कार (II)	2,152.00	2,152.00	2,165.22	172.17	2,232.39	4,384.39
24	46	आश्रमिक संघ रेस्टोरेशन आर्य नोबेल पुरस्कार	21,449.75	21,449.75	61,575.76	2,573.96	64,149.72	85,599.47
25	48	नित्यानन्द विनोद गोस्वामी पुरस्कार	2,644.27	2,644.00	2,596.03	418.22	2,755.25	5,399.52
26	49	बर्डी मदन	949.52	949.52	1,401.93	113.95	1,515.88	2,465.40
27	50	नीपेन्द्र चन्द्र बन्धोपाध्याय स्मारक	48,000.00	48,000.00	20,173.31	5,240.00	22,189.31	70,189.31

**विश्वभारती**  
**शान्तिभिकेतव**  
धर्मस्व निधि का समेकित विवरण

अनुलग्नक - ई से अनुसूची नं - 4

क्रमांक	समूह निधि	निवेश	1.4.2001 तक व्यय संचित	वर्षाधीन व्यय अर्जित	वर्षाधीन संचितरण	31.3.2002 तक संचित व्यय	31.3.2002 तक निधि
	अ	आ	इ	ई	उ	क (इ+ई+उ)	ए (अ+ज)
28	2,141.00	2,141.00	6,855.73	228.09		7,083.82	9,224.82
29	5,000.00	5,000.00	16,922.84	901.67		17,824.51	22,824.51
30	2,125.00	2,125.00	5,706.79	305.00		6,011.79	8,136.79
31	1,000.00	1,000.00	3,422.05	105.00		3,527.05	4,527.05
32	5,025.57	5,025.00	5,377.35	902.40		6,279.75	11,305.32
33	610.41	610.00		58.00		58.00	668.41
34	1,224.09	1,224.00	938.00	148.00		1,086.00	2,310.09
35	1,605.00	1,605.00	4,172.27	288.45		4,460.72	6,065.72
36	530.00	530.00	970.27	74.80		1,045.07	1,575.07
37	40,031.50	40,031.00	11,219.88	4,402.96	2,486.50	13,136.34	53,167.84
38	3,160.00	3,160.00	6,962.63	379.20		7,341.83	10,501.83
39	1,000.00	1,000.00	2,544.79	115.00		2,659.79	3,659.79
40	5,568.00	5,568.00	8,102.14	668.16		8,770.30	14,338.30
41	2,000.00	2,000.00	1,381.41	205.00		1,586.41	3,586.41
42	142,204.00	142,204.00	218,494.40	23,482.32		241,976.72	384,180.72
43	7,400.30	7,400.30	12,919.78	425.76		13,345.54	20,745.84
44	500.00	500.00	429.79	90.00	45.00	474.79	974.79
45	35,000.00	35,000.00	11,819.03	4,700.00	2,188.50	14,330.53	49,330.53
46	535.00	535.00	1,413.16	93.57		1,506.73	2,041.73
47	15,000.00	15,000.00	40,248.00	2,700.00		42,948.00	57,948.00
48	10,000.00	10,000.00	15,803.02	1,800.00		17,603.02	27,603.02
49	3,373.87	3,373.87	7,676.19	303.62		7,979.81	11,353.68
50	2,000.00	2,000.00	3,468.28	240.00		3,708.28	5,708.28
	25,000.00	25,000.00	27,052.92	4,483.33		31,536.25	56,536.25
	12,000.00	12,000.00	17,054.50	1,440.00		18,494.50	30,494.50
	300.00	300.00	-986.11	36.00		-950.11	-650.11
	5,400.00	5,400.00	4,485.25	581.74		5,066.99	10,466.99

**विश्वभारती**  
**शास्त्रिकेतर**  
धर्मस्य निधि का समेकित विवरण

अनुलग्नक - ई से अनुसूची नं - 4

क्रमिक	समूह निधि	निवेश	1.4.2001 तक			वर्षीय संवितरण	31.3.2002 तक		31.3.2002 तक
			अ	आ	इ		संचित व्यय	ऊ	
							(इ+ई+ऊ)		ए (अ+ऊ)
55	हाराधन बसु अभ्यावेदन	50,000.00		50,000.00	80,900.47	4,312.50		85,212.97	135,212.97
56	सुधाकर चट्टोपाध्याय अभ्यावेदन	20,237.90		20,237.90	7,925.24	1,753.55	4,500.00	5,178.79	25,416.69
57	अनिय स्मृति पुरस्कार	1,500.00		1,500.00	1,327.89	144.00		1,471.89	2,971.89
58	प्रोबोध चन्द्र बागची अभ्यावेदन	30,000.00		30,000.00	3,124.67	4600.00	2,205.00	5,519.67	35,519.67
59	अनिल मट्टाचारिया अभ्यावेदन भाषण	3,500.00		3,500.00	8,601.75	630.00		9,231.75	12,731.75
60	प्राणधन ध्यानजी	15,000.00		15,000.00	34,127.50	1,800.00		35,927.50	50,927.50
61	मन्दकिनी चटर्जी अभ्यावेदन निवेश	2,000.00		2,000.00	2,923.25	240.00		3,163.25	5,163.25
62	शोभा सांन्याल अभ्यावेदन	2,000.00		2,000.00	3,042.12	240.00	90.00	3,192.12	5,192.12
63	अनिल कुमार चन्द अभ्यावेदन	12,000.00		12,000.00	19,966.00	2,164.00		22,130.00	34,130.00
64	धीरेन्द्र रय छात्रवृत्ति	4,000.00		4,000.00	5,661.23	480.00		6,141.23	10,141.23
65	नयापति अंकट रंगनायेकेम्मा वि. वि.	1,000.00		1,000.00	5,972.42	120.00	100.00	5,972.42	5,972.42
66	पि. के. दे सरकार अभ्यावेदन	300.00		300.00	629.73	54.00		649.73	1,649.73
67	शैवालिनी पुस्तक पुरस्कार	12,000.00		12,000.00	87.55	2,640.00		142.55	441.55
68	सोमना बनिक अक्षय निधि	75,000.00		75,000.00	4,893.00	8,788.40	1,200.00	6,333.00	18,333.00
69	हाजारी प्रसाद दिवेदी अभ्यावेदन भाषण	10,000.00		10,000.00	24,573.54	1,800.00		33,361.94	108,361.94
70	एम.एस. स्वामीनाथन अक्षय निधि	3,000.00		3,000.00	13,315.95	631.50		15,115.95	25,115.95
71	राम किंकर बेज पुरस्कार	500.00		500.00	1,708.00	90.00		2,339.50	5,339.50
72	तेजस चन्द्र सैम पुस्तक पुरस्कार	12,135.35		12,135.35	461.30	1,456.20		551.30	1,051.30
73	दिनेन्द्र नाथ टोगोर अभ्यावेदन निवेश	1,001.00		1,001.00	19,493.99	86.34		20,950.19	33,085.54
74	अपर्णा स्मृति आनकान प्रतियोगिता	31,073.00		31,073.00	390.90	3,728.57		477.24	1,478.24
75	आचार्य नन्दलाल बोस अक्षय निधि	1,000.00		1,000.00	15,052.39	180.00	2,400.00	16,380.96	47,453.96
76	चारु चन्द्र मट्टाचार्य पुस्तक पुरस्कार	5,000.00		5,000.00	880.00	600.00	100.00	960.00	1,1960.00
77	सुनय कुमार टोगोर अभ्यावेदन	300.00		300.00	3,010.17	36.00		3,610.17	8,610.17
78	कश्चि मोहन स्मृति पुरस्कार	140,001.00		140,001.00	171.65	16,300.11		207.65	507.65
79	निखिल बन्दोपाध्याय अक्षय निधि	5,000.00		5,000.00	85,495.02	500.00		101,795.13	241,796.13
80	कमल लक्ष्मी घोष अभ्यावेदन	10,000.00		10,000.00	7,418.28	1,200.00		7,918.28	12,918.28
81	सोमनाथ होरु अक्षय निधि				4,399.32			5,599.32	15,599.32

**विश्वभारती**  
**शान्तिनिकेतन**  
**धर्मस्व निधि का समेकित विवरण**

अनुलग्नक - ई से अनुसूची नं. 4

क्रमांक	समूह निधि	निवेश	4.2001 तक व्यय संचित	वर्षादिन व्यय अर्जित	वर्षाधीन संचितरण	31.3.2002 तक संचित व्यय	31.3.2002 तक निधि
	अ	आ	इ	ई	उ	ऊ (इ+ई+उ)	ए (अ+ऊ)
82	15,000.00	15,000.00	6,600.73	1,700.00	1,792.00	6,508.73	21,508.73
83	3,500.00	3,500.00	4,836.17	420.00		5,256.17	8,756.17
84	1,235.00	1,235.00	664.01	148.20	40.00	772.21	2,007.21
85	1,000.00	1,000.00	1,410.07	107.50		1,517.57	2,517.57
86	2,000.00	2,000.00	2,820.14	215.00		3,035.14	5,035.14
87	2,500.00	2,500.00	2,661.67	268.73		2,930.40	5,430.40
88	10,000.00	10,000.00	5,082.69	1,075.00	500.00	5,657.69	15,657.69
89	3,000.00	3,000.00	956.04	285.00	300.00	941.04	3,941.04
90	3,000.00	3,000.00	2,605.74	285.00		2,890.74	5,890.74
91	2,000.00	2,000.00	2,274.21	190.00		2,464.21	4,464.21
92	101,838.00	101,838.00	94,114.68	14,433.79		108,548.47	210,386.47
93	12,000.00	12,000.00	14,422.00	1,440.00		15,862.00	27,862.00
94	10,000.00	10,000.00	9,278.79	950.00		10,228.79	20,228.79
95	4,001.00	4,001.00	2,225.67	405.08		2,630.75	6,631.75
96	6,000.00	6,000.00	7,652.00	720.00		8,372.00	14,372.00
97	2,000.00	2,000.00	2,526.00	360.67		2,886.67	4,886.67
98	4,000.00	4,000.00	3,121.33	480.00		3,601.33	7,601.33
99	20,000.00	20,000.00	9,888.67	2,475.00		12,363.67	32,363.67
100	2,001.00	2,001.00	1,360.80	215.10		1,575.90	3,576.90
101	220,000.00	220,000.00	287,011.33	24,900.00		311,911.33	531,911.33
102	3,000.00	3,000.00	1,239.00	322.50		1,561.50	4,561.50
103	5,000.00	5,000.00	6,264.67	537.50		6,802.17	11,802.17
104	3,000.00	3,000.00	2,891.00	360.00		3,251.00	6,251.00
105	1,000.00	1,000.00	1,154.00	104.07		1,258.07	2,258.07
106	1,000.00	1,000.00	1,154.00	75.00		1,229.00	2,229.00
107	15,000.00	15,000.00	10,974.73	1,575.00		12,549.73	27,549.73
108	25,000.00	25,000.00	28,758.33	3,000.00		31,758.33	56,758.33



**विश्वभारती**  
**शान्तिनिकेतन**  
**धर्मस्य निधि का समोक्त विवरण**

अनुलग्नक - ई से अनुसूची नं - 4

क्रमांक	समूह निधि	निवेश	1.4.2001 तक धन्य संश्लिष्ट	वर्षादिन व्यय अर्जित	वर्षादिन संवितरण	31.3.2002 तक संश्लिष्ट व्यय	31.3.2002 तक निधि
	अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ए
						(इ+ई+उ)	(अ+ऊ)
109	146	योतस्ता कुमार घोष	12,000.00	12,000.00		14,236.67	26,236.67
110	147	कृष्णलाल बसु अभ्यावेदन माषण	40,000.00	3,800.00		43,350.96	83,350.96
111	148	प्रतिमा घटजी अक्षय निधि	30,000.00	5,380.00		35,985.00	65,985.00
112	149	शैलजा शंकर रय पुस्तक पुरस्कार	3,000.00	322.50	25.00	2,380.50	5,380.50
113	150	के.भी. रमन मेरी छात्रवृत्ति	50,000.00	6,250.00		49,358.00	99,358.00
114	151	अपूर्व प्रकाश शिल्प निधि के लिए देव कला शास्त्र	30,000.00	3,750.00		28,321.00	58,321.00
115	152	सर्गीय अनिल घटजी गुप्त	15,000.00	1,425.00		16,390.11	31,390.11
116	153	डा. अभिलाष मुखोपाध्याय अभ्यावेदन निधि	10,000.00	7,842.00	1,600.00	7,492.00	17,492.00
117	155	अक्षय निधि के लिए केसर तथा यूनिट के लिए परिकल्पणा एवं विकास	3,500,000.00	1,460,884.20	31,791.00	1,780,343.20	5,280,343.20
118	156	स्वर्गीय रेखा बनर्जी अक्षय निधि	20,000.00	2,050.00		14,995.00	34,995.00
119	157	स्वर्गीय विरेश रञ्जन देवनाथ पुस्तक निधि	10,000.00	6,737.50		7,737.50	17,737.50
120	158	चिन्ताहरण प्रभावती मजुमदार सेम.एससिएच. निधि	15,000.00	7,226.55		7,976.55	22,976.55
121	159	मोनोरञ्जन सेनगुप्त पुस्तक पुरस्कार निधि	18,000.00	1,822.50		14,152.50	32,152.50
122	160	स्वर्गीय सुरेश चन्द्र सेनगुप्त पुस्तक निधि	100,000.00	15,735.00	10,264.00	15,596.00	115,596.00
123	161	स्वर्गीय सन्तोष कुमार बोस पुस्तक पुरस्कार	10,000.00	4,091.11		5,091.11	15,091.11
124	165	पि.के. गुप्त पुरस्कार निधि	40,000.00	20,250.00		24,250.00	64,250.00
125	166	कला-मवन के लिए प्रतिमा देवी छात्रवृत्ति	70,000.00	38,612.86		46,662.86	116,662.86
126	167	संगीत मवन के लिए प्रतिमा देवी छात्रवृत्ति	70,000.00	38,612.86		42,637.86	112,637.86
127	168	स्वर्गीय महामोहनाध्याय विष्णु सेखर शास्त्री	10,000.00	4,562.50		5,562.50	15,562.50
128	169	शिवाजी नाग स्मृति पुरस्कार	2,000.00	830.00		1,030.00	3,030.00
129	171	देवीदास मट्टाचार्य अक्षय निधि	100,000.00	11,500.00	15,344.00	24,198.00	124,198.00
130	172	प्रोबोध चन्द्र सेन अक्षय निधि	10,000.00	879.50	1,000.00	742.00	10,742.00

## विश्वभारती

## शास्त्रिकेन्द्र

भारत निधि का समेकित विवरण

अनुदानक ई से अनुपूर्वी नं - 4

क्रमांक

क्रमांक	अनुदानक ई से अनुपूर्वी नं - 4	विवरण	समूह निधि		निवेश	1.4.2001 तक व्यय संचित		वर्षाधीन व्यय अर्जित	वर्षाधीन संचित	31.3.2002 तक व्यय		31.3.2002 तक निधि	
			अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ए				
131	174	डेभलजमेन्ट प्रोजेक्ट केरिएर के लिए ठाकुर मी.											
		हरिप्रसाद निधि	17,180.00	17,180.00		1,632.08		1,632.08		1,632.08		18,812.08	
132	175	असिन दासगुप्त अक्षय निधि	5,000.00	5,000.00	1,400.00	575.00	1,450.00	525.00		525.00		5,525.00	
133	176	स्वर्गीय जयन्त चन्द्र बसु मल्लिक अक्षय निधि	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00		20,000.00		120,000.00	
134	177	स्वर्गीय सुहाग कुमारी नाहार	80,000.00	80,000.00	8,000.00	8,000.00		16,000.00		16,000.00		96,000.00	
135	178	शान्तिदेव स्मृति संगीत प्रतियोगिता निधि	20,000.00	20,000.00		1,900.00		1,900.00		1,900.00		21,000.00	
136	179	प्रभास जीवन चौधुरी अक्षय निधि	4,200.00	4,200.00		399.00		399.00		399.00		4,599.00	
137	180	करुणामयी पुरस्कार निधि	50,000.00					0.00		0.00		50,000.00	
			6,789,314.08	6,724,313.69	4,448,129.02	744,621.55	97,352.00	5,095,398.57		11,884,712.65			

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**शान्तिभिकेतन**  
**विनियोग निधि पर समेकित विवरण**

अनुसूचक - उ से अनुसूची नं - 5

क्रम.सं.	समूह निधि	निवेश	1.4.2001 तक व्यय संवित	वर्षाधीन व्यय अर्जित	वर्षाधीन संवितरण	31.3.2002 तक संवित व्यय	31.3.2002 तक निधि
	अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ए
1	20,203.47	20,203.47				0.00	20,203.47
2	8,422.50	8,422.50	18,379.57	971.21		19,350.78	27,773.28
3	2,800.00	2,800.00	7,612.63	304		7,916.63	10,716.63
4	1,410.00	1,410.00	2,137.57	169.2		2,306.77	3,716.77
5	4,535.00	4,535.00	2,579.14	539.68		3,118.82	7,653.82
6	26,250.00	26,250.00	46,850.92	3150		50,000.92	76,250.92
7	26,998.75	26,998.75	58,108.43	3059.09		61,167.52	88,166.27
8	7,811.50	7,811.50	16,873.33	896.29		17,769.62	25,581.12
9	16,100.75	16,100.75	34,902.92	1832.02		36,734.94	52,835.69
10	132,109.07	132,109.07	78,139.27	17818.22		95,957.49	228,066.56
11	19,653.50	19,653.50	47,926.20	2551.75		50,477.95	70,131.45
12	7,669.75	7,669.75	15,908.51	897.21		16,805.72	24,475.47
13	20,582.75	20,582.75	13,250.57	2206.07		15,456.64	36,039.39
14	2,044.27	2,044.27	5,262.12	237.81		5,499.93	7,544.20
15	2,315.00	2,315.00	3,870.30	289.8		4,160.10	6,475.10
16			1,039.52			1,039.52	1,039.52
17	56,514.00	56,514.00	200,507.05	6944.81		207,451.86	263,965.86
18	2,049.86	2,049.00	3,112.62	371.39		3,484.01	5,533.87
19	5,612.95	5,612.95	15,690.28	485.31		16,175.59	21,788.54
20	40,360.00	40,360.00	79,013.73	4,843.20		83,856.93	124,216.93
21	2,284.68	2,284.68	3,511.04	274.16		3,785.20	6,069.88
22	13,357.29	13,357.00	721.00	951.69		1,672.69	15,029.98
23	21,580.07	21,580.00	64,685.24	2588		67,273.24	88,853.31
24	544,853.11	544,852.76	272,334.58	61,007.12		333,341.70	878,194.81
25	3,575.00		9,693.58	3178		12,871.58	16,446.58
26	150,517.52	150,517.02	205,562.08	27157.72		232,719.80	383,237.32
27	260,344.65	260,344.65	428,058.70	33503.86	10000	451,562.56	711,907.21
28	44,916.39	44,916.00	71,905.01	6376.44		78,281.45	123,197.84

**विश्वभारती**  
**शान्तिनिकेतन**  
**विनियोग निधि पर समेकित विवरण**

अनुलग्नक - उ से अनुसूची नं - 5

क्रम.सं.	समूह निधि	निवेश	1.4.2001 तक व्यय संचित			वर्षाधीन व्यय अर्जित	वर्षाधीन संवितरण	31.3.2002 तक संचित व्यय	31.3.2002 तक निधि
			अ	आ	इ				
28	79	वेस्ट बेंगल स्टेट कोप. इजुनिअन	20,000.00	20,000.00	12,981.14	2200		15,181.14	35,181.14
29	90	वेस्ट बेंगल स्टेट पंचायत परिषद	20,000.00	20,000.00	9,673.25	1863		11,536.25	31,536.25
30	106	एनयमास निधि	7,100.00	7,100.00	8,875.82	903.75		9,779.57	16,879.57
31	107	रवीन्द्र भवन विकाश के लिए रवीन्द्र रचनावली निधि	780,000.00	780,000.00	172,145.92	104614		276,759.92	1,056,759.92
32	109	फांड फार प्रिजरवेशन आव मुरेलस आव सार्देन बिल्डिंग	162,500.00	162,500.00	255,726.36	20912		276,638.36	439,138.36
33	132	कालचारलप्रमोशन एकटिभिडिज इन विद्याभवन	5,000.00	5,000.00	6,617.67	600		7,217.67	12,217.67
34	162	रवीन्द्र रिसार्चस प्रकल्प	712,500.00	712,500.00	28.00			28.00	712,528.00
35	164	टेगोर सोसाइटी आव कोरिया	68,000.00	68,000.00	37,655.00	7140		44,795.00	112,795.00
36	163	भि.वि. सोसाइटी निधि	300.00	300.00	36.00	18		54.00	354.00
37	173	रतन टाटा ट्रस्ट फार रतन कुंठि	500,000.00	500,000.00	117,250.00	53750		171,000.00	671,000.00
			3,720,271.83	3,716,694.30	2,328,625.07	374,604.80	10,000.00	2,693,229.87	6,413,501.70

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

## विश्वभारती शांतिनिकेतन

संलग्नक - एक विकास निधि अनुसूची नं. 6

	चालू वर्ष (रु)	पिछले वर्ष (रु)	आन्तप्रवाह (रु)	बहिर्गमन (रु)
1. 5म योजना के बाहार आवश्यक स्टाफ आवास	-106,276	-106,276		
2. गणितशास्त्र विभाग भवन का अतिरिक्त निर्माण	-37,190	-37,190		
3. शांतिनिकेतन में परिसर का विकास	-7,631	-7,631		
4. शिक्षाभवन पुस्तकालय भवन का निर्माण	-737	-737		
5. प्रस्तावित कलादीर्घा का निर्माण	-14,694	-14,694		
6. संगीत भवन का विस्तार	-1,041	-1,041		
7. वर्तमान छात्र सुविधाओं का सुधार एवं नवीकरण	-40,608	-40,608		
8. 100 स्थानवाले छात्रावास का निर्माण (पुराना)	-5,000	-5,000		
9. विश्वभारती सेवा इन्स्टीट्यूट केन्द्र के लिए भवन का निर्माण	-62,403	-62,403		
10. केन्द्रीय लेखा कार्यालय के अतिरिक्त आवास का निर्माण	-438,260	-438,260		
11. सभाघर का निर्माण	-927	-927		
12. श्रीनिकेतन में 3 पेसेंजर शेड का निर्माण	-43,094	-43,094		
13. छात्र कल्याण मोजनलाल	-195,789	-195,789		
14. अतिरिक्त शारीरिक शिक्षाभवन का निर्माण	-1,437	-1,437		
15. शिल्पसदन में प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला का निर्माण	-94,567	-94,567		
16. जीवशास्त्र विभाग का विस्तार	-5,000	-5,000		
17. रसायनशास्त्र विभाग के लिए अतिरिक्त कक्षाकक्ष का निर्माण	-133,147	-133,147		
18. अतिरिक्त अतिथिशाला का निर्माण (पुराना)	-17,591	-17,591		
19. पी.एम अस्पताल के लिए गाराज का निर्माण	-95,216	-95,216		
20. प्रहरा एवं निगरानी भवन का निर्माण	-10,670	-10,670		
21. भौतिकशास्त्र विभाग के लिए अतिरिक्त कक्षाकक्ष का निर्माण	-610	-610		
22. प. सं. वि. के ग्रामीण कार्यालय एवं पुस्तकालय भवन के विस्तार	-28,090	-28,090		
23. शास्कोय भवन के लिए साइकिल शॉड का निर्माण	-3,100	-3,100		
24. कलाभवन के कला इतिहास के लिए कक्षाकक्ष का निर्माण	-369,976	-369,976		
25. श्रीनिकेतन में 50 स्थानवाले बाल छात्रावास का निर्माण	-1,010	-1,010		
26. पाठभवन के लिए संगीत कक्षा कक्ष का निर्माण	-13,994	-13,994		
27. पाठभवन के लिए पुस्तकालय भवन का विस्तार	-8,100	-8,100		
28. मृणालिनी आनन्द पाठशाला का विकास	-4,091	-4,091		

विश्वभारती  
शांतिनिकेतन

संलग्नक - एक विकास निधि अनुसूची नं. 6

	ग्रन्थ वर्ष (रु)	पिछले वर्ष (रु)	आन्तप्रवाह (रु)	बहिर्गमन (रु)
29. 100 स्थानवाले बाल छात्रावास का निर्माण (नया)	3,54,446	3,54,446		
30. प.शि.म. के लिए कक्षा कक्ष का निर्माण	1,912	1,912		
31. केन्द्रीय कार्यालय समाधर का प्रथम तल	7,39,740	7,39,740		
32. 100 स्थानवाले बालिका छात्रावास	221,835	221,835		
33. विद्याभवन कार्यालय	0	0		
34. पाठभवन के लिए शिक्षण प्रयोगशाला का विस्तार	5,841	5,841		
35. संगीतभवन का विस्तार	0			
36. पाठभवन बाल छात्रावास के लिए मनोरंजन केन्द्र	14,952	14,952		
37. विनयभवन में 20 स्थानवाली बालिका छात्रावास	7,972	7,972		
38. निम्न अधीनस्थ स्टाफ आवास	787,843	787,843		
39. 'सी' टाइप स्टाफ आवास	8,24,751	8,24,751		
40. कलाभवन के नवतन्त्र का प्रथम तल (पश्चिममी भाग)	196,617	196,617		
41. 'बी' टाइप स्टाफ आवास	8,75,532	8,75,532		
42. पुस्तकों का क्रय - 8म योजना (सामान्य)	132,383	132,383		
43. परिसर विभाग (8म योजना) के अधीन वस/ मरीजवाहन तथा अपीबीएक्स का संस्थापन	81,256	81,256		
44. उपकरण एवं उपस्कर का क्रय (8म योजना)	49,994	49,994		
45. स्टाफ आवास के लिए निर्मित गृह का क्रय	8,310	8,310		
46. कम्प्यूटर केन्द्र के लिए भवन का विस्तार	22,860	22,860		
47. जीवविज्ञान पीठ के लिए अतिरिक्त आवास	13,618	13,618		
48. दूरयात्रात्मक स्थापत्य तथा मास्टर योजना	46,509	46,509		
49. रवीन्द्रभवन आदि लेखागार के लिए छवन का विस्तार	48,536	48,536		
50. कक्षा एवं केन्टीन का निर्माण- विनयभवन	23,149	23,149		
51. रसायन शास्त्र भवन का विस्तार	8,942	8,942		
52. शांतिनिकेतन के शासकीय भवन का विस्तार	45,989	45,989		
53. पाठभवन बालिका छात्रावास का निर्माण (6म योजना)	38,245	38,245		
54. पाठभवन का भोजनागार का विस्तार	268	268		
55. छात्रावास सुविधाओं का विस्तार एवं सुधार	11,115	11,115		
56. आन्तः भूमि का क्रय	328,298	328,298		
57. चिकित्सा स्वास्थ्य योजना ( 7म योजना)				
58. उपकरण / एक्स रे/ मरीजवाहन सेवा	19,541	19,541		

# विश्वभारती शांतिनिकेतन

संलग्नक - एक विकास निधि अनुसूची नं. 6

विद्याभवन के अंगरेजी एवं भारतविद्या विभाग में स्थान अतिरिक्त नाट्य एवं दृश्य-श्रव्य प्रकल्प के लिये उपस्कर खेल-कूद सुविधाएँ का आवर्धन शिक्षाशास्त्र में कक्षा कक्ष का निर्माण पी.सी.के. के लिए श्रीनिकेतन अस्पताल में प्रथम तल का निर्माण पूर्वपल्ली अतिथिशाला के आधारतल के उपर प्रथमतल का निर्माण वनस्पति विज्ञान के लिए अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण पाठ्यभवन में कला और शिल्प कक्षा कक्ष के निर्माण विनय भवन पुस्तकालय और वर्कशॉप के अतिरिक्त कक्षाकक्ष का निर्माण परिसर में जल आवर्धन के लिए अतिरिक्त गहन नलकूप भौतिकशास्त्र विभाग भवन का विस्तार सभाजिक कार्य विभाग भवन का विस्तार कर्मशिक्षा के लिए कर्मशाला निर्माण- विनयभवन शिक्षाशास्त्र के विज्ञानभवन का प्रथम तल यु.एस.एस. का पुस्तकालय तथा पठनकक्ष गहन नलकूप, पम्प हाउस सह विद्युत संस्थापन विश्वभारती में महिला आवास सीहब प्रयोगशाला भवन विस्तार श्रीनिकेतन में बालिका आवास पाठ भवन में 100 स्थानवाले बालिका छात्रावास 9म योजना विकास अनुदान के लिए वि.अ.अ. अनुदान	थालू वर्ष (रु)	पिछले वर्ष (रु)	आन्ताप्रवाह (रु)	बहिर्गमन (रु)
	28,878	28878		
	16,129	16,129		
	16,090	16,090		
	12,519	12,519		
	38,065	38,065		
	830	830		
	1,524	1,524		
	6,672	6,672		
	14,397	14,397		
	24,829	24,829		
	19485	19485		
	29,090	29,090		
	13,341	13,341		
	41,648	41,648		
	28,244	28,244		
	60,619	60,619		
	801,280	481,280	800,000	480,000
	120,980	120,980		
	234	234		
	214,222	214,222		
	56,952.307	45,414,645	52,900,00	41,362,338

# विश्वभारती शांतिमिशन

संलग्नक - एक विकास निधि अनुसूची नं. 6

विश्वभारती शांतिमिशन	वर्ष (रु)	पिछले वर्ष (रु)	आन्तःप्रवाह (रु)	बहिर्गमन (रु)
9म योजना में विद्यामवन परिसर का निर्माण				
प्रोक्टर, डीएसडब्ल्यू, ओपीडी के कार्यालय का निर्माण				
9म योजना के अधीन छात्र मनोरंजन केन्द्र				
9म योजना अधीन-संगीत भवन तथा कलाभवन के बाल छात्रावास का निर्माण				
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय एकता केन्द्र				
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय केन्द्र में राष्ट्रीय एकता अध्ययन की स्थापना के लिए वि.अ.आ अनुदान	1,071,641	2,087,086	43,100	334,538
प्रथम स्नातक स्तर में शिक्षा के पेशेवर के लिए अनुदान	1,001,816	1,406,180		1,352,390
कम्प्यूटर केन्द्र के प्रशिक्षण के लिए वि.अ.आ अनुदान	734,068	1,001,816		2,086,458
योजना अनुदान के अधीन प्लातीनम जयन्ती समारोह के लिए वि.अ.आ अनुदान	6,769,633	2,086,458		2,9424,637
इन्कलीबेट कार्यक्रम के अधीन विश्वविद्यालयी ग्रन्थालय के कम्प्यूटर रीकरण के लिए वि.अ.आ अनुदान	118,690	9,694,299		35,700
भवन के वृहद् रूप से मरम्मत के लिए वि.अ.आ विशेष अनुदान	235,552	154,390		1,007,447
ग्रन्थालय तथा प्रयोगशाला के लिए एक कालीन वि.अ.आ विशेष सहायता	2,306,793	771,895		5,546,640
कार्यालय स्वचलीकरण के लिए वि.अ.आ विशिष्ट अनुदान	2,000,000	7,853,433	2,000,000	
विश्वभारती में उपयुक्त संस्कृत बोलचाल पाठ्यक्रम के लिए वि.अ.आ अनुदान	100,000		100,000	
विकास निधि	66,888,559	66,219,335	55,843,100	53,043,690
स्वाकट निधि (आईजीसीएनआई) में स्थानान्तरण		2,130,186		55,173,876

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती



# विश्वभारती शांतिनिकेतन

संलग्नक - 'जी' शिक्षा प्रवाह निधि अनुसूची न. 7

वि. अ. आ शोध प्रकल्प :

प्रकल्प- डा. पी. जश	997	997	बहिरगमन (रु)
प्रकल्प- डा. ए.एन. लाहिडी मजुमदार	5,693	5,693	आन्तप्रवाह (रु)
प्रकल्प- प्रो. आर.पी. पाण्डे	23,369	23,369	पिछलेवर्ष (रु)
प्रकल्प-प्रो. आर. के. महन्ती	3195	3195	
प्रकल्प-प्रो. समीर भट्टाचार्य	5044	5044	
केरीयर एवार्ड - डा. एस. एस. महापात्र	10,220	10,220	
केरीयर एवार्ड - डा. ए.एन. लाहिडी मजुमदार	41,817	41,817	
प्रकल्प- डा. आई.एन.बसु मल्लिक	5,592	5,592	
प्रकल्प- डा. एस. मंडल	27,748	27,748	
शोध कार्य के लिए सहायता - डा. डी.एन. श्रीवास्तव	11,274	11,274	
प्रकल्प- डा. सुप्रत चक्रवर्ती	2,256	2,256	
प्रकल्प- डा. असीम कुमार दास	64,961	64,961	
प्रकल्प- डा. पुष्पजीत मंडल	3,721	3,721	
प्रकल्प- डा. वी.सी. जॉय	6942	6942	
शोध कार्य के लिए सहायता- श्री रथीन मित्र	6,258	6,258	
प्रकल्प - डा. एस. के. सेन (परियोजना-1)	100,046	100,046	
प्रकल्प - डा. अरुण कुमार राय	12,799	12,799	
प्रकल्प - डा. बी.पी. दास	444	444	
वित्तीय सहायता- डा. ए.के. चौधुरी	1000	1000	
वित्तीय सहायता- डा. एम.एस. घोष	81	81	
प्रकल्प - डा. शोती भट्टाचार्य	2,185	2,185	
प्रकल्प - डा. अन्जलि राय	243	243	
प्रकल्प - डा. काशीनाथ भट्टाचार्य	14,071	14,071	
प्रकल्प - डा. निर्माल्य बनर्जी	2,434	2,434	
बृहद् शोध प्रकल्प - डा. हरिश्चन्द्र मिश्र	1,572	1,572	
प्रकल्प - डा. एन.बी. हरिचन्द्रन	4,997	4,997	
शोध प्रकल्प - डा. एस.पी. सिन्हा बाबू	161	161	
शोध प्रकल्प - डा. एन.सी. सुकुल	5,838	5,838	
शोध प्रकल्प - डा. यू.एस. राय	2	2	
शोध प्रकल्प -आशा मुखर्जी	5,056	5,056	

चिन्धभारती  
शांतिनिकेतन

संलग्नक - 'जी' शिक्षा प्रवाह निधि अनुसूची नं. 7

पश्चिम बंगाल सरकार से अनुदान :

प्रकल्प डा. मालविका राय

भारत सरकार से अनुदान :

परमाणु ऊर्जा विभाग :

प्रकल्प डा. रणवीर दत्ता

वही - डा. बी.के. तालुकदार

वही - डा. समर कुमार राय

वही - डा. बी.के. तालुकदार

वही - डा. रणवीर दत्ता

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से अनुदान :

प्रकल्प - डा. बी.के. तालुकदार

वही - डा. एन.सी. सुकुल

डी.एस.टी. युवा वैश्वशिक्षण प्रकल्प पार्थप्रतिम चक्रवर्ती के अधीन

वही - वही - श्री पुलक रंजन मात्रा

सामान्य एवं तुलनात्मक इंडोक्रिनोलजी पर राष्ट्रीय विद्यार्णवी के लिए अनुदान

डी.बी.टी. अनुदान :

प्रकल्प डा. शैली मट्टाचार्य के अधीन

वही - वही - डा. समीर मट्टाचार्य

सी.एस.आई.आर से अनुदान

पीठासीन अधिकारी- श्रीमती असीमा लाहिड़ी मजुमदार

वही - वही - श्रीमती रूपमंजरी विश्वास

चालू वर्ष  
(रु)

पिछलेवर्ष  
(रु)

आन्तप्रवाह  
(रु)

बहिर्गमन  
(रु)

9,269

3,346

714

1,743

7

299

75,324

9,462

48,451

63,150

4,300

45,727

9,938

1,957

5,800

9,269

3,346

714

1,743

7

299

75,324

9,462

48,451

63,150

4,300

45,727

9,938

1,957

5,800

विश्वभारती  
शांतिनिकेतन

संलग्नक - 'जी' शिक्षा प्रवाह निधि अनुसूची न. 7

चालू वर्ष (रु)	पिछलेवर्ष (रु)	आन्तप्रवाह (रु)	बहिर्गमन (रु)
73,022	73,022		
13,508	13,508		
38,744	38,744		
5,263	5,263		
9,923	9,923		
526	526		
20,000	20,000		
6,300	6,300		
8,037	8,037		
1,871	1,871		
923	923		
1,074	1,074		
1,265	1,265		
366	366		
29,480	29,480		
8,606	8,606		
0	0		
108	108		
4,272	4,272		
34,533	34,533		
11,408	11,408		
13,085	13,085		
12,332	12,332		
0	0		
164	164		
11,244	11,244		
2,140	2,140		
79,697	79,697		

पीठासीन अधिकारी- श्रीमती सुलपा मुखोपाध्याय

वही -वही श्रीमती उर्मिला देव

वही -वही श्री पार्थ प्रतिय चक्रवर्ती

वही -वही श्रीमती रोमा सरकार

शोध सहयोगी- श्री रामवल्लभ राय

वही -वही श्री तुहीन साहा

सामान्य एवं तुलनात्मक इण्डोक्रोनोलजी पर राष्ट्रीय परिचर्चा

प्रकल्प - डा. बी.एन मित्रा

वही -वही डा. एस सेनगुप्ता

वही -वही डा. ए.के. दे

वही -वही डा. एस.जी. बिश्वास

वही -वही डा. ए.के. दात्ता

वही -वही डा. अरुण कुमार राय

वही -वही प्रो. ए.बी. दास

वही -वही डा. काशीनाथ भट्टाचार्य

वही -वही प्रो. अरुण कुमार राय

आई.सी.ए.आर से अनुदान :

प्रकल्प - प्रो. समीर भट्टाचार्य

वही -वही डा. एस.के. मुखोपाध्याय

वही -वही डा. एम.के. दासगुप्ता

वही -वही डा. असित भट्टाचार्य

वही -वही डा. अंजलि राय

वही -वही डा. समर दत्ता

वही -वही डा. जी.सी. मन्डल

वही -वही डा. डी. दासगुप्ता

वही -वही डा. ए.के. मण्डल

वही -वही डा. एस.एस. पाल

वही -वही डा. देवाशीष दाश

वही -वही डा. एन.सी. सुकुल

# विश्वभारती शांतिनिकेतन

सलगनक - 'जी' शिक्षा प्रवाह निधि अनुसूची न. 7

आई.सी.एस.एस.आर।से अनुदान :  
कलाभवन के कला इतिहास पर संगोष्ठी के लिए अनुदान  
अखिल भारत फारसी शिक्षक सम्मेलन के लिए अनुदान  
प्रकल्प - डा. शिवरंजन मिश्रा के अधीन  
आई.सी.ए.आर से अनुदान :  
प्रकल्प- प्रो. अशोक रुद्र  
वही - डा. एस.के.दत्ता, वनस्पति विज्ञान  
वही - यु.एस.राय, रसायन शास्त्र  
वही - प्रो. शैली मट्टाचार्य  
वही - डा. सुधीरत सेन  
वही - प्रो. के. महापात्र  
वही - प्रो. जी.एन. मट्टाचार्य  
वही - प्रो. जी.पी.सेनगुप्ता  
वही - प्रो. शैली मट्टाचार्य (योजना-II)  
वही - प्रो. समीर मट्टाचार्य  
वही - प्रो. पी.दास एवं डा. एस.सानात  
वही - डा. पी.नाथ (योजना-II)  
वही - प्रो. एन.सी.सुकुल  
वही - डा. के.सी. राय  
वही - डा. सी.कुमार सेन  
वही - डा. असीम कुमार दास  
वही - डा. पी.नाथ (योजना-I)  
वही - डा. शशाधर दे  
वही - डा. अरुण कुमार राय  
वही - डा. बिजय कुमार मुखर्जी  
वही - डा. समीत राय  
वही - डा. रूप कुमार कर

चालू वर्ष (रु)	पिछलेवर्ष (रु)	आन्तप्रवाह (रु)	बहिर्गमन (रु)
250			
500			
1,940			
7,156			
20			
2,641			
968			
8,181			
3,984			
4,731			
9,851			
24,037			
4,984			
1,960			
1,517			
29,908			
22,000			
11,705			
1,999	3,632		1,633
39,530			
15,000			
32,623	29,794		29,794
0	46,313		13,690
13,059	0		
	17,376	35,674	39,991

विश्वभारती  
शांतिनिकेतन

संलग्नक - 'जी' शिक्षा प्रवाह निधि अनुसूची नं. 7.

वि. अ. आ. शोध प्रकल्प - डा. विद्याकर कुण्डु	चालू वर्ष (रु)	पिछलेवर्ष (रु)	आन्तप्रवाह (रु)	बहिर्गमन (रु)
वही -वही डा. दिक्षित सिनहा	20,000	20,000		76,578
वही -वही डा. एन.बी. हरिचन्दन	38,355	114,933		151,390
प्रकल्प- प्रो. बी. सी. सामल	2,053	153,443		
प्रकल्प- डा. प्रो. काशीनाथ भट्टाचार्य	138,364		142,800	4,436
प्रकल्प- श्रीमती अलिमा दाक्षी	100,791		144,780	43,989
प्रकल्प- डा. स्वप्न मंडल	43,933		133,500	89,567
प्रकल्प - प्रो. डा. स्वदेश रंजन बिस्वाश	147,331		194,280	46,949
प्रकल्प- डा। डी.पी मुखर्जी	378,680		378,680	
प्रकल्प- प्रो. विजय कुमार मुखार्जी (योजना-II)	194,050		194,050	
प्रकल्प- प्रो. एन.सी सुकुल	62,854		76,000	13,146
प्रकल्प- डा. अमित हाजरा	154,524		477,850	323,326
प्रकल्प- डा। दीपक भट्टाचार्य	80,682		80,682	
प्रकल्प प्रो. पुष्पजीत मंडल	5,955	18,938	3,600	16,583
प्रकल्प- प्रो. एस.पी. सिनहा बाबू	7370	860	70,092	63,582
प्रकल्प- प्रो. एन.सी मंडल	112,324		153,780	41,456
प्रकल्प- प्रो. पी. हल्दार	193,791		278,048	84,257
प्रकल्प- प्रो. एस.के. सेन (प्रकल्प -II)	0	14,682	14,682	
प्रकल्प- डा. शान्तप्रत चक्रवर्ती	56,285	56,285		
शोध सहयोगी	10	26,346	26,336	6,497
प.ब. सरकार. डी.एस.टी	269,439	262,942		
डी.एस.टी प्रकल्प- डा. आई.एन. वसु मल्लिक	108,994	8,129	121,200	20,335
विदेशी शोध पर पशुशोध अनुसंधान कार्यक्रम विभाग (लेटराइट जोन) डा. टी. चक्रवर्ती प.शि. भ के अधीन	219,987	239,582		19,595
डी.एस.टी. प्रकल्प डा. एस.पी. सिन्हा बाबू	7,045	7,045		
डी.एस.टी. प्रकल्प प्रो. अमिताभ दत्त के अधीन	14		31,000	30,986
डी.एस.टी प्रकल्प डा. काशीनाथ भट्टाचार्य	87,974		143,000	55,026

# विश्वभारती शांतिनिकेतन

## संलग्नक - 'जी' शिक्षा प्रवाह निधि अनुसूची नं. 7

चावू वर्ष (रु)	पिछलेवर्ष (रु)	आन्तप्रवाह (रु)	बहिर्गमन (रु)
6,056	30872	138,793	163,609
43,868	497,106	453,238	
60,000	60,000		
785,705	-2,431	885,500	97,364
233	233		
5,322	5,322		
25,101	25,101		
114,786	114,786		
274	274		
97	97		
733	733		
93,742	99,297	206,000	211,555
5,502	5,502		
28,997	28,997		
1,050,000		1,050,000	
380,000		380,000	
1,116,356		1,300,000	183,644
	1,426	1,426	
4,500,000	4,500,000		

भारत सरकार, सेंट्रल सिल्क बोर्ड शोध प्रकल्प  
फील्ड इम्युनोशन ऑफ अकासियासीडस एगेन्स्ट  
रूफ-नट मालबेरी...डा. एन.सी. सुकुल के अधीन  
प्रयवर्ण पर तुलनात्मक अध्ययन ..... अन्य-ग्राम विद्यालय पर आयोजन के लिए  
एस.एच.आर.डी. प्रकल्प- डा. आई.एन. यसु मल्लिक  
मारो-तिब्बती अध्ययन के विकास के लिए  
पर्यावरण मंत्रालय से वन-शोध प्रकल्प- डा. वी.सी. जॉय  
विज्ञान एवं प्राथमिकी विभाग से अनुदान  
प्रकल्प

प्रकल्प - डा.पी. हल्दार  
प्रकल्प- डा. समीर डट्टाचार्य  
वही - डा. रणवीर दत्ता  
वही - डा. समीर भट्टाचार्य  
वही - डा. आई.एन. यसु मल्लिक  
वही - डा. शैली भट्टाचार्य  
वही - डा. असीम कुमार राय  
वही - डा. अरुण कुमार राय  
वही - डा. सुव्रत चक्रवर्ती  
वही - डा. परीमालेन्दु हालदार  
वही - डा. अरुण कुमार राय  
वही - डा. एस.पी. सिन्हा वावू  
वही - प्रो. शैली भट्टाचार्य  
वही - डा. टी.पी. चट्टोपाध्याय  
जीवविज्ञान विभाग विश्वभारती का प्रकल्प एफ.आई.एस.टी.  
कार्यक्रम के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार का अनुदान

# विश्वभारती शांतिनिकेतन

संलग्नक - 'जी' शिक्षा प्रवाह निधि अनुसूची न. 7

अणविक ऊर्जा नियंत्रण परिषद (ए.ई.आर.बी.) का  
शोध प्रकल्प- डा. सुधीर नारायण राय

डी.बी.टी. से अनुदान:

प्रकल्प - डा. समीर भट्टाचार्य

प्रकल्प - डा. समीर भट्टाचार्य

वही- डा. एस. के. सेन

वही- डा. शैली भट्टाचार्य

वही- डा. निर्मल्य बनर्जी

गैर पारम्परिक उर्जा स्रोत मंत्रालय से अनुदान :

प्रकल्प - डा. एस. मंडल, बनस्पतिशास्त्र विभाग

बायो-मेजर प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

डा. जी.एन. चटोपाध्याय के अधीन

डी.ए.एफ अनुदान :

प्रकल्प- डा. प्रवीर घोष के अधीन

वही- डा. जी.एन. चटोपाध्याय एवं एस. मंडल

वही- डा. बी.के. तालुदार

वही- डा. सौम्य चक्रवर्ती

वही- डा. समीर भट्टाचार्य

सी.एस.आई.आर अनुदान:

प्रकल्प - डा. डी.एम. भट्टाचार्य के अधीन

प्रकल्प - डा. के.सी. राय

प्रकल्प - डा. पी.के. गांगुली

प्रकल्प - डा. एस. भट्टाचार्य एवं एस. गांगुली

प्रकल्प - डा. समीर कुमार घोष

प्रकल्प - डा. समीर भट्टाचार्य

प्रकल्प - डा. यु.एस. राय

प्रकल्प - डा. यु.एस. राय

वर्ष	पिछले वर्ष (रु)	आन्तप्रवाह (रु)	बहिर्गमन (रु)
63,349	126,254	83,230	144,135
19,610	19610		
604,718	628,569	326,000	349,851
45,321	136,655	194,000	285,334
16,249	148,323	194,572	
9649	58,041	207,476	139,786
586,769	232,967	626,094	272,292
82,400	82,400		
23,774	23,774		
855	855		
41,250	41,250		
148,000	148,000		
13,883	13,883		
649	649		
18,569	18,569		
878	878		
253	253		
5,247	5,247		
32,350	32,350		
4,512	4,512		
722	722		

## विश्वभारती शांतिनिकेतन

संलग्नक - 'जी' शिक्षा प्रवाह निधि अनुसूची नं. 7

प्रकल्प-डा. पी.सी. जॉय	व्याप्त वर्ष (रु)	विद्युत्लेवार्थ (रु)	आन्तप्रवाह (रु)	बहिर्गमन (रु)
प्रकल्प-डा. बी.बी. नाथ	2,3484	2,3484		
प्रकल्प-डा. पी. नाथ	12,364	12,364		
प्रकल्प-डा. ए.एन. लाहिड़ी मजुमदार	1,658	1,658		
प्रकल्प-डा. शैली मट्टाचार्य	29,958	29,958		
प्रकल्प-डा. शैली मट्टाचार्य	1,907	1,907		
प्रकल्प-डा. के.सी. राय	376	376		
प्रकल्प-डा. समीर मट्टाचार्य	7,236	7,236		
प्रकल्प-डा. यु.एस. राय	55,901	55,901		
प्रकल्प-डा. रणवीर दत्त	13,200	13,200		
प्रकल्प-डा. स्वप्न मंडल	32,128	32,128		
प्रकल्प-डा. एस.पी. सिन्हा बाबू	14,856	14,856		
प्रकल्प-डा. शैली मट्टाचार्य	2,674	5,674	5,600	8,600
प्रकल्प-डा. समीर मट्टाचार्य	7	7		
प्रकल्प-डा. असीम कुमार दास	13,964	199,589	185,625	
प्रकल्प-डा. समीत कुमार राय	79,351	140,726	72,600	133,975
आई.सी.ए.आर. अनुदान :	1,633	1,633		
प्रकल्प-डा. एम.के. दासगुप्ता	270	270		
प्रकल्प-डा. शिव रंजन मिश्र	2,040	2,040		
प्रकल्प-डा. पी.सी. जॉय	3,478	3,478		
प्रकल्प-डा. अजित कुमार आदित्य	16,942	16,942		
प्रकल्प-डा. अरुण कुमार राय	4,031	4,031		
प्रकल्प-डा. शैली मट्टाचार्य	29,838	29,838		
प्रकल्प-डा. पी. नाथ	35,848	35,848		
प्रकल्प-डा. समीर मट्टाचार्य	95,385	95,724	339	255,663
प्रकल्प-डा. शैली मट्टाचार्य	6,623	144,366	117,920	267,465
प्रकल्प-डा. शैली मट्टाचार्य	794,419	247,250	814,634	



# विश्वभारती शांतिनिकेतन

संज्ञानक - 'जी' शिक्षा प्रवाह निधि अनुसूची न. 7

प्रकल्प- डा. अरुण कुमार राय	चालू वर्ष (रु)	पिछले वर्ष (रु)	आन्तप्रवाह (रु)	बहिर्गमन (रु)
प्रकल्प- डा. पी. नाथ	190,354	516,294		325,940
प्रकल्प- डा. शिशिर कुमार मुखोपाध्याय	301,494	559,753		258,259
घास-पात नियंत्रण प्रकल्प- डा. टी. चक्रवर्ती	15,014	268	20,000	5,254
एन. सी. आर. टी अनुदान :	179,482	495,895	444,500	760,913
प्रकल्प डा. डी. पी. मुखर्जी	1,516	1,516		
आई. सी. एस. एस. आर. से अनुदान				
प्रकल्प- डा. शिव रंजन मिश्र	2,000	2,000		
प्रकल्प- डा. शिव रंजन मिश्र	1,421	1,421		
वही- डा. दिवाकर कुन्दु	150,000		150,000	
आई. डी. आर. सी. से अनुदान				
प्रकल्प- डा. अरुण कुमार राय	570	570		
अन्य संस्थाएँ				
श्रीमति इन्द्राणी भट्टाचार्य के अधीन इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय केन्द्र का कला प्रकल्प	2,189	2,189		
डा. ए. के. आदित्य के अधीन इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय केन्द्र का कला प्रकल्प	5,115	5,113		
डा. अशोक कुमार दास के अधीन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का				
"जेड एण्ड द स्टाडी ऑफ इट टेकनिक्स.... सेन्ट्रल एशिया एण्ड इन्डिया" शीर्षक प्रकल्प	10,000	10,000	24,000	24,000
डा. जी. एन. चट्टोपाध्याय के अधीन फासफोरास एण्ड पटाशियम मैनेजमेन्ट	40,000			40,000
फिस एण्ड रेंड लेटेराइट स्वीयल रिस्वार्थ प्रकल्प				
डा. श्रावणी चक्रवर्ती के अधीन "कॉमन प्रॉपर रिसोर्स.... वेस्ट बंगाल"	56,004	265,856	240,000	449,852
शीर्षक इन्दिरा गांधी विकास शोध संस्थान का प्रकल्प	2,803	2,803		
डा. एन. सी. सुकुल के अधीन सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड नेशनल सेरिकलवार प्रकल्प	1,848,197	1,776,310	1,290,000	1,218,113
डी. एस. ए	15,260,052	11,303,640	11,903,850	7,947,438
एडु कैअर निधि				
जी. एस. ए का आरंभिक गांव तुलन पत्र अतिरिक्त राशि वर्जित करना में दर्शाया नहीं गया है।				
		9,527,330	13,694,842	7,962,120

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**शांतिनिकेतन**

**संलग्नक 'एच' असप्रो निधि अनुसूची नं. 8**

कला भवन का आधुनिकीकरण एवं नवीकरण के लिए मुवालका जनक्लायन ट्रस्ट से सहायता  
गोनकालय बालिका छात्रावास के मरम्मत के लिए इन्डियन डेमेलापमेंट ट्रस्ट से सहायता  
उत्तरायण परिसर (स्वीन्द्रालय) में पौध-संरक्षण गतिविधियों की परियोजना के लिए  
बोटानिक गार्डन सहायक कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुदान  
केरीयर के अन्तर्गत श्रीनिकेतन में केन्द्र भवन के लिए हुडको से अनुदान  
10 बालिका को माधवी बालिका छात्रावास को एक उपगृह उपलब्ध कराने के लिए श्रीमती बासन्ती घटक से सहायता  
वी.के. दिङ्गला फाउन्डेशन से दिङ्गला बालिका छात्रावास मरम्मत के लिए सहायता  
शान्तिनिकेतन में आइंस्टाइन भवन के निर्माण के लिए टैगोर आइंस्टाइन परिषद से सहयोग  
जापानी अध्ययन में सुविधाओं के उन्नयन के लिए जापान फाउन्डेशन से अनुदान  
गोयनका बालिका छात्रावास की मरम्मत के लिए आर.पी.जी. इटारुप्राइज से सहायता

सामंस्त्य

असप्रो निधि

कोसीस्ट आदि शेष तुलन पत्र में दर्शाया नहीं गया है।

चालू वर्ष (रु)	पिछलेवर्ष (रु)	आन्तःप्रवाह (रु)	बहिर्गमन (रु)
100,000	100,000		
188,000	188,000		
622,924	622,924		40,694
102,632	143,326		542,957
44,065	498,892		420,337
29,663		450,000	
57,412	51,412	6,000	
701,210	627,420	73,790	
150,000		150,000	
3,450,658	3,149,307	1,116,116	814,765
5,358,434	5,381,281	1,795,906	1,818,753
	3,149,307	3,149,307	
	2,231,974	4,945,213	

# विश्वभारती शांतिनिकेटाज

संलग्नक 'आइ' एसपीएसीटी निधि अनुसूची नं. 9

आलू वर्ष (रु)	पिछले वर्ष (रु)	आन्तप्रवाह (रु)	वहिमान (रु)
1,000	1,000		
99,218	99,218		
1,851	1,851		
126,949	126,949		
12,983	12,983		
78,984	78,984		
31,174	31,174		
1,630	1,630		
33,177	33,177		
75,539	75,539		
581	581		
8,995	8,995		
647	647		
29,061	29,061		
35,316	35,316		
7,846	7,846		
15,893	15,893		
1,523	1,523		
48,711	48,711		
1,198	1,198		
600	600		

डा. पी. एन. घोष द्वारा विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों का लेखन

बाहरी कलात्मक संरचनाओं का परिरक्षण एवं संरक्षण

आवासीय एवं दिवासीय छात्रों की सुविधाओं के लिए सहायता- राशि

विश्वभारती कम्प्यूटर केन्द्र के लिए आर्थिक सहायता

विश्वभारती क्यांटीन नंदलाल विशोपाक का प्रकाशन

छात्रावासों में सुरक्षा प्रबंध

विश्वभारती कम्प्यूटर केन्द्र में डी.सी.ए. पाठ्यक्रम का परिचय

पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के क्रय, आठवी योजना (विद्यालय)

नये भवन के लिए उपस्कर क्रय

मानवविकास के पाठ्यक्रम-विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए अनुदान

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय एकता केन्द्र, विश्वभारती में पठन-पाठन

पर्यावरणीय जीवविज्ञान एवं मत्स्य विज्ञान पर संगोष्ठी आयोजित करने के लिए

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुदान

श्री धत्तन्वदेव की 500वीं जयन्ती

बौध्य एवं तिब्बती संगठन के विकास के लिए विश्वभारती की विभागीय आर्थिक सहायता

बोडो यावल पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी के लिए भारत सरकार का अनुदान

ओडिआ छात्रों के छात्रावास के निर्माण के लिए उड़ीसा सरकार का अनुदान

श्री. सुनील सेनगुप्त के अधीन विस्तृत प्रकल्प

डा. एन.सी.सुकुल के अधीन हिन्दुस्तान लीवर प्रकल्प

दर्शन विभाग, विश्वभारती में एस. एन. बोस शताब्दी पर संगोष्ठी आयोजित करने के लिए

एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस से अनुदान

डा. मालविका राय के अधीन हिन्दुस्तान लीवर प्रकल्प

अतिथि गृह के निर्माण के लिए स्टील ऑथोरिटी ऑफ इन्डिया लिमिटेड से अनुदान

असमर्थ व्यक्तियों में मृत्युगत विस्तार पर संगोष्ठी आयोजन के लिए ठाकुर हरिप्रसाद शोध संस्थान से अनुदान

आई.सी. ए. आर. से अनुदान :

डा. सुखमय मुखोपाध्याय को अनुदान

## विश्वभारती शांतिनिकेतन

संलग्नक 'आई' एसपीएसीटी निधि अनुसूची नं. 9

संलग्नक 'आई' एसपीएसीटी निधि अनुसूची नं. 9	बाल्य वर्ष (रु)	पिछले वर्ष (रु)	आन्तप्रवाह (रु)	बहिर्गमन (रु)
भारतीय गंगा के अध्ययन के लिए प्रकल्प कर्मशाला	375			
आई एन.ए. 50वीं जयन्ती समारोह पर संगोष्ठी-प्रकल्प	500			
विषयवस्तु के परिवर्तन पर हस्तक्षेप पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए प्रकल्प				
इतिहास विभाग में भारतीय इतिहास के साल निधारण की समस्या	25,000			
बाधारहित आपूर्ति के लिए डेडीकेटेड फीडर लाइन का निर्माण	100,000			
विश्वभारती में विद्युतीकरण (केन्द्रीय सहायता)	10,198			
विश्वभारती की प्लेटीनास जुबली की निगरानी के लिए अनुदान	2,369			
कृषि आर्थिक प्रबंधन पर संगोष्ठी	54,773			
डॉक्टर की उपधि-शोधपत्र सहित विद्वतापूर्णशोध आलेखों का प्रकाशन	100,000			
शारीरिक शिक्षा एवं खेल में त्रि-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ	185,438			
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 125 वीं जयन्ती	20,000			
शंकर जयन्ती महोत्सव के अवसर पर क्षेत्रीय संगोष्ठी	25,134			
विद्यालय प्रवर्ग के लिए उपकरण एवं उपकरणों का क्रय	36,989			
केन्द्रीय विश्वविद्यालय (इन्फिलकनेट) में पुस्तकालयों के विकास के लिए वि.वि. अनुदान आयोग से विशेष अनुदान	816			
प्रो. दिलीप कुमार सिन्हा के अचीन-गणितशास्त्र के उपर विषय तालिका	6,718			
अ.जा./अ.ज.जा. के लिए उपचारी शिक्षण	20,000			
ग्रामीण हस्तकारियों को मुगलान के लिए अनुदान	15,640			
भारतीय समाज विज्ञान अधिवेशन	1,366	18,865		17,499
अ.जा./अ.ज.जा. को सहायता वि.वि. अनुदान आयोग से अनुदान	1,000			
प्रथम वैश्विक विज्ञान अधिवेशन के लिए वि.अ.आ अनुदान आयोग से अनुदान	2,130,186			
इन्दिरा गांधी केन्द्र राष्ट्रीय एकता	67,884			67,884
प्रो. एस.के.सेन के अचीन पाठो-केन्द्र सांस्कृतिक विनिमय	1,482,289	912,423		569,866
अनिवारित अनुदान	801,523	338,187		1,063,355
पुनरुत्थान पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए आर्थिक सहायता	2,145		600,000	1,292,145
प्राणीविज्ञान विभाग में विशेष सहायता कार्यक्रम डी.एस.ए.	400,000		1,290,000	
शिवतोष मुखर्जी केन्द्र कलकत्ता में पुनरुत्थान पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए वि.वि. आ. आयोग से अनुदान	360,358		400,000	
भारो-चीन सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के लिए जी.ओ.आई. अनुदान	18,934	369,656	9,298	21,134
बोरो राइस उत्पादन तकनीकी (मिनीकेट) पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के लिए जी.ओ.आई. अनुदान		20,229	22,429	
संस्कृत वर्ष मनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जी.ओ.आई. अनुदान		2,836	2,836	

# विश्वभारती शांतिनिवेदन

## संलग्नक 'आई' एसपीएसीटी निधि अनुसूची नं. 9

भारतीय गंगा जी.ओ.आई., डी.एस.डी. विशिष्ट अनुदान	आयु वर्ष (रु)	विद्योत्पन्न (रु)	आन्तःप्रवाह (रु)	वर्धमान (रु)
समूह मूल्यांकन कार्यशाला- प्राणीशास्त्र विभाग - के आयोजन के लिए अनुदान	40			
ध्वनिविज्ञान का अखिल भारतीय संगोष्ठी के लिए अनुदान	5079	5079		
गणित विभाग के लिए पुस्तकें	212,604	212,604		
कम्प्यूटेशन टेक्नीक्स एण्ड रेडियेशन पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी के लिए आर्थिक सहायता	25,000		25,000	
पश्चिम बंगाल सरकार से अनुदान:				
विशिष्ट अनुदान				
शिविर-कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय सेवा योजना	116,124	201,703	40,000	125,579
कृषि-अर्थशास्त्र पर संगोष्ठी के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण सांस्कृतिक अनुदान	1,119	1,119		
9वें पश्चिम बंगाल विज्ञान अधिवेशन आयोजित करने के लिए सहायक अनुदान	400,000		400,000	
श्री प्रणव मुखर्जी, सांसद (रा.स.) के द्वारा एम.पी.एस.डी. योजना 1995-96 के अन्तर्गत अनुदान	600	600		
डा. आई.एन. बसु मल्लिक के अधीन परियोजना (गवों में विज्ञान केन्द्र) के लिए सांसद (रा.स.) से अनुदान	3,520	24,682		21,162
केरियर श्रीनिकेतन के- शारीरिक संरचना विकास के लिए श्री प्रणव मुखर्जी, सांसद (रा.स.) के द्वारा एम.पी.एस.डी. योजना 1998-99 के अन्तर्गत अनुदान	4,349	4,349		
विनय भवन के लिए प.ब.सरकार से पुस्तक अनुदान	5,000	5,000		
विनय भवन में शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए अनुदान	10,000	10,000		
विशिष्ट अनुदान :				
त्रिभाषा शब्दकोष का संकलन	70	70		
कला संग्रहालय के पुनरभिव्यक्ति एवं विकास के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय से आर्थिक सहायता	4,082	4,082		
पाण्डुलिपियों के अनुसंधान के लिए संस्कृति मंत्रालय से पुरात्विक अनुदान	96,453	96,453		
स्त्री-संस्कृति मंत्रालय से आर्थिक सहायता	29,835	29,835		
स्त्री-संस्कृति मंत्रालय से आर्थिक सहायता	50,000	50,000		
पौध-विज्ञान शोध में हाल ही का पद्धति पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	7,500	7,500		
पल्ली चर्चा केन्द्र में ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी संगठन की भूमिका पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने के लिए ग्रामीण विकास एवं नियोजन मंत्रालय से अनुदान	2,052	2,052		

## विश्वभारती शांतिनिकेतन

संलग्नक 'आई' एस्पीएसीटी निधि अनुसूची नं. 9

अर्थशास्त्र विभाग में ए.के. दासगुप्ता की स्मृति में योजना एवं विपणन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी पर योजना अयोग (एस.ई.एकक) भारत सरकार से अनुदान	वित्त वर्ष (रु.)	विद्युत् लेवार्थ (रु.)	आन्ताप्रवाह (रु.)	बहिर्गमन (रु.)
विश्वभारती द्वारा आयोजित मेधावी विद्यालय छात्रों के संमर्क कार्यक्रम के लिए तकनीकी मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदान	35,000	35,000		
सर्व ऑफ एलेक्ट्रोड मैटेरियल्स पर ध्य को वहन करने के लिए डी.बी.टी. से सहाय्य अनुदान	8,903	1,004	7,899	
भौतिकी पर विचारगोष्ठी के लिए डा. सुदीप्त नारायण राय को डी.ए.ई. से आर्थिक सहायता	107,912		110,000	2,088
डा. एस. एन. राय को मेजरमेन्ट ऑफ को. ऑप्शनल टीचिंग इन रेडियेशन फीजिक्स के लिए ए. आ. आर. बी. से आर्थिक सहायता	20,000		20,000	
सी.एल.आई.आर. से अनुदान :	10,000	10,000		
गणितीय रसायनशास्त्र पर भारो-अमरीकी कार्यशाला के लिए अनुदान	67,768	74,368		6,600
प्राथमिक से स्नातकोत्तर स्तरीय गणित शिक्षा के परिप्रेक्ष्य अध्ययन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए अनुदान	5,000	5,000		
प्राणीशास्त्र विभाग में पर्यावरणीय-जीविज्ञान एवं मत्स्य-जीविज्ञान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए अनुदान	3	3		
मृगोल विभाग का 22वें आई.आई.जी. सम्मेलन के लिए सी. एस. आई. से अनुदान	1,031	1,031		
कृषिशोध में सामाजिक विज्ञान की परिप्रेक्ष्य पर संगोष्ठी के लिए अनुदान	9,500	9,500		
कोलायडिम ऑन युनिवर्सल एण्ड युनिवर्सल मैन पर सम्मेलन के लिए अनुदान	701	701		
आई. सी. एच. आर. से अनुदान :				
इतिहास पर टैगोर-अवधारणा पर संगोष्ठी के लिए अनुदान	13,723	13,723		
प्रचीन भा.इ.सं. एवं पुरातत्त्व विभाग में डा. आर.सी.मजुमदार पर संगोष्ठी के लिए अनुदान	7,125	7,125		
निष्पन्न भवन एवं सम्बद्ध सामग्रियों के लिए भारो-जापान टैगोर सोसाइटी से अनुदान	868,971	15,702		853,269
अनावर्ती ढांचों के लिए एन.सी.आर.आई. से अनुदान	3,301			3,301
आई.सी.सी.आर. से अनुदान	285	285		
विश्वभारती में विदेशी छात्रों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय छात्र-दिवस समारोह आयोजित करने के लिए अनुदान				

## विश्वभारती शांतिनिकेतन

संलग्नक 'आई' एसपीएसीटी निधि अनुसूची नं. 9

आई.ए.सी.एस.कोलकाता से अनुदान :

भौतिकी विभाग में धनीभूत पदार्थ दिवस पर सम्मेलन के लिए अनुदान  
दर्शनशास्त्र विभाग में प्रो.सू.वेङ्क.मिंग के लेखर कार्यक्रम के लिए सहयोग

अन्य निकायों द्वारा अनुदान:

सामाजिक कार्य विभाग में शरणनार्थियों पर संगोष्ठी आयोजित करने के लिए संयुक्त संयुक्त राष्ट्र राज्य उच्चायोग, नई दिल्ली से  
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 125 वी जयन्ती के लिए उड़ीसा सरकार से अनुदान

पुण्येतर गतिविधियों के लिए उड़ीसा सरकार से अनुदान

ओडिआ विभाग के स्वर्ण जयन्ती समारोह के आयोजन के लिए उड़ीसा सरकार से अनुदान

सौन्दर्यीकरण के व्यय की प्रतिपूर्ति में बर्धमान जिला परीषद से अनुदान

सौन्दर्यीकरण रसायनशास्त्र पर सम्मेलन के लिए आई.एन.एस.ए. कोलकाता से अनुदान

वास्तु कलात्मक स्मारकों के अनुरक्षण के लिए इ.जेड.सी.सी.से अनुदान

भौतिकी विभाग में धनीभूत पदार्थ दिवस पर सम्मेलन के लिए एस.आई.एन.पी. कोलकाता से अनुदान

डा.एस.एन.राय के अधीन डी.ए.आ. सुविधा शोध प्रकल्प के लिए अन्तर विश्वविद्यालय समूह (आई.यू.सी.) से सहयोग

सामाजिक कार्य विभाग, श्रीनिकेतन में बाढ़ एवं सूखा को निषिद्ध करने के लिए नदी शोध संस्थान (प.ब.) से अनुदान

अर्थशास्त्र विभाग में ए.के. दासगुप्ता की स्मृति में नीति एवं विपणन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के

अर्थशास्त्र/विश्लेषण एवं नीति विभाग से अनुदान

उत्तरायण परिसर के सौन्दर्यीकरण के लिए यू.बी.आई.से अनुदान

गणित विभाग में प्रथमिक से स्नातकोत्तर स्तर तक सतत गणित शिक्षा पर संगोष्ठी हेतु एस.एन.बोष राष्ट्रीय केन्द्र से

भौतिकी विभाग में कला एवं विज्ञान में प्रकृति एवं यथार्थ परसंगोष्ठी हेतु एस.एन.बोष स्मारक आधार विज्ञान केन्द्र

ओडिआ विभाग के स्वर्ण जयन्ती समारोह के आयोजन के लिए उड़ीसा सरकार से अनुदान

सामाजिक कार्य विभाग में बाढ़ एवं सूखा से सामना करने के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन के लिए कृषि मंत्रालय से

आर्थिक सहयोग

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय एकता केन्द्र में आतंकवाद पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए एम.एच.आर.डी. अनुदान

वर्ष	आयु	मिछलेवर्ष	आन्तर्ग्रवाह	बहिर्गमन
(रु)	(रु)	(रु)	(रु)	(रु)
1,459	1,459			
94	94			
11,776	11,776			
41,122	41,122			
3,234	18,622			
3,945	3,945			
1,841	1,841			
108	108			
10,366	10,366			
2,229	2,229			
13	13			
4,912	4,912			
19,228	19,228			
20,000	20,000			
10,000	10,000			
209	209			
4,495	4,495			
6,762	6,762			
8,558	8,558			

8,558

## विश्वभारती शांतिनिकेतन

संलग्नक 'आइ' एसपीएसीटी निधि अनुसूची नं. 9

चालू वर्ष (रु)	पिछलेवर्ष (रु)	आन्तःप्रवाह (रु)	बहिर्गमन (रु)
6,110	54,385	77,496	125,771
232	198	4,345	4,311
40,000	40,000		
200	200		
20,000	17,030	20,000	17,030
	3,000		3,000
58,586	58,586		
6,458	6,458		
14,452	5,288	46,775	37,611
50,563	50,563		
162,840	109,360	200,000	146,520
1,000	3,000	127,142	129,142
87,633	87,633		
538	538		
1,935	1,935		
500	500		
20,000		20,000	
16,886	96,576	79,690	
10,000		10,000	

इतालियन विभाग में इतालवी भाषा में लेक्चरर के पेशोवर शुल्क के लिए इतालियन सरकार से अनुदान

डा. डी.पी. मुखर्जी के अधीन प्रकल्प के लिए पूर्वी क्षेत्रीय समिति ( एन.सी.टी.ई.) से अनुदान

वैश्वभारती में भारतीय शैक्षणिक विज्ञान अधिवेशन के लिए भारतीय पुनर्वासन केन्द्र से अनुदान

गठमवन, विश्वभारती को क्रिकेट संघ, बंगाल से अनुदान

खगोल-भौतिकी पर विद्यालय-संयुक्त संगोष्ठी करने के लिए आई.यू.सी.सी. ए. से अनुदान

वैश्वभारती में राष्ट्रीय युवा शिविर के लिए भारतीय विकास परीषद् बंगलूर से अनुदान

भन्तर विश्वविद्यालय पूर्वी क्षेत्र युवा उत्सव के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ से अनुदान

खीन्द्र भवन के लाभ हेतु श्री बुद्धदेव गुह से सहायता

डा. श्याम सुन्दर महापात्र, के अधीन इन्दिरा गांधी कला केन्द्र का प्रकल्प

भानन्दबाजार, अशोक सरकार वृत्ति

शांतिनिकेतन के दूरदर्शन भवन में भित्तिचित्र एवं अभिकल्पन के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से अनुदान

भूगोल पर मल्टीमीडिया इनसाइक्लोपीडिया की परियोजना के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से अनुदान

असमर्थ व्याक्तियों की ओर मूल्यगत-विकास पर संगोष्ठी

पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक के लिए भारतीय शिक्षा-शिक्षा परिषद् से अनुदान

22वें आई.आई.जी. सम्मेलन के लिए आई.एस.आर.ओ., बंगलूर से अनुदान ( भूगोल विभाग में)

22 वें आई.आई.जी. सम्मेलन के लिए एन.ए.टी. एम. ओ. से भूगोल विभाग से अनुदान

विचार गोष्ठी में प्रतिभागियों की यात्रा/दैनिक भत्ता आदायगी के लिए आई.यू.सी. से आर्थिक सहायता अनुदान

जापानी विभाग में मूलभूत प्रकल्प के लिए कुन्सलेट जनरल ऑफ जापान से सहायता

मेजरमेंट ऑफ कम्प्यूटेशनल टेक्निक इन रेडियेशन फीजिक्स एण्ड सेफ्टी पर विचारगोष्ठी के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान

परिषद्, नई दिल्ली से सहायता



## विश्वभारती शांतिनिकेतन

संलग्नक 'आइ' एसपीएसीटी निधि अनुसूची नं. 9

	चालू वर्ष (रु)	पिछलेवर्ष (रु)	आन्तप्रवाह (रु)	बहिर्गमन (रु)
डी.आर.यू.	61,451	25,511	337,653	301,713
ए.एफ.आर.सी	492,740	605,793	7,834,271	7,947,324
केरियर	109,968	265,743	50,887	206,662
स्पष्ट फंड	1,229,486	403,275	11,762,606	13,066,582
		897,047	897,047	
			2,130,186	
		493,772	14,789,839	

डी.आर.यू., ए.एफ.आर.सी. एवं केरियर की प्रारम्भिक जमा तुलनपत्र में दिखाया नहीं गया  
विकास निधि से स्थानांतरित राशि

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

## विश्वभारती शांतिविश्वकेतन

संलग्नक 'जे' प्रकाश निधि अनुसूची नं. 10

शिक्षावृत्ति निधि	घातु वर्ष (रु)	पिछलेवर्ष (रु)	आन्तप्रवाह (रु)	बहिर्गमन (रु)
प्रदीप गंगुली को शिक्षावृत्ति	4,017	4,017		57,667
श्रीमति प्रभाती मित्र को शिक्षावृत्ति	2,510	2,510		20,798
श्रीमती लोपामुद्रा चौधुरी को शिक्षावृत्ति	29	29		79,300
श्री सिराजुल इस्लाम को शिक्षावृत्ति	726	726		7,950
श्रीमति मनीषा दास को शिक्षावृत्ति	797	797		504,226
अमर्त्य घोष को शिक्षावृत्ति	16,204	16,204		9,290
प्रो. राम सिंह सोमर के अधीन शोध प्रकल्प को प्रोत्साहन	22,494	22,494		159,624
डा. डी.के. गंगुली के अधीन बृहत शोध प्रकल्प को प्रोत्साहन	3,716	3,716		
श्री एस.आर. मित्रा के आर्थिक सहायता	2,000	2,000		
डा. पी. हल्दार को आर्थिक सहायता	740	740		
डा.जी.एन. घट्टोपाध्याय के आर्थिक सहायता	7,314	7,314		
डा. एस.के. सैन को आर्थिक सहायता	745	745		
डा. एस.आर. मित्रा को आर्थिक सहायता	2,005	2,005		
डा. दीपक भट्टाचार्य को मानविकी पर शोध देतु प्रोत्साहन	10,947	10,947		
यू.जी.सी. शोध सहयोगी (अंशकालिक):				
(अ) श्रीमति श्रमणी चक्रवर्ती	10,866	15,533	53,000	
(आ) डा. विनी ए.		20,798		
(इ) श्रीमती शास्वती कपट	90,925	21,625	148,600	
(ई) श्री विजयमुरीन रोख को आई.सी.पी.आर. फेलोशिप	1,158,237	1,050	9,000	
अध्यापन वृत्ति सह शोधवृत्ति (किंसी एक समय दिए गए आधार पर)	489,492	1,589,463	73,000	
विजोदित्य फेलोशिप	165,565	480,202		
सी.एस.आई.आर. फेलोशिप	4,380	102,285	96,344	
सी.एस.आई.आर. पीठासीन अधिकारी				
डा. शुल्का भट्टाचार्य	4,380	4,380		
डा. शिवानी चौधुरी	1,734	1,734		
डा. सुजाता गुहा	2,505	2,505		
सी.एस.आई.आर. शोध सहयोगी	22,624	22,624		
श्री. अरुण कुमार बन्दोपाध्याय	12,229	12,229		
श्री कृष्णनाथ बन्दोपाध्याय	45,567	45,567		
श्री.बी.बी. बन्दोपाध्याय				

## भारत शिक्षा विभाग

संलग्नक 'जे' प्रवह निधि अनुसूची नं. 10

### शिक्षावृत्ति निधि

श्रीमती शाश्वती सरकार

श्रीमती मधुमिता भट्टाचार्य

श्री गौरवकान्तिघोष

श्री भवानी शंकर सतपथी को कृषि अनुसंधान शिक्षावृत्ति

श्रीमती चन्दना बोस को शिक्षावृत्ति

आइ.सी.एम.आर. अनुदान

श्रीमती मधुमिता घोष को शिक्षावृत्ति

डा. समीर भट्टाचार्य के अधीन रेटियो पर कायद्रम इत्यादि के लिए जी.ओ.आई.जी.एस. से आर्थिक सहायता

डा. मिनी ए. प्रणीविज्ञान विभाग को जी.ओ.आई.जी.एस. से युवा वैज्ञानिक वृत्ति

डा. विधान चन्द्र पात्र, विद्यासागर विश्वविद्यालय, बिदनापुर को भ्रमणशील वृत्ति योजना एस.इ.आर. से. के अधीन

जी.ओ.आई.जी.एस. से आर्थिक सहायता

आइ.सी.पी.आर. अनुदान

श्रीमती चमेली चौधरी को शिक्षावृत्ति

डा. ए.के. नाग को शिक्षावृत्ति

श्रीमती अर्पणा मजुमदार को शिक्षावृत्ति

श्रीमती अमिया चटर्जी को शिक्षावृत्ति

पत्रिका के प्रकाशन के लिए वर्ष में आर्थिक सहयोग

आइ.सी.एच.आर. अनुदान

श्रीमति संगीता मिश्र को शिक्षावृत्ति

श्रीमति काकोली ताह को शिक्षावृत्ति

डा. एम.एम. पांजा को जी.ओ.आई.एस.टी. युवा शिक्षावृत्ति

प्रवह निधि

प्रवर्ष (रु)	पिछले वर्ष (रु)	आन्तप्रवाह (रु)	बहिर्गमन (रु)
6,568	6,568		
3,128	12,028		8,600
35,011	33,011		
12,000	12,000		950
	950		
66	66		
14	14		
907	907		
3,000	3,000		
1,500	1,500		
5	5		
2,500	2,500		
3,000	1,800	47,000	45,800
15,000	15,000		
9,300		36,000	26,700
6,775		42,000	35,225
6,500	6,500		
823,263	1,274,449	504,944	956,130

विश्वभारती  
शांतिनिकेतन

संलग्नक 'के' से सेफइन योजना निधि अनुसूची न. 11

	चालू वर्ष (रु)	पिछले वर्ष (रु)	आन्तप्रवाह (रु)	वहिरगमन (रु)
पत्रकारिता	63,565	107,413	277,586	321,434
सहयोगी स्कन्ध	1,837,164	821,540	1,445,104	429,480
सेलफइन निधि	1,900,729	928,953	1,722,690	750,914
तुलन पत्र में राशि नहीं दर्शायी गयी		928,953	928,953	
		0	2,651,643	

सेवा अधिकारी  
विश्वभारती

विश्वभारती  
शांतिनिकेतन

संलग्नक 'एल' से अनुसूची न. 13

चालू दायिताएं एवं प्रबंधन

(अ) चालू दायिताएं

1. गैरवित्तित धात्रवृत्ति :

केन्द्रीय सरकार

प.ब. सरकार

अन्य सरकार

4. अन्य चालू दायिताएं :

धात्र सहायता निधि

एच.डी.एण सी. बकाया

विपत्र भुगतान

ढीकादार का लेख

पूर्वजमा बकाया

हाथ में जमा राशि (विरुद्ध) अनुसूची 17 के अनुलग्नक एन के अनुसार

अ1. चालू वर्ष शोध

4 अन्य चालू दायिताएं

कुल:

चालू वर्ष प्राप्तियां रु	भुगतान रु	चालू वर्ष शेष रु	गत वर्ष शेष रु
910,127.00	863,317.00	141,043.19	94,233.19
231,221.00	166,461.00	152,623.67	87,863.67
90,626.00	83,490.00	51,375.91	44,239.91
<b>1,231,974.00</b>	<b>1,113,268.00</b>	<b>345,042.77</b>	<b>226,336.77</b>
		143,815.31	80,77.31
		37,754.00	87,525.00
		123,243.00	130,1007.00
		91,594.92	225,009.92
		379,097.84	376,624.87
		648,794.39	---
		<b>1,424,299.46</b>	<b>900,044.10</b>
		345,042.77	226,336.77
		1,424,299.46	900,044.10
		<b>1,769,342.23</b>	<b>1,126,380.87</b>

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

## विश्वभारती शांतिनिकेतन

संलग्नक 'एम' से अनुसूची -15 एवं 16

निवेश	चालू वर्ष रु	गत वर्ष रु
धर्मदाय निधि	6,724,314.00	6,762,174.00
वित्तियोग निधि	3,716,684.00	3,697,410.00
मूल्यहास आरक्षित निधि	549,647.00	549,647.00
कॉरपास निधि	3,079,085.00	3,079,085.00
विकास निधि	431,000.00	431,000.00
ओम्प्रो निधि	674,336.00	674,336.00
अन्य निधियां:		
शिल्पसदन आरक्षित निधि	32,253.47	32,253.47
पेंशन पात्रता आरक्षित निधि	12,154,485.43	12,841,185.43
प्रकाशन विभाग आरक्षित निधि	17,082,306.42	17,082,306.42
संगीत मंडल	18,250.00	18,250.00
अनुदान का निवेश	5,000,000.00	
	49,462,371.32	45,167,647.32
धर्मदाय निधि ( अनुसूची 4 के डी सलग्नक के अनुसार)	6,724,314.00	6,762,174.00
अन्य निवेश	42,738,057.32	38,405,473.32

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

# विश्वभारती शान्तिनिकेतन

संलग्नक 'एन' से अनुसूची -17

चालू परिसम्पत्तियां, कर्ज एवं अग्रिम:

अ) चालू परिसम्पत्तियां

१) वस्तु सूची

अ) भंडार एवं अधिकृत वस्तु

उच्च भंडार स्टॉक

- १) कार्य एवं भवनों का अनुरक्षण
- २) विद्युत एवं जलापूर्ति का अनुरक्षण
- ३) सीमेन्ट एवं स्टील

२) विविध देनदार

आ) अन्य परिसम्पत्तियां

- १) हलवासिया ट्रस्ट
- २) यूनेस्को कूपन
- ३) सेवा डाक टिकट

- ३) अ. हाथ में जमा शेष राशि
- आ. अप्रदाय

चालू वर्ष रु	गत वर्ष रु
542,038.92	542,038.92
424,859.73	409,006.00
2,731,968.29	1,846,662.04
<b>3,698,866.94</b>	<b>2,797,707.86</b>

1,737.35	1,737.35
504.78	504.78
15,288.00	159,538.00
<b>17,530.13</b>	<b>161,780.13</b>

648,794.39	-
43,521.48	41,126.48
<b>692,315.87</b>	<b>41,126.48</b>

## विश्वभारती शास्तिनिकेतन

संलग्नक 'एन' से अनुसूची -17(चालू)

(अ) बैंक में शेष - चालू लेखा में

	चालू वर्ष रु	गत वर्ष रु
1) एस.बी.आई. शास्तिनिकेतन मुख्य लेखा	6,451,841.24	5,274,334.43
2) एस.बी.आई. कलकाता लेखा स. -1	-	2,533,190.59
3) एस.बी.आई. कलकाता लेखा स. -2	-	1,137,842.44
4) एस.बी.आई. आई.जी.सी.आई.	3,033,830.00	3,005,830.00
5) एस.बी.आई. धर्मादाय निधि लेखा	10,848,715.71	6,842,781.44
6) एस.बी.आई. चक्राकार निधि	431,218.02	7,896,594.02
7) एस.बी.आई. प्रधान लेखा	44,266,286.12	27,609,498.12
8) एस.बी.आई. सी.पी. लेखा	393,160.10	4,157,813.45
9) यू.पी.आई. मुबनडांगा, लेखा स. 185	2,537,913.10	3,853,573.10
10) यू.पी.आई. मुबनडांगा, लेखा स. 135	33,754,335.80	32,876,422.80
11) एस.बी.आई. विश्वभारती हिन्दी पत्रिका	808.38	808.38
12) एस.बी.आई. श्रीनिकेतन जी.बी. निधि लेखा	1,453,322.44	-
13) ए.ई.आर.सी. बैंक लेखा	492,740.47	-
14) कैरियर बैंक लेखा	109,968.45	-
15) एसोसियेटेड विंग्स लेखा	1,837,163.90	-
16) पत्रकारिता का बैंक लेखा	63,565.10	-
17) जी. एस. ए. का बैंक लेखा	1,848,196.76	-
18) कोसीष्ट प्रोग्राम का बैंक लेखा	3,450,658.00	-
कुल (अ)	116,973,723.59	95,188,688.77
	121,382,436.53	98,189,303.24



विश्वभारती  
शांतिनिकेतन

संलग्नक 'एन' से अनुसूची -17(चालू)

आ) कर्ज, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियां

१) कर्ज

अ) कर्मचारी: एच.डी. ए

आ) अन्य ( अग्रिम जी)अ ( अग्रिम आर) अ (उत्सव अग्रिम)

2) अग्रिम एवं अन्य वसूली नगद य वस्तु में य मूल्य में

इ) अन्य (उद्यंत)

3) आय

ई) अन्य

१) छात्र शुल्क

२) भोजनालय शुल्क

३) विविध बिल

४) जमीन किराया

कुल (आ)

कुल (अ+आ)

चालू वर्ष रु	गत वर्ष रु
24,631,046.24	17,210,234.24
23,399,946.05	16,926,768.43
<b>448,030,992.29</b>	<b>34,137,002.67</b>

483,457.00

658,352.41	486,452.11
70,064.72	63,352.17
196,187.00	183,215.50
38,287.59	27,924.76
<b>982,891.72</b>	<b>760,944.54</b>
<b>49,477,341.01</b>	<b>34,897,947.21</b>
<b>170,859,777.54</b>	<b>133,087,250.45</b>

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

विश्वभारती  
शांतिनिकेतन

आय	अनुसूची	राशि (रु)	
		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुदान /परिदान शुल्क / चन्दा	18	376,917,000	350,359,800
राज्यशुल्क, प्रकाशन आदि से आयद	19	2,714,838	2,311,765
व्याज प्राप्ति	20	5,358,021	
अन्य आय	21	9,122,435	
	22	4,507	
कुल (अ)		394,116,801	363,476,872
व्यय			
स्थापना खर्च	23	272,396,930	279,171,986
अन्य प्रसाशनिक खर्च इत्यादि	24	38,777,323	34,723,021
अनुदान, परिदान इत्यादि पर व्यय	25	55,228,872	58,054,398
पूर्व जमा वकालत सम्पादन	26	317,371	195,316
कुल (आ)		366,085,754	371,754,089
व्यय (अ-आ) से ऊपर अधिक आयद का शेष		28,031,047	8,277,217

खड पूंजी निधि में स्थानांतरण;  
राजस्व आरक्षित निधि में स्थानांतरण

4,371,497  
23,659,550

4,859,291  
13,136,508

वित्त अधिकारी  
विश्वभारती

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती  
विश्वभारती

विश्वभारती  
शांतिनिकेतन

आय की अनुसूची का अंश एवं व्यय-लेखा, अवधि/वर्षान्त 31 मार्च 2002 के लिए

गत वर्ष

चालू वर्ष

अनुसूची 18 - अनुदान/परिदान

(अविकल्पी अनुदान एवं प्राप्त परीदान)

1. केन्द्रीय सरकार (वि.अ.आ.खण्ड अनुदान)

राज्य सरकार / सरकारों

करकारी एजेंसियां

संस्थानें / कल्याण निधियां

अन्तराष्ट्रीय संगठन

अन्य (उत्तिष्ठित)

कुल

376,917,000

350,300.00

59,800

376,917,000

350,359,800

अनुसूची 19 शुल्क/चन्दा

प्रवेश शुल्क

वार्षिक शुल्क/ चन्दा वार्षिक शुल्क/ चन्दा

संगोष्ठी / कार्यक्रम शुल्क

परामर्शी शुल्क

अन्य (उत्तिष्ठित)

कुल

229,620

178,070

2,485,218

2,133,695

2,714,838

2,311,765

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**शांतिनिकेतन**

वर्षान्त 31 मार्च 2002 के लिए आय एवं व्यय लेखा का अनुसूची रचना अंश राशि

अनुसूची - 20 स्वामित्व, प्रकाशनन इत्यादि से आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. स्वामित्व से आय	113,000	113,000
2. प्रकाशन से आय	33,231	41,244
3. अन्य (उल्लेख्य)		
क्षेत्र अध्ययन	3,798	
प्रतिकाओं का विक्रय	19,238	3,241
विविध प्रतियाँ (कम्प्यूटर केन्द्र)	54,913	
खोयी हुई पुस्तकों का मुल्य		10,957
पुस्तकालय शुल्क	6,205	4,635
सुलेटीन, पाठ्यक्रम, प्रवेश आवेदन का विक्रय	350,001	836,838
विश्वभारती पत्रिका (त्रैमासिक चंदा)	35,797	
अक्षर्यता को सम्मानिकी	300	
रवीन्द्रभवन से द्वार शुल्क	757,524	454,811
अन्य मद, वाहन अग्रिम	390,426	501,349
निविदा फार्म / अनुबंध	118,050	234,865
विविध प्राप्तियाँ	54,250	
प्रयोगशाला शुल्क, क्लीनिकल पेशों	3,664	1,756
एक्स-रे प्रभार	1,480	1,235
चिकित्सा शुल्क	145,233	81,444
ई.सी.जी शुल्क	2,680	1,691
बगीचों से आय	25,887	29,287
छापाई		614
बस किराया	28,907	22,430
रात्रि पहरेदारी प्रभार	1,838	2,148
विद्युत शुल्क	51,295	35,062
पेयजल शुल्क	416,814	368,122
अवकाश बेटन एवं पेशन आदायगी	230,558	172,953
गृह किराया	360,788	416,466
आसबाब किराया	16,304	23,262
पंखा शुल्क	10,380	11,347
जमीन किराया	27,826	32,240
अधिति गृह से किराया	854,145	843,010
दूरभाष चार्ज	1,177	7,553
फैक्स से आय	2,534	5,530
विविध प्राप्तिया	26,178	15,862
तलाब से आय	177,050	150,387
ग्रन्थ विभाग से आदायगी	13,000	12,000
सरचनात्मक प्रभार	41,450	60,637
कुलपति निधि (रु 2153.39 - रु 53.39)	2,100	
<b>कुल</b>	<b>5,358,021</b>	<b>4,695,976</b>

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**शांतिमिकेतन**

**वर्षान्त 31 मार्च 2002 के लिए आय एवं व्यय लेखा का अनुसूची रचना अंश राशि**

अनुसूची -21- ब्याज से आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. मियादी जमा	9,122,435	6,109,331
(अ) अनुसूचित बैंकों से		
(आ) गैर अनुसूचित बैंकों से		
(इ) संस्थानों से		
(ई) अन्य		
2. बचत लेखा से		
(अ) अनुसूचित बैंकों से		
(आ) गैर-अनुसूचित बैंकों से		
(इ) डाकघर वचत लेखा		
(ई) अन्य		
3. कर्ज से		
(अ) कर्मचारी / स्टाफ		
(आ) अन्य		
4. देनदारों पर ब्याज एवं अन्य प्राप्ति		
<b>कुल</b>	<b>9,122,435</b>	<b>6,109,331</b>

अनुसूची -22- अन्य आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों से	4,507	
अ) स्व संपत्तियां		
आ) अनुदानों से अलग अथवा निःशुल्क प्राप्त अर्जित संपत्तियां		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयरों		
4. डिबेंचर एवं प्राप्तयोग्य		
<b>कुल</b>	<b>4,507</b>	

अनुसूची -23- स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अ) वेतन एवं मजदूरी	129,586,230	139,280,401
आ) भत्ते एवं बोनसआ	65,774,536	66,007,182
इ) भविष्य निधि से योगदान	649,140	771,504
ई) अन्य निधि (उल्लेख्य) से योगदान		
उ) कर्मचारी कल्याण व्यय	1,140,341	
ऊ) कर्मचारी की अयकाश प्राप्ति एवं सावाधिक लाभ से व्यय	70,706,636	66,100,982
ऋ) अन्य ( उल्लेख्य) स्वास्थ्य व्यय	4,540,047	3,601,657
<b>कुल</b>	<b>272,396,930</b>	<b>279,171,986</b>

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**शांतिनिकेतन**

**वर्षान्त 31 मार्च 2002 के लिए आय एवं व्यय लेखा की अनुसूची रचना अंश राशि**

अनुसूची -24- अन्य प्रशासनिक व्ययआदि	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अ) क्रय		
आ) प्रक्रियागत एवं भजइरी व्यय		
इ) गाड़ी भाड़ा एवं टुलाई किया गया		
ई) विद्युत एवं शक्ति	8,212,445	5,450,796
उ) जल प्रभार	275,605	189,735
ऊ) बीमा		
ऋ) मरामत एवं अनुरक्षण	9,597,391	8,740,094
ए) आबकारी कर	15,450	8,400
ऐ) किराया, दर एवं कर	370,758	663,936
ओ) चालू वाहन एवं अनुरक्षण	1,532,109	1,367,623
औ) डाकटिकट, दूरभाष एवं संप्रेषण चार्ज	1,100,135	49,004
क) छापाई एवं लेखनसामग्री	653,020	27,410
ख) यात्रा एवं परिवहन खर्च	4,605,043	4,286,441
ग) संगोष्ठी /कार्यशाला पर व्यय	177,975	1,281,430
घ) चन्दा खर्च		
ङ) शुल्क पर खर्च		
च) लेखा परीक्षक पारिश्रमिक		
छ) आतिथ्य खर्च	73,415	78,406
ज) पेशागत शुल्क	291,082	308,969
झ) अशोध्य और सदियु कर्ज /अग्रिम के लिए प्रावधान		
ञ) गैरवसूल रकम के रूप में बट्टे खाते डाला गया		
ट) पेकिंग प्रभार		
ठ) मालभाड़ा एवं अग्रेषण खर्च		
ड) वितरण खर्च		
ढ) प्रचार एवं प्रकाशन	556,190	674,367
ण) अन्य (उल्लेखित)		
1) कलात्मक एवं संस्कृति आर.एण्ड डी.	3,685,735	3,445,324
2) परीक्षाएं	1,905,674	1,639,693
3) छात्र कल्याण	3,122,379	3,704,334
4) प्रशासनिक व्यय	807,451	
5) कार्यालय प्रशासन	74,621	1,434,802
6) बैठक खर्च	808,873	944,910
7) वाहन अग्रिम	901,854	416,663
8) कुलपति का विवेकाधीन अनुदान	6,000	6,500
9) वसूली एवं शिक्षक शुल्क	4,119	4,185
<b>कुल</b>	<b>38,77,323</b>	<b>34,723,021</b>

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**शांतिनिकेतन**

**वर्षान्त 31 मार्च 2002 के लिए आय एवं व्यय लेखा की अनुसूची रचना अंश राशि**

अनुसूची -25- अनुदान परिदारों पर व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अ) संस्थानों य संगठनों को दिया गया अनुदान (प.सं.वि. एवं प.शि.भ., श्रीनिकेतन)	55,228,872	58,054,398
आ. संस्थानों य संगठनों को दिया गया परिदान		
<b>कुल</b>	<b>55,228,872</b>	<b>58,054,398</b>
<b>अनुसूची -26- पूर्वजमा समायोजन</b>		
अ. पूर्वजमा बकाया 31.3.01 को	1,96,022.35	
31.3.02 को बकाया अप्राप्त	8,92,827.00	
	10,88,849.35	
आ. 31.3.01 को बकाया आप्राप्त	6,97,592.37	
31.3.02 को पूर्वजमा	2,33,433.84	
अ - आ	9,31,026.21	
	1,57,823.14	
<b>अतिरिक्त भोजनालय लाभ</b>	<b>1,67,604.81</b>	
	<b>(-)8,057.00</b>	
	<b>1,59,547.81</b>	
अ. पूर्वजमा बकाया 31.3.2000 को ( छात्र एवं विविध)		1,64,544.10
31.3.01 को बकाया आप्राप्त ( छात्र एवं विविध अजमीन किराया)		6,97,592.37
		8,62,136.47
आ. 31.3.2000 को बकाया आप्राप्त ( छात्र एवं विविध जमीन किराया)		5,04,526.46
31.3.01 को बकाया आप्राप्त ( छात्र एवं विविध जमीन किराया)		1,96,022.35
		7,00,548.81
<b>आ + आ</b>		<b>1,61,587.66</b>
<b>अतिरिक्त भोजनालय लाभ</b>	<b>2,01,333.29</b>	
	<b>(-)1,67,604.81</b>	
<b>कुल</b>	<b>3,17,370.95</b>	<b>1,95,316.14</b>

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**शान्तिनिकेतन**  
**उल्लेखनीय लेखीय नीतियाँ तथा लेखे टिप्पणियाँ**

**उल्लेखनीय लेखीय नीतियाँ**

1. भारत सरकार तथा अन्य निधित प्राप्तिकारियों के प्रणाली अनुकरण से दक्षता के बनाए रखते हुए नकद आधार पर विश्वभारती के वित्त विवरण प्रस्तुत किये गए हैं।
2. निर्धारित प्रणाली तथा पद्धति, गैर-नकद निधियाँ सृजन करने की अनुमति नहीं देती है, अर्जित तथा संचित परिसम्पत्तियों के बदले मूल्यहास का प्रवधान नहीं किया गया है।
3. विगत वर्षों की तरह न होते हुए अनियमित उद्दीष्ट निधियाँ (एसईएम निधियों) तथा उद्दीष्ट निधि, विनियोग निधि आदि अधिक सराहनीय व समझ की स्थिति तथा निधियों की चारित्रिक विशिष्ट मर्दों में से तोड़े गये हैं।
4. विगत वर्षों की तरह न होते हुए योजना से संबंधित आँकड़े तथा अनुदानों के शेष वृहत्तर पारदर्शिता, अर्द्ध अनुश्रवण एवं द्रुत समझदारी के लिए एडुकेअर निधि, डेवलप निधि, ओसप्रो निधि स्पेक्ट निधि फलो निधि आदि जैसे दिखाए गए विशिष्ट मर्दों में से तोड़े गये हैं।
5. उपरक्त 3 एवं 4 के परिप्रेक्ष में  
 अ) वगत वर्ष के आँकड़े तर्क संगत पुनर्समूहीकरण तथा उचित समाहार पर पुनर्गठित किया गया।  
 आ) द्रुत सम्पर्क स्थापित से निधि-अनुसार निवेश निधियों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है।
6. विगत वर्षों की तरह न होते हुए, आय तथा व्यय लेखा अलग से दिवाया गया है तथा वित्तीय विवरण के अंश के रूप में बनाया गया तथा इस प्रकार स्वच्छ रूप में पूँजी व्यय तथा राजस्व व्यय के मध्य उल्लेखनीयता उद्घाटित किया।
7. विगत वर्षों की तरह नहीं, चालूवर्ष के आँकड़े स्तरीय लेखीय सिद्धान्तों तथा प्रयोगों से अनुपालनीय तथा तुलना की सहजता के लिए विगत वर्षों की तदनुसरूपता के साथ प्रस्तुत किया गया।
8. विगत वर्षों की तरह नहीं, शान्तिनिकेतन लेखा की परिस्पति अनुसूची वित्तीय वर्षाधीन प्रचालन दिखाया गया।
9. विगत वर्ष की भांति नहीं, प्राप्तियाँ तथा भुगतान लेखा निर्धारित नए फार्मेट की आवश्यकतानुसार सुगठित रूप में दर्शाया गया।

**लेखा अधिकारी**  
**विश्वभारती**

**लेखे पर टिप्पणियाँ**

1. 31 मार्च, 2001 को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष के लेखे विद्यमान पुस्तपालन प्रणाली के अधीन उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर संकलित किये गए हैं। विद्यमान प्रणाली में कर्मिया, कमम्पूटर प्रयोगशील स्तरीय प्रयोग पैकेज पर डाटा के संकलन की मदद से विहिनित कर दिया गया है। इस प्रकार, अधिकांश पिछले के पर कमम्पूटर आधारित हैं।
2. सामग्री सूचना के उद्घाटन के हित में यह स्वीकार किया जाता है कि वर्ष के अंत में रु. 6,48,794.00 का नकद शेष हाथ में सही रूप से गैर-संवितरित दायिताओं दर्शित को करता है। यद्यपि निर्दिष्ट व्यय जना पश्या गया है। इसप्रकार, समरूप राशि दायिता के रूप में दिखायी गयी है।
3. रु. 4,83,457.00 की गैर-समाहारित राशि परवर्ती वर्ष में सम्पकित तथा समायोजन के उचंत के बदले परिसम्पति के रूप में दिखाया गया है।

**लेखा अधिकारी**  
**विश्वभारती**



# विश्वभारती शान्तिनिकेतन

वित्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (राजस्व)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	विगत वर्ष	भुगतान चालू वर्ष	विगत वर्ष
क्षेत्र अध्ययन	3,798	3,241		
पत्रिका का विक्रय	19,238	4,635	53,970,689	76,508,805
विविध प्राप्ति (कम्प्यूटर केन्द्र)	54,913		75,615,541	62,771,596
उत्तकालय शुल्क	6,206		26,888,192	35,841,541
खोपी पुस्तकों का शुल्क	4,507	10,957	34,865,670	26,277,816
बुलेटिन/प्रास्पेक्टस/प्रवेश आवेदन	1,350,001	836,838		
शोध प्रकाशन का विक्रय	31,315	18,949		
विश्वभारती पत्रिका (त्रैमासिकी) का बन्दा	15,797		2,620,842	2,527,497
दाताओं की सम्मानिकी	300	18,023	1,399,832	1,360,328
प्रकाशनों का विक्रय	1,906	4,197		
विश्वभारती समाचार का विक्रय	10	75		
रवीन्द्रमठन का द्वार शुल्क	757,524	654,811	57,425,064	54,145,684
अन्य मद वाहन अग्नि	390,426	501,349	13,281,572	11,955,298
छात्र शुल्क लेख				
शिक्षण शुल्क	1,376,005	1,112,486	649,140	771,504
आवास शुल्क	488,650	411,365		
प्रवेश शुल्क	229,620	178,070		
निबन्धन शुल्क	42,095	73,976		
पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	1,939	1,927	150,282	157,118
परीक्षा शुल्क	226,162	223,648	355,480	2,624,982
अंक सूची शुल्क	21,042	19,406	11,500	10,650
खेल शुल्क	25,470	22,549	15,000	30,000
स्थानान्तरण शुल्क	14,360	10,150		
उपाधिपत्र	28,065	16,750	377,043	403,601
डिप्लोमा/प्रमाण पत्र शुल्क	9,525	3,900	231,036	183,908
विविध प्राप्ति	205,941	184,603		
विद्यार्थन चार्ज	22,565	13,515		

## विद्यभारती

## शान्तिनिकेतन

वित्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्तिर्ग एवं मुगतान लेखा (राजस्व)

## प्राप्तियाँ

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
प्रतिलेख शुल्क	12,400	16,420	स्वच्छ व्यय	1,247,822	
सांस्थानिक चार्ज	11,000	23,000	अ) औषध मूल्य	44,760	
निविदा कार्य/अनुबंध	118,050	234,865	आ) उपभोग्यों का मूल्य	1,300	
विविध प्राप्तिर्ग	54,250		इ) उपकरणों का मूल्य	25,168	21,970
प्रयोगशालाशुल्क/विलिनिकल (चार्ज)	3,664	1,757	ई) वैडिंग एवं लिनेन का मूल्य		
एक्स्टरे चार्ज	1,480	1,236	उ) एक्स्टरे फिल्टर का मूल्य		
स्वास्थ्य शुल्क	145,233	81,444	ऊ) स्ट्रेसनरी का मूल्य		
ई.सी.जी. चार्ज	2,680	1,691	ऋ) प्रतिपूर्ति का मूल्य		
बागीचों से आय	25,887	29,287	क) आवासिक चिकित्सा		
छपाई		614	ख) अस्पताल में चिकित्सा	14,378	200
दस् भाड़ा	28,907	22,430	ए) प्रदीर्शन का मूल्य	2,437,407	3,310,175
रात्रि पहरेदार चार्ज	1,878	2,148	ऐ) पोशाक	6,623	
विद्युत शुल्क	51,295	35,062	ओ) चिकित्सालय अनुरक्षण	25,756	
जल शुल्क	416,814	368,122	औ) क्लीनिकल व्यय	517,566	
अवकाश वेतन एवं देशन योगदान	230,558	172,953	क) चिकित्सालय में योगदान	159,268	
जमीन/भवन एवं अन्य सम्पत्तियों से आय			शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध	60,000	50,000
गृह किराया	360,788	416,446	अ) शिक्षण सहायता एवं सुविधाएं	76,293	103,827
कनिचर किराया	16,304	23,262	आ) व्याख्यान प्रदर्शनी	34,675	49,158
पखा किराया	10,380	11,347	इ) क्षेत्र अध्ययन	3,672	31,585
ऊर्मीन किराया	27,826	32,240	ई) विभागीय प्रकल्प	41,379	162,585
अतिथि गृह से किराया	854,145	843,010	उ) पत्रिकाएं एवं समाचारिकी	5,762	34,552
दूरभाष चार्ज	1,177	7,553	ऊ) सम्मेलन, सेमिनर्स एवं कर्मशाला	407,555	222,744
फैक्स से आय	2,534	5,530	ऋ) अध्ययन यात्रा/परिवर्तन		
विविध प्राप्तिर्ग	26,178	15,862	ए) तकनीकी प्रकाशन	2,772	7,175
पोखरी से आय	177,050	150,387	ऐ) छपाई एवं स्ट्रेसनरी	1,100,135	49,004
ग्रन्थन विभाग से योगदान	13,000	12,000	ओ) उपयोग	162,167	14,222
ग्रन्थन विभाग से स्वामित्व	113,000	113,000			

विश्वभारती  
शान्तिनिकेतन

वित्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्तिर्घा एवं भुगतान लेखा (राजस्व)

प्राप्तिर्घा		भुगतान	
खंड अनुदान	चाहू वर्ष	चाहू वर्ष	पिछले वर्ष
म.व. सरकार से अनुदान	376,917,000	350,300,000	3,042,248
संरचना चार्ज	41,450	2,700	3,153,415
अल्पावधि निवेश से आय	9,122,455	1,47,727	2,258
			1,48,719
		108,317	101,200
		12,433	7,891
		14,450	12,275
		257,733	3,337,953
		4,248	
		7,316	35,367
		13,064	53,592
		10,500	12,500
		48,224	9,400
		30,358	16,998
			11,624
		21,292	
		1,884,382	1,639,693

परीक्षाएं

- अ) किराये के हॉल का चार्ज  
आ) प्रश्नपत्र छयन चार्ज  
इ) जॉब शुल्क एवं चार्ज  
ई) छपाई एवं स्टेशनरी  
उ) अन्येषण शुल्क  
क) अन्य

विश्वभारती  
शान्तिनिकेतन

वित्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा (राजस्व)

प्राप्तियों		भुगतान	
चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
छात्र कल्याण			
छात्रवृत्ति		847,380	902,700
पुरस्कार एवं पारितोषिक		63,824	22,100
स्वास्थ्य रक्षा एवं चिकित्सा सुविधाएं			23,592
भोजनालय		40,340	39,673
वार्षिक खेल-कूद एवं प्रतियोगिताएं		343,574	684,181
छात्रावास अनुरक्षण एवं अन्य शुल्क		449,139	
पुस्तक, पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र		67,620	60,993
छात्रों का परिदर्शन एवं अध्ययन यात्रा		675,807	597,996
छात्रों की सांस्कृतिक गतिविधि		295,152	294,156
छात्रों का पुस्तक कोष/विज्ञान क्लब		275,952	8,067
छात्रों का सूचना केन्द्र			134,635
छात्रों की मनोरंजन सुविधाएं			316,-86
एन.सी.सी. इकाई पर व्यय		63,592	66,424
अन्य कल्याण क्रियाकलाप			77,579
सुरक्षा एवं अनुरक्षण			
विरासत सम्पत्तियों		701,790	241,692
पांडुलिपियां		29,640	5,853
चित्र, निमिचित्र एवं		3,842	3,749
आडियो एवं वीडियो		4,609	3,099
पुरालेख		5,010	2,464
फोटोग्राफ			

विश्वभारती  
शान्तिनिकेतन

वित्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्तिर्घो एवं भुगतान लेखा (राजस्व)

प्राप्तिर्घो	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	भुगतान	
			चालू वर्ष	पिछले वर्ष
मरम्मत एवं अनुरक्षण				
सड़क एवं पथ	9,565	11,122		
भवन	4,776			
संग्रहालय, दीर्घा एवं चित्र	8552			
छात्रों का छात्रावास				
स्टाफ आवास				
अतिथि आवास				
चिकित्सालय भवन				28,342
पुस्तकालय भवन			4,676,614	5,684,297
कार्यालय भवन			71,994	77,761
वाग एवं खेल मैदान			21,888	44,325
संपदा एवं परिसर				709
शारीरिक प्रशिक्षण उपकरण				
जल प्रदाय एवं आपूर्ति			700,378	771,501
एल.ए.एन सहित विद्युत व्यवस्थापन			1,307,686	32,010
दूरभाष व्यवस्थापन				6,386
मोटर वाहन			28,631	419,378
वैज्ञानिक उपकरण				1,410
ऑडियो वीडियो उपकरण			56,762	56,927
संगीत वाद्य				
कार्यालय उपकरण तथा कम्प्यूटर			639,031	1,449,751
जेनरेटर सेट्स			2,066,232	1,333,717
वातानुकूलन संयंत्र			134,424	66,520
फर्नीचर एवं फ्रीडिंग्स			262,001	178,875
प्रशासनिक व्यय			807,451	
किराया, दर एवं कर			15,450	8,400

विश्वभारती  
शान्तिनिकेतन

वित्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्तिर्घो एवं भुगतान लेखा (राजस्व)

प्राप्तिर्घो		भुगतान	
चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
विद्युत एवं शक्ति		7,549,127	6,235,045
विद्युत एवं शक्ति		762,753	22,000
ईन्धन एवं जेनरेटर के लिए लुब्रिकेन्ट			
बीमा			
अ) भवन			
आ) संग्रह			
इ) वाहन		146,274	68,860
ई) केश		129,331	120,875
चालू वाहन एवं अनुरक्षण		370,758	66,936
संचार			
डाक टिकट एवं कूरियर चार्ज		27,128	89,491
दूरभाष एवं फेक्स		1,504,981	1,278,132
यात्रा एवं परिवहन			
अ) विदेश यात्रा : टिकट खर्च			
आ) विदेश यात्रा : अन्य			
इ) अन्तर्देशीय यात्रा : टिकट खर्च			
ई) अन्तर्देशीय यात्रा : अन्य			9,600
उ) स्थानीय परिवहन		653,020	17,810
चन्दा एवं योगदान			
संस्थागत सदस्यता		158,975	1,263,430
कर्मि सभा को योगदान		10,000	10,000
अध्यापक सभा को योगदान		9,000	8,000

विश्वभारती  
शान्तिनिकेतन

वित्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्तिर्ग एवं भुगतान लेखा (राजस्व)

प्राप्तिर्ग		भुगतान	
चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कार्यालय प्रशासन			
कार्यालय अनुरक्षण		1,290,658	
छपाई एवं स्टेशनरी		64,821	
पुस्तक एवं सामयिकी		9,800	
सामान्य शुल्क		144,144	
आतिथ्य व्यय			
अ) वी.वी.आई.पी.			
आ) वी.आई.पी.			
इ) वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी			
ई) शासी समिति के सदस्य			
उ) विश्वविद्यालय अतिथि		73,415	
ऊ) अन्य		78,406	
विधि एवं पेशागत शुल्क			
वकील का शुल्क		291,082	
विधि शुल्क		308,969	
पेशेवर परामर्शी शुल्क			
पेशागत सेवाओं का चार्ज			
विज्ञापन एवं प्रचार			
अ) प्रवेश सूचना			
इ) नियोजन सूचना			
ई) विधि सूचना			
उ) सामान्य सूचना		556,190	
		674,367	

विश्वभारती  
शान्तिनिकेतन

वित्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्तिर्ग एवं भुगतान लेखा (राजस्व)

प्राप्तिर्ग		भुगतान	
चावू वर्ष	पिछले वर्ष	चावू वर्ष	पिछले वर्ष
		बैंक-व्याय	
		अ) कर्म समिति परिषद बैठक	
		आ) वित्त समिति बैठक	
		इ) आन्तरिक समिति बैठक	
		ई) अन्य बैठक	808,873 944,910
		अनुदान एवं परिदान	
		पी.एस.वी. श्रीनिकेतन	32,611,184 33,231,022
		पी.एस.बी. श्रीनिकेतन	22,617,687 24,823,376
		फर्नीचर एवं उपकरण	1,169,264 1,722,128
		परिवहन अद्रिम	901,854 416,663
		कुलपति की विवेकाधीन निधि	6,000 6,500
		शिक्षण शुल्क की वापसी	4,119 4,185
			370,774,621 376,808,496
1 अप्रिल 2001 को प्रारंभिक शेष	394,114,701 365,476,872		
	-142,001 13,189,824	31 मार्च 2002 को अन्तिम शेष	23,198,079 -142,001
	393,972,700 376,666,696		393,972,700 376,666,696

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

ह.  
वित्त अधिकारी  
विश्वभारती

ह.  
रजिस्ट्रार  
विश्वभारती



विश्वभारती  
शान्तिनिकेतन

वित्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्तिर्ग एवं भुगतान लेखा (गैर राजस्व)

प्राप्तिर्ग		भुगतान	
सी.एस. आई.आर. से अनुदान, प्रकल्पः		सी.एस. आई.आर. से अनुदान, प्रकल्पः	
अध्येतावृत्ति	96,344.00	अध्येतावृत्ति	1,59,624.00
सी.एस.आई.आर. प्रकल्प के अधीन		सी.एस.आई.आर. प्रकल्प के अधीन	
असीम कुमार दास (1)	1,633.00	प्रो. समीर भट्टाचार्य	1,85,625.23
श्री एस.पी. सिन्हा बाबू	5,600.00	श्री एस.पी. सिन्हा बाबू	8,600.00
प्रो. समीर कुमार राय	1,00,025.00	प्रो. समीर राय	1,71,512.00
श्री असीम कुमार दास (2)	72,600.00	श्री असीम कुमार दास (2)	1,33,975.00
श्री काशीनाथ मट्टाचार्य	2,46,000.00	श्री काशीनाथ मट्टाचार्य	1,70,012.00
श्री ताराप्रसाद घट्टोपाध्याय	2,16,667.00	श्री ताराप्रसाद घट्टोपाध्याय	3,729.00
		अतिथि अध्येता	9,290.00
		शोध प्रकाशक	8,600.00
जमा :		जमा	
विविध जमा	2,38,08,254.50	विविध जमा	2,64,66,320.00
यूनियन शुल्क	1,07,264.00	यूनियन शुल्क	37,410.00
पत्रिका शुल्क	76,161.00	पत्रिका शुल्क	65,140.00
छात्र सहाय्य निधि	96,378.00	छात्र सहाय्य निधि	33,340.00
पाठ भवन छात्र का जमा	3,47,271.00	पाठ भवन छात्र का जमा	3,00,000.00
काउशन मनी	93,350.00	काउशन मनी	54,235.00
छात्र शुल्क लेखा	41,90,495.70	छात्र शुल्क लेखा	41,90,495.00
भोजनालय जमा	20,570.00	भोजनालय जमा	15,434.00
पुस्तकालय जमा	81,930.00	पुस्तकालय जमा	26,400.00
प्रयोगशाला काउशन जमा	28,600.00	प्रयोगशाला काउशन जमा	7,925.00
बर्तन जमा	65,760.00	बर्तन जमा	42,480.00
पाठ भवन छात्र का कॉशन मनी जमा	12,400.00	पाठ भवन छात्र का कॉशन मनी जमा	14,800.00
बचाना जमा	7,40,275.00	बचाना जमा	6,63,468.00
अग्रनयन	3,04,07,578.20	अग्रनयन	3,27,68,414.97

विश्वभारती  
शान्तिनिकेतन

वैत्तीय वर्ष 2001-02 का प्रारम्भिक एवं भुगतान लेखा (गैर राजस्व)  
प्रारम्भिक

जमा: (क्रमागत)	अग्रणीत	3,04,07,578.20	मा: (क्रमागत)	अग्रणीत	3,27,68,414.97
प्रतिभूति राशि	28,30,707.00		प्रतिभूति राशि	14,18,644.00	
पी.एफ. चन्दा	2,68,36,157.00		पी.एफ. चन्दा	2,68,21,870.00	
पी.एफ. कर्ज	86,85,374.97		पी.एफ. कर्ज	86,81,373.71	
को-ऑपरेटिव बैंक	1,66,13,699		को-ऑपरेटिव बैंक	1,65,52,844.35	
आयकर	1,00,96,243.00		आयकर	1,00,00,992.00	
ठेकेदारों का आयकर	8,84,038.00		ठेकेदारों का आयकर	8,29,981.00	
ठेकेदारों का विक्रय-कर	8,42,710.00		ठेकेदारों का विक्रय-कर	8,17,229.00	
पाठमवन भोजनालय से नं 1:			पाठमवन भोजनालय से नं 1:		
रसोई चार्ज	12,63,709.28		रसोई चार्ज	11,52,676.70	
नदी योजना वेतन के लिए वि.अ. आयोग अनुदान			नदी योजना वेतन के लिए वि.अ. आयोग अनुदान		
रवीन्द्र संगीत एड गुरु			रवीन्द्र संगीत एड गुरु	57,015.00	
बनस्पति शास्त्र:			बनस्पति शास्त्र:	57,015.00	
शिक्षण स्टाफ			शिक्षण स्टाफ		
वेतन			वेतन	1,01,129.00	
मैहगाई भत्ता			मैहगाई भत्ता	44,053.00	
गृह किराया भत्ता			गृह किराया भत्ता	7,589.00	
परिवहन भत्ता			परिवहन भत्ता	4,000.00	
				1,56,771.00	
गणित			गणित		
शिक्षण स्टाफ			शिक्षण स्टाफ		
वेतन			वेतन	1,11,100.00	
मैहगाई भत्ता			मैहगाई भत्ता	48,391.00	
				1,59,491.00	
अग्रनयन	9,84,60,216.80		अग्रनयन	9,94,17,302.73	

विश्वभारती  
शान्तिविकेताम

वित्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्तिर्घो एवं भुगतान लेखा (गैर राजस्व)

प्राप्तिर्घो

अग्रणीत 9,84,60,216.80

भुगतान

अग्रणीत 9,94,17,302.73

नवी योजना वेतन के लिए वि.अ. अनुदान (क्रमागत)

भक्तिकी

शिक्षण स्टाफ	
वेतन	84,533.00
मैहगाई भत्ता	36,899.00
गृह किराया भत्ता	6,340.00
परिवहन भत्ता	3,827.00
	<u>1,31,599.00</u>

प्राप्ति शास्त्र

शिक्षण स्टाफ	
वेतन	1,04,225.00
मैहगाई भत्ता	45,402.00
गृह किराया भत्ता	7,817.00
परिवहन भत्ता	4,000.00
	<u>1,61,444.00</u>

पर्यावरण अध्ययन

शिक्षण स्टाफ	
वेतन	2,47,857.00
मैहगाई भत्ता	1,07,703.00
गृह किराया भत्ता	18,591.00
परिवहन भत्ता	8,408.00
	<u>3,82,559.00</u>

सांख्यिकी

शिक्षण स्टाफ	
वेतन	1,93,511.00
मैहगाई भत्ता	47,331.00
गृह किराया भत्ता	8,138.00
परिवहन भत्ता	4,214.00
	<u>2,53,194.00</u>

अग्रणीत 9,84,60,216.80

अग्रणीत 10,03,46,098.73

**विश्वभारती**  
**शान्तिनिकेतन**  
**वित्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्तिर्घो एवं भुगतान लेखा (गैर राजस्व)**  
**प्राप्तिर्घो**

अग्रणीत 9,84,60,216.80

अग्रणीत 10,03,46,098.73

नवी योजना  
अर्थशास्त्र:

वेतन के लिए वि.अ.अ. अनुदान (क्रमागत)

शिक्षण स्टाफ

वेतन

मैहगाई भत्ता

गृह किराया भत्ता

परिवहन भत्ता

2,87,800.00

1,25,770.00

21,588.00

7,400.00

4,42,558.00

अंग्रेजी:

शिक्षण स्टाफ

वेतन

मैहगाई भत्ता

गृह किराया भत्ता

परिवहन भत्ता

87,467.00

38,101.00

6,500.00

3,973.00

1,36,101.00

इतिहास:

शिक्षण स्टाफ

वेतन

मैहगाई भत्ता

गृह किराया भत्ता

परिवहन भत्ता

2,96,736.00

1,29,741.00

22,260.00

7,480.00

4,56,217.00

कम्प्यूटर केन्द्र:

शिक्षण स्टाफ

वेतन

मैहगाई भत्ता

गृह किराया भत्ता

परिवहन भत्ता

97,530.00

40,490.00

6,971.00

4,400.00

1,49,391.00

जापानी:

शिक्षण स्टाफ

वेतन

88,000.00

10,16,18,365.73

अग्रनयन 9,84,60,216.80

अग्रनयन

**विश्वभारती**  
**शान्तिनिकेतन**  
**वित्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्तिर्ग एवं भुगतान लेखा (गैर राजस्व)**

<b>प्राप्तिर्ग</b>		<b>भुगतान</b>	
अग्रणीत 9,84,60,216.80	नवी योजना वेतन के लिए वि.अ.आ. अनुदान (क्रमागत)	अग्रणीत 10,16,18,365.73	
<b>कलाभवन:</b>			
	शिक्षण स्टाफ		3,25,580.00
	वेतन		59,556.00
	मैहगाई भत्ता		10,198.00
	गृह किराया भत्ता		4,000.00
	परिवहन भत्ता		3,99,334.00
<b>दर्शन शास्त्र:</b>			
	शिक्षण स्टाफ		1,23,550.00
	वेतन		59,221.00
	मैहगाई भत्ता		9,265.00
	गृह किराया भत्ता		6,000.00
	परिवहन भत्ता		1,98,036.00
<b>के.एस. कम्प्यूटर</b>			
	वेतन		1,23,000.00
	मैहगाई भत्ता		21,280.00
	गृह किराया भत्ता		3,600.00
	परिवहन भत्ता		900.00
			1,48,780.00
<b>पाठभवन:</b>			
	शिक्षण स्टाफ		39,167.00
	वेतन		14,495.00
	मैहगाई भत्ता		53,662.00
अग्रनयन 9,84,60,216.80	अग्रनयन	10,24,18,172.73	

**विश्वभारती**  
**शान्तिनिकेतन**  
**वित्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्तिर्योग एवं भुगतान लेखा (गैर राजस्व)**

<b>प्राप्तिर्योग</b>		<b>भुगतान</b>	
अग्रणीत	9,84,60,216.80	अग्रणीत	10,16,18,365.73
नवी योजना वेतन के लिए वि.अ.आ. अनुदान (क्रमागत)		बायोतकनीकी	
		वेतन	9,032.00
		मेंहगाई भत्ता	4,065.00
		गृह किराया भत्ता	677.00
		परिवहन भत्ता	452.00
			<u>14,226.00</u>
नवी योजना के लिए यू.जी.सी. अनुदान		पुस्तक	30,92,428.00
एकसमय अनुदान		उपकरण	1,27,30,576.75
		प्रयोगशाला उपकरण	28,03,369.00
		पुस्तकालय उपकरण	10,46,000.00
		पुस्तकालय की पुस्तकें	16,97,271.00
नवी योजना वेतन:			
कृषि विज्ञान		शिक्षण स्टाफ	22,194.00
		वेतन	9,987.00
		मेंहगाई भत्ता	1,665.00
		गृह किराया भत्ता	1,110.00
		परिवहन भत्ता	<u>34,956.00</u>
शिक्षा-सत्र		शिक्षण स्टाफ	78,700.00
		वेतन	34,279.00
		मेंहगाई भत्ता	<u>1,12,979.00</u>
अग्रनयन	9,84,60,216.80	अग्रनयन	12,39,49,983.48

**विश्वभारती**  
**शान्तिनिकेतन**

**वित्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्तिर्ग एवं भुगतान लेखा (गैर राजस्व)**  
**प्राप्तिर्ग**

अग्रणीत	9,84,60,216.80	अग्रणीत	12,39,49,983.48
उपाचार्य का कार्यालय			
वेतन			1,49,467.00
मैहगाई गत्ता			65,068.00
गृह किराया भत्ता			271.00
			<u>2,14,806.00</u>
के.एस. कार्यालय			
वेतन			2,69,820.00
मैहगाई भत्ता			1,15,904.00
गृह किराया भत्ता			19,913.00
परिवहन भत्ता			8,400.00
			<u>4,14,037.00</u>
अनिधारित अनुदान			
समूह - अ			3,74,199.00
समूह - आ			1,95,667.00
			<u>5,69,866.00</u>
विशिष्ट प्रयोजन के लिये यू.जी.सी. अनुदान			
शोध सहायक वृत्ति			6,497.00
पुनर्यवर्ग पाठक्रम	10,01,200.00		10,63,335.34
विशिष्ट सहायता कार्यक्रम एस.ए.जी/डी.एस.ए	12,90,000.00		12,92,145.00
प्लेटिनम जयंती समारोह	11,05,000.00		29,24,637.00
वृहत् भवन मरम्मत के लिए विशिष्ट अनुदान	53,000.00		10,07,447.00
अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ के लिए सहायता	1,00,000.00		17,499.00
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय एकता केंद्र की स्थापना में	1,48,600.00		3,34,535.67
भारो-क्रेष सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के विशिष्ट प्रयोजन के लिये यू.जी.सी. अनुदान:	20,00,000.00		67,884.00
अग्रनयन	10,41,58,016.80	अग्रनयन	13,18,62,672.63

**विशिष्ट प्रयोजन के लिये यू.जी.सी. अनुदान**

पुनर्यवर्ग पाठक्रम	10,01,200.00
विशिष्ट सहायता कार्यक्रम एस.ए.जी/डी.एस.ए	12,90,000.00
सी.ओ.एस.आई.एस.टी. प्राणी शास्त्र विभाग	11,05,000.00
अराकालिक शोध सहायक -श्रावनी चक्रवर्ती	53,000.00
एकक संस्कृत कथन पाठ्यक्रम का स्थापन	1,00,000.00
अराकालिक शोध सहायक - शास्वती कापट	1,48,600.00
कार्यालय संचालन के लिए विशेष अनुदान	20,00,000.00
अग्रनयन	10,41,58,016.80

**विश्वभारती**  
**शान्तिभिकेतन**

**वित्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्तिर्घो एवं भुगतान लेखा (गैर राजस्व)**  
**भुगतान**

अग्रणीत	10,41,58,016.80	अग्रणीत	13,18,62,672.63
ई.सी.ए.आर. सी.एस.आई. आर. आई.सी.एस.एस.आर. इत्यादि:		केन्द्रीय पुस्तकालय इनफोर्मीनेट कार्यक्रम का कम्प्यूटरीकरण	35,700.00
पर्यावरणीय जीव विज्ञान एवं मत्स्य जीव विज्ञान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए	30,000.00	कम्प्यूटर केन्द्र का उपकरण	19,02,525.00
विशिष्ट अनुदान		सी.ओ.एस.आई.एस.टी. कार्यक्रम प्राणी शास्त्र विभाग	11,05,000.00
जी.कार्यो के लिए वि.अ.आ. आयोग से अनुदान:		विनिर्दिष्ट अनुदान के लिए आई.सी.ए.आर., आई.सी.एस.एस.आर. आदि	
महिला छात्रावास का निर्माण (आठवी योजना)	8,00,000.00	सी.एस.आई.आर. अनुदान के लिए प्रथम भारत-विश्व-भारती कर्मशाला में	
नवी योजना विकास के लिए वि.अ.आ. आयोग अनुदान	5,29,00,000.00	गणितीय रसायन	6,600.00
		सी.एस.आई.आर. अनुदान के लिए जातीय संगोष्ठी में पर्यावरणीय जीवविज्ञान एवं	30,000.00
		मत्स्य जीवविज्ञान	
		के.पी.के. के लिए नया कार्यालय भवन का फेंसिंग के लिए आई.सी.ए.आर. का	3,628.00
		अनुदान	
		यू.जी.सी. अनुदान के लिए पूँजीगत कार्य:	
		छात्रावास निर्माण संगीत एवं कलाभवन	40,45,464.39
		कम्प्यूटर सिस्टम का ऑकड़े प्रणाली निर्माण	1,98,941.00
		शारीरिक शिक्षा कार्यालय भवन निर्माण	3,04,706.08
		प्राक्टर एवं डीन ऑफिस भवन के निर्माण	22,62,694.86
		सी.आई.एच.ए.पी. के लिए अतिरिक्त श्रेणी कक्ष निर्माण	3,80,778.85
		ए.एस.इ.पी.ए.एन. के लिए अतिरिक्त श्रेणी कक्ष निर्माण	6,77,857.38
		रवीन्द्र भवन के लिए सीडू मनी	10,00,000.00
		प्रथम तल, रसायन शास्त्र विभाग का प्रयोगशाला के लिए निर्माण	1,90,352.00
		पर्यावरणीय अध्ययन के लिए भवन निर्माण	2,19,897.26
		प्राणीविज्ञान भवन प्रयोगशाला के लिए अतिरिक्त श्रेणी कक्ष निर्माण	1,76,130.50
		कलाभवन का श्रेणी कक्ष की वृद्धि के लिए निर्माण	1,72,825.00
		महिला आवास निर्माण (आठ वी परिकल्पना)	4,80,000.00
		विद्याभवन कम्प्लेक्स का निर्माण	53,06,107.94
अग्रनयन	15,78,88,016.80	अग्रनयन	15,03,61,880.89



विश्वभारती  
शान्तिनिकेतन

वित्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्तिर्घो एवं भुगतान लेखा (भैर राजस्व)  
प्राप्तिर्घो

पश्चिम बंगाल सरकार से अनुदान एन.एस.एस. के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से अनुदान	अग्रणीत 15,78,88,016.80	विशिष्ट प्रयोजन के लिए यू.जी.सी. अनुदान (क्रमशः) वर्ग-क्रमश और शिक्षक कक्षा का निर्माण	अग्रणीत 15,03,61,880.89
पश्चिम	40,000.00	पौध संरक्षण के लिए कम्प्यूटर कमरा	12,700.00
		संगोष्ठी हॉल का निर्माण	
		शिक्षक कक्षा, वनस्पति शास्त्र विभाग	1,02,938.00
		प्रयोगशाला, प्रथम तल, भौतिकी विभाग के लिए वर्ग के कमरे का निर्माण	2,75,881.54
		परिसर विकास पक्ष - 2	35,00,000.00
		रथीन्द छात्रावास की मरम्मत, श्रीनिकेतन	3,60,886.17
		विनय भवन की मरम्मत एवं प्रतिस्थापन	69,663.00
		पश्चिम बंगाल सरकार से अनुदान	
		एन.एस.एस. के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के अनुदान	1,25,579.00
		सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए ओडिसा सरकार से अनुदान	15,388.00
पश्चिम		श्री जी. बास्की, श्री आर. घटाजी, श्री एस.के. मुखार्जी द्वारा छोड़े गये आवास की मरम्मत	73,077.00
		कृषि कार्य सम्पत्ति, श्रीनिकेतन की मरम्मत	2,53,708.00
		पूविता की मरम्मत	4,79,131.52
		बायो तकनीकी का निर्माण	6,05,959.34
		आपरेशन थियेटर सहित पी.एम. चिकित्सालय की मरम्मत एवं नवीकरण	2,77,355.00
		कुलपति आवास की मरम्मत, प्रिल लगाने और कालीम्पीबुल द्वार लगाने के लिए	1,35,655.00
		आश्रम क्षेत्र के द्वार माग में सुरक्षा द्वार सहित परिसर विभाग, घेरा का उत्थान	2,87,984.00
		विश्वविद्यालय प्रेस भवन की मरम्मत	1,49,167.00
		विद्युत व्यवस्थापन कार्य सहित पी.एस.बी. पुस्तकालय, श्रीनिकेतन की सम्पूर्ण मरम्मत एवं नवीकरण कार्य	4,391.00
		अग्रणीत	15,70,91,281.37



विश्वभारती  
शान्तिनिकेतन

वित्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा (गैर राजस्व)  
प्राप्तियों भुगतान

अन्य निकायों से अनुदान	अग्रणीत	अग्रणीत	अन्य निकायों से अनुदान
डी.इ.ओ.एम.ओ.ई.एल. इटली सरकार से अनुदान	15,91,60,020.55	अग्रणीत	15,80,81,115.86
खगोल-भौतिकी के स्कूल पर संयुक्त संगोष्ठी के आयोजन हेतु आई.यू.सी.ए.	77,495.65	केन्द्रीय भवन को डुडको अनुदान	40,694.00
अनुदान	20,000.00	डी.इ.ओ.एम.ओ.ई.एल. इटली सरकार से अनुदान	1,25,760.65
जापानी अध्ययन विभाग में बुनियादी प्रकल्प के सहायताार्थ कांसुलेट जेनरल	96,576.00	खगोल-भौतिकी के स्कूल पर संयुक्त संगोष्ठी के आयोजन हेतु आई.यू.सी.ए.	17,030.00
ऑफ जापान से अनुदान	6,000.00	अनुदान	5,42,956.84
आइन्स्टाइन भवन के निर्माणार्थ टैगोर-आइन्स्टाइन परिषद का भुगतान		माधवी छात्रावास उपग्रह के निर्माण के लिए बासन्ती धटक से योगदान	5,06,061.00
अन्य निकायों से अनुदान (क्रमागतः)		रवीन्द्रभवन के विकास के लिए एस.बी.आई. से अनुदान	
भौतिकी विभाग में विचार गोष्ठी के लिए आइ.एन.एस.ए. से आर्थिक सहायता	10,000.00	अन्य निकायों से अनुदान (क्रमागतः)	
दूरदर्शन भवन में भित्ति-चित्र कार्यों की रूपरेखा के लिए आकाशवाणी दूरदर्शन	2,00,000.00	जापानी अध्ययन विभाग में बुनियादी प्रकल्प के सहायताार्थ कांसुलेट जेनरल	79,690.00
से अनुदान		आफ जापान से अनुदान	3,000.00
जापानी अध्ययन के स्तरीययन सुविधाओं के लिए जापानी निधि से अनुदान	73,790.00	विश्वभारती में राष्ट्रीय युवा शिविर के लिए आई.डी.एफ. बंगालर से अनुदान	8,06,285.02
वि.भा. में 9वें राज्य विज्ञान कांग्रेस के आयोजन के लिए डी.एस.टी. पश्चिम	4,00,000.00	निपुणभवन के विस्तारण के लिए जापान-भारत-टैगोर सोसाईटी से अनुदान	
बंगाल से अनुदान		दूरदर्शन भवन में भित्ति-चित्र कार्यों की रूपरेखा के लिए आकाशवाणी दूरदर्शन	1,49,520.00
विज्ञान बालिका छात्रावास की मरम्मत कार्य के लिए बी.के. बिड़ला निधि से	4,50,000.00	जापान निधि से अनुदान	4,20,337.00
योगदान		विज्ञान बालिका छात्रावास की मरम्मत कार्य के लिए बी.के. बिड़ला निधि से	
गोयनका बालिका छात्रावास के नवीकरण के लिए आर.पी.जी. इन्टरप्राइजेस से	1,50,000.00	योगदान	30,986.00
अंश दान		भौतिकी विभाग में बौद्धिक गुणधर्मिता अधिकार पर कार्यशाला हेतु डी.एस.टी	
भौतिकी विभाग में बौद्धिक गुणधर्मिता अधिकार पर कार्यशाला हेतु डी.एस.टी	31,000.00	पश्चिम बंगाल सरकार से अनुदान	3,301.00
पश्चिम बंगाल सरकार से अनुदान		अनावर्ती के लिए एन.सी.आर.आई. संस्थान से अनुदान संरचना उपकरण	
		अग्रनयन	अग्रनयन
		16,06,74,882.20	16,08,03,737.37

विश्वभारती  
शान्तिनिकेतन

वित्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा (गेर राजस्व)  
प्राप्तियों भुगतान

एस.ई.एम. निधि:	अग्रणीत	16,06,74,882.20	एस.ई.एम. निधि:	अग्रणीत	16,08,03,737.37
एस.ई.एम. निधि		2,68,575.00	एस.ई.एम. निधि का निवेश		2,00,000.00
उपाचार्य की विवेकाधीन निधि		1,650.00	जमा का निवेश		81,02,970.00
जमा का निवेश		77,29,521.25	अनुदान निवेश		55,64,17,809.00
अनुदान निवेश		55,09,00,000.00	एस.ई.एम. निवेश से हुए आय-मद से व्यय		1,07,352.00
एस.ई.एम. निधि निवेश से आय		12,91,200.70			
इन्दिरा गांधी केन्द्र के अनुदान निवेश से आय		28,000.00			
डी.एस.टी. प्रकल्प एवं आनविक उर्जा प्रकल्प			डी.एस.टी. प्रकल्प एवं आनविक उर्जा प्रकल्प		
श्री अस्मिता सेनगुप्ता के अधीन डी.एस.टी. प्रकल्प		2,06,000.00	श्री अस्मिता सेनगुप्ता के अधीन डी.एस.टी. प्रकल्प		2,11,555.00
प्रो. शैली मट्टाचार्य के अधीन डी.एस.टी. प्रकल्प		13,00,000.00	प्रो. शैली मट्टाचार्य के अधीन डी.एस.टी. प्रकल्प		1,83,644.00
श्री टी.पी. चट्टोपाध्याय के अधीन डी.एस.टी. प्रकल्प		1,426.16	श्री एस.एन. राय के अधीन आणविक उर्जा प्रकल्प		1,44,135.00
श्री अरुण कुमार राय के अधीन डी.एस.टी. प्रकल्प		10,50,000.00	डा. आई.एन. बसुमल्लिक के अधीन एम.पी. प्रकल्प		21,162.00
श्री एस.पी. सिन्हाबाबू के अधीन डी.एस.टी. प्रकल्प		3,80,000.00	डा. टी. चक्रवर्ती के अधीन डाब्लू.बी.सी.एफ.आर प्रकल्प		19,595.00
श्री एस.एन. राय के अधीन आणविक उर्जा प्रकल्प		83,230.00	डा. आई.एन. बसुमल्लिक के अधीन एम.एच.आर.डी. प्रकल्प		4,53,238.36
श्री सुधेन्दु मडल के अधीन एम.एन.ई.एस. प्रकल्प		6,26,094.00	डा. एन.सी. सुकुल (एस.पी. सिन्हाबाबू) के अधीन सी.एस.बी. प्रकल्प		1,63,609.00
डा. एन.सी. सुकुल (एस.पी. सिन्हाबाबू) के अधीन सी.एस.बी. प्रकल्प		1,38,793.00	श्रीमती श्रावणी चक्रवर्ती के अधीन आई.जी.आई.डी.आई.आर प्रकल्प		4,49,852.00
श्रीमती श्रावणी चक्रवर्ती के अधीन आई.जी.आई.डी.आई.आर प्रकल्प		2,40,000.00	प्रो. एस.के. मुखर्जी के अधीन बायो-मिटा प्रकल्प		5,254.00
प्रो. एस.के. मुखर्जी के अधीन बायो-मिटा प्रकल्प		20,000.00	डा. डी.पी. मुखर्जी के अधीन आई.आर.सी/एन.सी.टी.ई. प्रकल्प		4,311.00
डा. डी.पी. मुखर्जी के अधीन आई.आर.सी/एन.सी.टी.ई. प्रकल्प		4,345.00	डा. वी.सी. जॉय के अधीन पर्यावरण वन मन्त्रालय से प्रकल्प		37,611.00
डा. वी.सी. जॉय के अधीन पर्यावरण वन मन्त्रालय से प्रकल्प		8,85,500.00	डा. आई.एन. बसुमल्लिक के अधीन अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का प्रकल्प		
डा. आई.एन. बसुमल्लिक के अधीन अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का प्रकल्प		1,10,000.00			
अग्रनयन		72,59,39,217.31	अग्रनयन		72,73,25,834.73

**विश्वभारती**  
**शांतिनिकेतन**  
**विस्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्तिर्षो एवं भुगतान लेखा (गैर राजस्व)**  
**प्राप्तिर्षो भुगतान**

प्राप्तिर्षो	अग्रणीत	72,59,39,217.31	अग्रणीत	72,73,25,834.73
प्रो. शैली मट्टाचार्य के अधीन आई.सी.ए.आर. प्रकल्प		1,17,920.00	डी.एस.टी. प्रकल्प एवं आनखिक उर्जा प्रकल्प (क्रमगत)	
प्रो. टी. चक्रवर्ती के अधीन आई.सी.ए.आर. प्रकल्प (बीड)		4,44,500.00	डा. पी.सी. जॉय के अधीन वन पर्यावरण मन्त्रालय से प्रकल्प	97,364.00
प्रो. शैली मट्टाचार्य के अधीन आई.सी.ए.आर. प्रकल्प (सीफा)		8,14,634.00	प्रो. जी.एन. चट्टोपाध्याय के अधीन फसफरास एण्ड पोटासियम मेगनेटिक फिश एण्ड रेड नेटाराइट स्वायत्त	40,000.00
डा. अरुण कुमार नाग के अधीन आई.सी.ए.आर. प्रकल्प		11,875.00	डा. आई.एन. वसुमन्तिक के अधीन अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का प्रकल्प	2,0860.00
श्री अमिय चटर्जी के अधीन आई.सी.पी.आर. प्रकल्प		47,000.00	डा. शिमेन्दु मंडल के अधीन अन्तरिक्ष विभाग, भारत सरकार का प्रकल्प	2,72,292.00
आई.सी.ए.आर. अध्येता वृत्ति - काकली तह		42,000.00	प्रो. शैली मट्टाचार्य के अधीन आई.सी.ए.आर. प्रकल्प	2,55,663.49
आई.सी.ए.आर. अध्येता वृत्ति - संगीता मिश्र		36,000.00	प्रो. अरुण कुमार राय के अधीन आई.सी.ए.आर. प्रकल्प	3,25,940.00
आई.सी.पी.आर. अध्येता वृत्ति - निजामुद्दीन सेख		9,000.00	प्रो. टी. चक्रवर्ती के अधीन आई.सी.ए.आर. प्रकल्प (बीड)	7,60913.00
आई.सी.एस.आर. प्रकल्प - दिवाकर कुण्डु		1,50,000.00	प्रो. शैली मट्टाचार्य के अधीन आई.सी.ए.आर. प्रकल्प (सीफा)	2,67,465.00
इन्दिरा गान्धी केन्द्र से क्राफ्ट प्रकल्प -		46,775.00	डा. पी. नाथ के अधीन आई.सी.ए.आर. प्रकल्प	2,58,290.00
डा. एस.एस. महापात्र			प्रो. समीर मट्टाचार्य के अधीन आई.सी.ए.आर. प्रकल्प	338.00
वृत्तिका एवं छात्रवृत्ति:			डा. अरुण कुमार नाग के अधीन आई.सी.ए.आर. प्रकल्प	11875.00
पश्चिम बंगाल सरकार छात्रवृत्ति			श्री अमिय चटर्जी के अधीन आई.सी.पी.आर. प्रकल्प	45800.00
अन्य सरकार से छात्रवृत्ति			आई.सी.ए.आर. अध्येता वृत्ति - काकली तह	35225.00
केन्द्रीय सरकार छात्रवृत्ति			आई.सी.ए.आर. अध्येता वृत्ति - संगीता मिश्र	26700.00
वि.वि.अ. आयोग शोध अध्येतावृत्ति			आई.सी.एस.एस.आर. प्रकल्प - श्री छन्दा बोस	950.00
			आई.सी.पी.आर. अध्येता वृत्ति - निजामुद्दीन सेख	7,951.00
अग्रणीत		72,89,63,895.31	वृत्तिका एवं छात्रवृत्ति:	
			पश्चिम बंगाल सरकार छात्रवृत्ति	1,66,461.00
			अन्य सरकार से छात्रवृत्ति	83,490.00
			केन्द्रीय सरकार छात्रवृत्ति	8,63,317.00
			वि.वि.अ. आयोग शोध अध्येतावृत्ति	5,04,226.00
			अग्रणीत	73,13,52,152.46

विश्वभारती  
शान्तिनिकेतन

वित्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्तिर्घो एवं भुगतान लेखा (गैर राजस्व)

प्राप्तिर्घो		भुगतान	
अग्रणीत	72,89,63,895.31	वि.वि.अ. आयोग शोध प्रकल्प	अग्रणीत
वि.वि.अ. आयोग शोध प्रकल्प		डा. रूप कु. कर के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	73,13,52,152.46
डा. रूप कु. कर के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	35,674.00	डा. दीक्षित सिन्हा के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	39,991.00
डा. प्रसन्नजीत मंडल के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	71,356.00	डा. पुष्पजीत मंडल के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	76,578.00
डा. विजय कुमार मुखर्जी के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प (सं.-2)	76,000.00	डा. अरुण कुमार राय के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	63,582.00
डा. विजय मंडल के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	1,94,280.00	डा. दीपक मट्टाचार्य के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	29,794.00
डा. एस्.पी. सिन्हाबाबू के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	1,53,780.00	डा. विजय मुखर्जी के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प (सं.-1)	16,583.00
डा. एन.सी. मंडल के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	2,78,048.00	डा. विजय मुखर्जी के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प (सं.-2)	13,690.00
डा. एन.सी. सुकुल के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	4,77,850.00	डा. स्वप्न मंडल के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	13,146.00
डा. वैष्णव चन्द्र सामल के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	1,42,800.00	डा. एस्.पी. सिन्हाबाबू के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	46,949.00
डा. काशीनाथ भट्टाचार्य के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	1,44,780.00	डा. एन.सी. सुकुल के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	41,456.00
डा. अलीमा दासी के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	1,33,500.00		84,257.00
वि.वि.अ. अनुदान आयोग प्रकल्प (क्रमगत):		वि.वि.अ. अनुदान आयोग प्रकल्प (क्रमगत):	
डा. शान्तिनिकेतन चक्रवर्ती के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	26,336.00	डा. एन.सी. सुकुल के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	3,23,326.00
डा. स्वदेश रंजन विश्वास के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	3,78,680.00	डा. वैष्णव चन्द्र सामल के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	4,436.00
डा. डी.पी. मुखर्जी के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	1,94,050.00	डा. काशीनाथ भट्टाचार्य के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	43,989.00
डा. पी. हालदार के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	14,682.00	डा. अलीमा दासी के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	89,567.00
		डा. एन.वी. हरीचन्द्रन के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	1,51,390.00
		अंशकालिक शोध सहायक डा. श्रावणी चक्रवर्ती	57,667.00
		अंशकालिक शोध सहायक डा. शास्वती कापट	79,300.00
		अंशकालिक शोध सहायक डा. भिनि ए.	20,798.00
		डा. असीम कु. दास के अधीन वि.वि.अ.आ. शोध प्रकल्प	1,633.00
अग्रणीत	73,12,85,711.31	अग्रणीत	73,25,50,284.46

**विश्वभारती**  
**शांतिनिकेतन**

**वित्तीय वर्ष 2001-02 का प्राप्तिर्घो एवं भुगतान लेखा (गीर राजस्व)**

<b>प्राप्तिर्घो</b>		<b>भुगतान</b>	
अग्रणीत	73,12,85,711.31	अग्रणीत	73,25,50,284.46
<b>डी.डी.टी. प्रकल्प :</b>		<b>डी.डी.टी. प्रकल्प :</b>	
प्रो. समीर मट्टाचार्य के अधीन डी.डी.टी. प्रकल्प	3,26,000.00	प्रो. समीर मट्टाचार्य के अधीन डी.डी.टी. प्रकल्प (सं.-3)	3,49,851.00
डा. एस.के. सेन के अधीन डी.डी.टी. प्रकल्प	1,94,000.00	डा. एस.के. सेन के अधीन डी.डी.टी. प्रकल्प	2,85,334.00
डा. निर्मल्य बनर्जी के अधीन डी.डी.टी. प्रकल्प	2,07,476.00	प्रो. रीती मट्टाचार्य के अधीन डी.डी.टी. प्रकल्प	1,94,572.00
		डा. निर्मल्य बनर्जी के अधीन डी.डी.टी. प्रकल्प	1,39,786.00
<b>पश्चिम बंगाल सरकार डी.एस.टी. प्रकल्प :</b>		<b>पश्चिम बंगाल सरकार डी.एस.टी. प्रकल्प :</b>	
डा. कारीनाथ मट्टाचार्य के अधीन प.ब. सरकार डी.एस.टी. प्रकल्प	1,43,000.00	डा. कारीनाथ मट्टाचार्य के अधीन प.ब. सरकार डी.एस.टी. प्रकल्प	55,026.00
डा. आई.एन. बसुमल्लिक के अधीन प.ब. सरकार डी.एस.टी. प्रकल्प	1,21,200.00	डा. आई.एन. बसुमल्लिक के अधीन प.ब. सरकार डी.एस.टी. प्रकल्प	20,335.00
<b>संवैदक का लेखा :</b>	<b>4,18,87,443.70</b>	<b>संवैदक का लेखा :</b>	<b>4,20,20,858.70</b>
<b>अग्रिम एवं अग्रदाय :</b>		<b>अग्रिम एवं अग्रदाय :</b>	
अग्रिम (जी)	1,39,47,794.30	अग्रिम (जी)	1,97,83,955.88
अग्रिम (आर)	7,75,063.96	अग्रिम (आर)	6,68,900.00
उत्सव अग्रिम	41,55,789.25	उत्सव अग्रिम	48,98,969.25
अग्रदाय	1,000.00	अग्रदाय	3,395.00
<b>मंडारों का अनुरक्षण :</b>		<b>मंडारों का अनुरक्षण :</b>	
विद्युत एवं जल आपूर्ति	1,72,856.83	विद्युत एवं जल आपूर्ति	1,57,004.00
<b>अग्रनयन</b>	<b>79,32,17,335.35</b>	<b>अग्रनयन</b>	<b>80,11,28,271.29</b>

**विश्वभारती**  
**शान्तिनिकेतन**

14 वीं वार्षिक 2001-02 का प्रारम्भिक एवं भुगतान लेखा (गैर राजस्व)

प्रारम्भिक		भुगतान	
अग्रणीत	79,32,17,335.35	अग्रणीत	80,11,28,271.29
आभिमन्त्रण भंडार :		आभिमन्त्रण भंडार :	
सीमेन्ट	33,20,886.77	सीमेन्ट	36,44,684.30
स्टील	17,78,068.79	स्टील	5,68,965.01
		आकाशवाणी दूरदर्शन से शुल्क	5,375.00
एस.ई.एम. दान	50,000.00	एस.ई.एम. दान	50,000.00
सेवा डाक टिकट	2,34,750.00	सेवा डाक टिकट	90,500.00
गृह निर्माण अग्रिम	47,08,417.00	गृह निर्माण अग्रिम	1,21,29,229.00
एच.डी.एफ.सी	5,56,592.00	एच.डी.एफ.सी	6,06,363.00
गृह निर्माण अग्रिम	50,00,000.00		
	80,88,66,049.91		81,82,23,387.60
अथ शेष	9,53,29,767.44	इति शेष	8,59,72,429.75
	90,41,95,817.35		90,41,95,817.35

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती



**विश्वभारती**  
**शान्तिनिकेतन**  
निष्पन्न भवन

**वर्ष 2001-2002 की प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा**

प्राप्तियाँ	रु. पै.	रु. पै.	भुगतान	रु. पै.	रु. पै.
निवेश पर व्याज		1,10,575.00	संगोष्ठी में पारिश्रमिक		29,955.00
प्रारंभिक शेष		28,42,862.68	पेशकार		190.00
			इति शेष		29,23,292.68
		<u>29,53,437.68</u>			<u>29,53,437.68</u>

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

**31.3.2002 का तुलन पत्र**

देयताएं	रु. पै.	रु. पै.	परिसम्पत्ति	रु. पै.	रु. पै.
1) खण्ड परिसम्पत्ति :		24,74,321.00	1) विगत लेखानुसार	22,40,837.58	
			उपस्कर एवं साज-सामान	2,33,483.42	
2) सामान्य निधियाँ :			2) निवेश		24,74,321.00
विदत्त लेखानुसार		15,57,980.72	विगत लेखानुसार		10,95,750.00
(+) वर्षाधीन प्राप्त व्याज		1,10,575.00			
		<u>16,68,555.72</u>			
3) अनुदान प्राप्त :			3) बैंक शेष		29,23,292.68
विदत्त लेखानुसार		22,81,162.00			
(-) वर्ष 2001-02 अवधि में व्यय		30,145.00			
		<u>22,51,017.00</u>			
4) जमा भंडार स्टॉक :					
विश्वभारती के देय					
स्टील लेखा :					
विगत लेखानुसार		99,469.96			
		<u>64,93,363.68</u>			<u>64,93,363.68</u>

लेखा अधिकारी  
विश्वभारती

## विश्वभारती

पल्ली संगठन विभाग, श्रीनिकेतन

## तुलन पत्र 31.03.2002 को

पूंजी निधि एवं देयताएं	अनुसूची	(राशि - रु.)	
		चालू वर्ष	विगत वर्ष
खण्ड पूंजी निधि	1	13,563,046.85	12,767.18
सरकारी सहायता प्राप्त/प्रवर्तीत शैक्षणिक (एडुकेयर) प्रकल्प निधि	2	331,497.47	290,279.47
अन्य प्रवर्तीत प्रकल्प (आस्त्रो) निधि	3	540,704.85	266,825.80
जमा एवं अग्रिम	4	9,863,098.30	8,954,635.63
चालू देयताएं एवं प्रावधान	5	45,387.79	59,706.79
कुल		24,343,735.26	22,339,243.87
परिसम्पत्तियाँ			
स्थिर परिसम्पत्तियाँ	6	13,563,046.85	12,767.18
चालू परिसम्पत्तियाँ, कर्ज, अग्रिम इत्यादि	7	10,780,683.41	9,571,447.69
कुल		24,343,735.26	22,339,243.87

## विश्वभारती

पल्ली संगठन विभाग, श्रीनिकेतन

## वर्ष 2001-2002 का आय एवं व्यय लेखा

अ. आय	अनुसूची	(राशि - रु.)	
		चालू वर्ष	विगत वर्ष
अनुदान एवं परिदान	8	33,550,400.00	35,095,500.00
शुल्क / चंदा	9	247,498.22	260,022.00
अन्य आय	10	203,405.40	158,295.20
कुल = अ		34,011,303.62	35,513,817.20
आ. व्यय			
स्थापना व्यय	11	28,909.10	28,292,421.80
अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि	12	3,367,587.34	4,719,468.39
कुल = आ		32,277,242.44	33,010,890.19
व्यय से अधिक हुई आय का शेष		17,24,061.18	25,02,927.01
जमा में स्थानान्तरित केन्द्रीय कार्यालय		939,215.51	1,864,477.51
खंड पूंजी निधि में स्थानान्तरित		784,845.67	638,449.50

सहायक लेखा अधिकारी  
विश्वभारती, श्रीनिकेतनवित्त अधिकारी  
विश्वभारतीकर्मसचिव  
विश्वभारती

## विश्वभारती

पत्नी संगठन विभाग, श्रीनिकेतन

## समोक्त अनुसूची 2001-2002

चालू वर्ष 2001-02	
<b>अनुसूची - 2 (एडुकेशन) फलप निधि</b>	
अथ शेष	2,90,279.47
इस वर्ष की प्राप्ति (अन्त प्रवाह)	2,59,000.00
कुल	15,49,279.47
इस वर्ष का व्यय (वहिरगमन)	12,17,782.00
31.03.02 को इति शेष	3,31,497.47
<b>अनुसूची - 3 (अन्य) निधि</b>	
अथ शेष	2,66,825.80
इस वर्ष की प्राप्ति (अन्त प्रवाह)	11,04,858.00
कुल	13,71,683.80
इस वर्ष का व्यय (वहिरगमन)	8,30,978.95
31.03.02 को इति शेष	5,40,704.85
<b>अनुसूची - 4 जमा एवं अग्रिम</b>	
अथ शेष	89,54,635.63
इस वर्ष की प्राप्ति (अन्त प्रवाह)	1,38,80,168.12
कुल	2,28,34,803.75
इस वर्ष का व्यय (वहिरगमन)	1,29,71,705.45
31.03.02 को इति शेष	98,63,098.30
<b>अनुसूची - 5 चालू देयताएं</b>	
अथ शेष	36,156.79
इस वर्ष की प्राप्ति (अन्त प्रवाह)	28,457.00
कुल	64,613.79
इस वर्ष का व्यय (वहिरगमन)	19,226.00
31.03.02 को इति शेष	45,387.79
<b>अनुसूची - 6 स्थिर परिसम्पत्तियाँ</b>	
अथ शेष	1,27,67,796.18
इस वर्ष की प्राप्ति (अन्त प्रवाह)	7,95,250.67
कुल	1,35,63,046.85
इस वर्ष का व्यय (वहिरगमन)	NIL
31.03.02 को इति शेष	1,35,63,046.85
<b>अनुसूची - 7 चालू परिसम्पत्तियाँ</b>	
अथ शेष	83,95,000.62
इस वर्ष की प्राप्ति (अन्त प्रवाह)	72,66,082.89
कुल	1,61,61,083.51
इस वर्ष का व्यय (वहिरगमन)	53,80,395.10
31.03.02 को इति शेष	1,07,80,688.41

सहायक लेखा अधिकारी  
विश्वभारती, श्रीनिकेतन

**विश्वभारती**  
**पत्नी संगठन विभाग, श्रीनिकेतन**

**समोक्त अनुसूची 2001-2002**

<b>चालू वर्ष 2001-02</b>	
<b>अनुसूची - 9 शुल्क एवं चन्दा</b>	
अथ शेष	NIL
इस वर्ष की प्राप्ति (अन्त प्रवाह)	2,47,498.22
कुल	2,47,498.22
इस वर्ष का व्यय (वहिंगमन)	NIL
31.03.02 को इति शेष	2,47,498.22
<b>अनुसूची - 10 अन्य आय</b>	
अथ शेष	NIL
इस वर्ष की प्राप्ति (अन्त प्रवाह)	2,03,405.40
कुल	2,03,405.40
इस वर्ष का व्यय (वहिंगमन)	NIL
31.03.02 को इति शेष	2,03,405.40
<b>अनुसूची - 11 स्थापना व्यय</b>	
अ) वेतन एवं पारिश्रमिक	1,71,99,718.10
आ) भत्ता एवं अधिभार	1,04,24,430.00
इ) भविष्य निधि में सहयोग	1,34,503.00
ई) अन्य निधि में सहयोग	0.00
उ) स्टॉक कल्याण व्यय	90,269.00
ऊ) कर्मचारियों की अवकाश प्राप्ति तथा वधिक लाभ	6,03,255.00
ए) चिकित्सा व्यय	4,57,480.00
कुल	2,89,09,655.10
<b>अनुसूची - 12 अन्य प्रशासनिक व्यय</b>	
अ) विद्युत एवं शक्ति	3,12,891.60
आ) बीमा	21,088.00
इ) भरमन एवं अनुरक्षण	13,55,402.80
ई) चालू वाहन एवं अनुरक्षण	1,87,395.00
उ) डाक, दूरभाष, एवं संप्रेषण व्यय	1,49,001.85
ऊ) छपाई एवं स्टेशनरी	1,39,329.68
ए) यात्रा परिवहन व्यय	2,662.00
ऐ) अन्य (उल्लेखनीय)	
i) कार्यालय प्रशासन	9,73,653.03
ii) शिक्षा प्रशिक्षण एवं शोध	71,750.35
iii) छात्र-कल्याण	1,08,866.50
iv) बैठक-व्यय	1,626.00
v) उपस्कर एवं उपकरण	43,920.53
कुल	33,67,587.34

सहायक लेखा अधिकारी  
विश्वभारती, श्रीनिकेतन

**विश्वभारती**  
**पल्ली शिक्षा भवन, श्रीनिकेतन**  
 तुलन पत्र 31.03.2002 तक 1<sup>st</sup> correction done

पूँजी निधि एवं दायित्वाएं	अनुसूची	राशि (रु)	
		चालू वर्ष	विगत वर्ष
खंड पूँजी निधि	1	17,941,486.25	16,288,346.71
योजना के अधीन उन्नयन निधि	2	9,04,166.10	24,69,678.51
सरकारी सहायताप्राप्त/प्रायोजक शिक्षण प्रकल्प निधि(एकुकेयार)	3	844,796.27	1,262,451.17
अन्य प्रायोजक प्रकल्प निधि (असप्रो)	4	1,019,330.31	267,190.31
प्रायोजक कार्यनिधि (स्पाक्ट)	5	9,85,318.23	0.00
अध्येतावृत्ति निधि (फेलो)	6	58,014.99	55,214.99
जमा एवं अग्रिम	7	8,27,189.50	8,19,990.09
चालू दायित्वयों एवं व्यवस्थायों	8		
कुल		<u>2,30,53,188.41</u>	<u>2,16,24,532.43</u>
परीसंपत्तियां			
नियत परीसंपत्तियां	9	17,941,486.25	16,288,346.71
चालू परीसंपत्तियां, कर्ज, अग्रिम आदि	10	51,11,702.16	5,336,185.72
कुल		<u>2,30,53,188.41</u>	<u>2,16,24,532.43</u>

**विश्वभारती**  
**पल्ली शिक्षा भवन, श्रीनिकेतन**  
 आय एवं व्यय लेखा 2001-2002 वर्ष तक

अ. आय	अनुसूची	राशि (रु)	
		चालू वर्ष	विगत वर्ष
आय विक्री /सेवा से	11	1,27,993.60	81,082.13
अनुदान एवं सहायता	12	23,335,400.00	25,107,500.00
घंटा या शुल्क	13	127,484.00	136,641.00
एन्य आय	14	54,599.64	119,766.50
कुल =अ		<u>2,36,45,477.24</u>	<u>2,54,44,989.63</u>
आ. व्यय			
स्थापना व्यय	15	20,737,276.50	22,167,835.00
अन्य प्रसाशनिक व्यय इत्यादि.	16	19,12,467.10	2,562,451.58
कुल आ		<u>22,649,743.60</u>	<u>24,730,286.58</u>
शेष (आ-आ)		9,95,733.64	7,14,703.05
केन्द्रीय कार्यालय में जमा करने के लिए स्थानांतरण		717,712.64	284,124.05
खंड पूँजी निधि में स्थानांतरण		278,021.00	430,579.00

सहायक लेखा अधिकारी  
 विश्वभारती, श्रीनिकेतन

वित्त अधिकारी  
 विश्वभारती

कर्मसचिव  
 विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**पल्ली शिक्षा भवन, श्रीनिकेतन**  
**समेकित अनुसूची 2001-2002**

<b>अनुसूची-2 विकास निधि</b>	<b>चालू वर्ष 2001-2002</b>
आदि शेष	24,58,487.60
प्राप्ति चालू वर्ष (अन्तःप्रवाह)	
कुल	24,58,487.60
व्यय चालू वर्ष (वहिरगमन)	15,54,331.50
अंतःशेष 31.03.02 से	9,04,166.10
<b>अनुसूची-3 शिक्षण प्रकल्प निधि</b>	
आदि शेष	12,73,642.08
प्राप्ति चालू वर्ष (अन्तःप्रवाह)	3,57,857.00
कुल	16,31,499.08
व्यय चालू वर्ष (वहिरगमन)	7,86,702.81
अंतःशेष 31.03.02 से	8,44,796.27
<b>अनुसूची-4 अन्य प्रायोजक प्रकल्प निधि (असप्रो)</b>	
आदि शेष	2,28,668.41
प्राप्ति चालू वर्ष (अन्तःप्रवाह)	13,46,738.00
कुल	15,75,406.41
व्यय चालू वर्ष (वहिरगमन)	5,56,076.10
अंतःशेष 31.03.02 से	10,19,330.31
<b>अनुसूची-5 प्रायोजक निधि (स्पाक्ट)</b>	
प्राप्ति चालू वर्ष (अन्तःप्रवाह)	31,60,138.73
कुल	31,60,138.73
व्यय चालू वर्ष (वहिरगमन)	22,91,452.05
अंतःशेष 31.03.02 से	9,85,318.23
<b>अनुसूची-6 अध्येतावृत्ति निधि (फ्लो)</b>	
आदि शेष	55,214.99
प्राप्ति चालू वर्ष (अन्तःप्रवाह)	55,700.00
कुल	110,914.99
व्यय चालू वर्ष (वहिरगमन)	52,900.00
अंतःशेष 31.03.02 से	58,014.99
<b>अनुसूची-7 जमा एवं अग्रिम</b>	
आदि शेष	8,19,990.99
प्राप्ति चालू वर्ष (अन्तःप्रवाह)	5,99,702.27
कुल	14,19,692.36
व्यय चालू वर्ष (वहिरगमन)	5,92,502.86
अंतःशेष 31.03.02 से	8,27,189.50
<b>अनुसूची-8 चालू दायित्वयों</b>	
आदि शेष	4,49,270.65
प्राप्ति चालू वर्ष (अन्तःप्रवाह)	23,616.11
कुल	4,72,886.76
व्यय चालू वर्ष (वहिरगमन)	
अंतःशेष 31.03.02 से	4,72,886.76

सहायक लेखा अधिकारी  
विश्वभारती, श्रीनिकेतन

**विश्वभारती**  
**पल्ली शिक्षा भवन, श्रीनिकेतन**  
**समेकित अनुसूची 2001-2002**

<b>अनुसूची-9 विकास निधि</b>	<b>चालू वर्ष 2001-2002</b>
आदि शेष	1,62,88,346.71
प्राप्ति चालू वर्ष (अन्तःप्रवाह)	16,68,003.50
कुल	1,79,56,350.21
व्यय चालू वर्ष (वहिरगमन)	14,863.96
अंतःशेष 31.03.02 से	1,79,41,486.25
<b>अनुसूची-10 शिक्षण प्रकल्प निधि</b>	
आदि शेष	2,00,949.33
प्राप्ति चालू वर्ष (अन्तःप्रवाह)	39,25,434.60
अंतःशेष (के.मी.के)	9,85,318.23
कुल	9,85,318.23
व्यय चालू वर्ष (वहिरगमन)	51,11,702.16
अंतःशेष 31.03.02 से	NIL
	51,11,702.16
<b>अनुसूची-11 अन्य प्रायोजक प्रकल्प निधि (असप्रो)</b>	
आदि शेष	NIL
प्राप्ति चालू वर्ष (अन्तःप्रवाह)	1,27,993.60
कुल	1,27,993.60
व्यय चालू वर्ष (वहिरगमन)	NIL
अंतःशेष 31.03.02 से	1,27,993.60
<b>अनुसूची-12 प्रायोजक निधि (स्पाक्ट)</b>	
आदि शेष	NIL
प्राप्ति चालू वर्ष (अन्तःप्रवाह)	2,33,35,400.00
कुल	2,33,35,400.00
व्यय चालू वर्ष (वहिरगमन)	NIL
अंतःशेष 31.03.02 से	2,33,35,400.00
<b>अनुसूची-13 अध्येतावृत्ति निधि (प्रवाह)</b>	
आदि शेष	NIL
प्राप्ति चालू वर्ष (अन्तःप्रवाह)	1,27,484.00
कुल	1,27,484.00
व्यय चालू वर्ष (वहिरगमन)	NIL
अंतःशेष 31.03.02 से	1,27,484.00
<b>अनुसूची-14 जमा एवं अग्रिम</b>	
आदि शेष	NIL
प्राप्ति चालू वर्ष (अन्तःप्रवाह)	54,599.64
कुल	54,599.64
व्यय चालू वर्ष (वहिरगमन)	NIL
अंतःशेष 31.03.02 से	54,599.64

सहायक लेखा अधिकारी  
विश्वभारती, श्रीनिकेतन

**विश्वभारती**  
**पब्लिक शिक्षा भवन, श्रीनिकेतन**  
**समेकित अनुसूची 2001-2002**

**अनुसूची-15 विकास निधि**

चालू वर्ष 2001-2002

अ) वेतन	1,24,15,344.00
आ) भत्ता एवं बोनस	80,70,156.50
इ) अंशदान गविष्य निधि में	96,750.00
ई) अंशदान अन्य निधि में	0.00
उ) कर्मचारी कल्याण व्यय	15,428.00
ऊ) सेवानिवृत्ति-लाभ में खर्च	1,55,026.00
ऋ) चिकित्सा व्यय	1,64,185.00
कुल	

**अनुसूची-16 अन्य प्रशासनिक व्यय**

अ) विद्युत एवं उर्जा	4,67,952.00
आ) बीमा	0.00
इ) मराममत एवं अनुरक्षण	34,319.00
ई) मोटर मराममत एवं चालू	1,27,778.00
उ) डाक, तार एवं योगायोग शुल्क	79,100.18
ऊ) छपाई एवं लेखन सामग्री	46,817.60
ऋ) भ्रमण एवं वाहन खर्च	13,169.00
ए) अन्य (विनिर्दिष्ट)	
१) कार्यालय प्रशासन	3,17,554.20
२) छात्रों कल्याण	3,13,017.00
३) कला एवं संस्कृतिक शोध एवं उन्नयन	3,33,147.12
कुल	17,32,854.10

सहायक लेखा अधिकारी  
विश्वभारती, श्रीनिकेतन



**विश्वभारती**  
**शिल्पसदन, श्रीनिकेतन**

31.3.2002 तक का तुलन पत्र

दायिताएँ	रु. पै.	रु. पै.	परिसम्पत्तियाँ	रु. पै.	रु. पै.
1. यथा विपरीत खंड मूल्य		1,01,500.04	1. धाती परिसम्पत्तियाँ		
2. निधियाँ			भूमि तथा भवन	34,151.85	
अ) पेंजी निधि	1,63,591.87		2. शेड		
आ) मूल्य ह्रास निधि			विगत लेखानुसार	21,383.39	
विगत लेखानुसार	76,522.64		3. जल कार्य		
		2,40,114.51	विगत लेखानुसार	677.30	
3. अग्रिम/जमा विगत	79,86,573.20		4. संयन्त्र तथा मशीनरी		
लेखानुसार			विगत लेखानुसार	7,797.33	
योग : इस वर्ष	14,36,700.77		5. फर्नीचर तथा		
		94,23,373.97	उपकरण		
4. अन्य दायिताएँ		26,281.01	विगत लेखानुसार	36,786.24	
			6. मोटर गाड़ियाँ		
			विगत लेखानुसार	703.93	
					1,01,500.04
			7. अग्रिम/जमा		
			अ) जमा सामान्य	10,115.06	
			आ) अग्रदाय	400.00	
					10,515.06
			8. पिछले का वकाया		20,28,343.26
			9. भंडार स्टॉक		
			बुनाई	3,78,400.46	
			बढ़ईगिरी	5,84,708.59	
			जिल्दसाजी	14,356.47	
			चर्म	19,910.40	
			बाटिक	3,096.88	
			ह.नि. कागज	15,102.15	
			मृत्तिका	13,584.66	
			सामान्य कार्यालय	18.13	
					10,29,267.58
			10. लाभ तथा हानि		
			विगत लेखानुसार	47,22,615.87	
			बुनाई	6,28,574.21	
			बढ़ईगिरी	6,52,991.42	
			जिल्दसाजी	3,93,217.08	
			चर्म	42,633.29	
			बाटिक	23,499.14	
			ह.नि. कागज	57,141.58	
			मृत्तिका	18,820.00	
			लामांश	82,151.00	
					66,21,643.59
					97,91,269.53
		97,91,269.53			

**विश्वभारती**  
**शिल्पसदन, श्रीनिकेतन**

31.3.2002 तक तुलन पत्र

दायिताएँ	रु. पै.	रु. पै.	परिसम्पत्तियाँ	रु. पै.
1. यथा विपरीत खंड मूल्य (अनुसूची)		1,01,500.04	1. थाती परिसम्पत्तियाँ ए - 1	1,01,500.04
2 निधि (अनुसूची एल - 1)		2,40,114.51	2. अग्रिम/जमा/अग्रदाय ए - 2	10,515.06
3 अग्रिम/जमा		94,23,373.97	3. पिछले का वकाया	20,28,343.26
4. अन्य दायिताएँ अनियमित देनादार (अनुसूची एल - 2)		26,281.01	4. लाभ तथा हानि	66,21,643.59
		97,91,269.53	5. भंडार स्टॉक	10,29,267.58
				97,91,269.53

सहायक लेखा अधिकारी  
विश्वभारती, श्रीनिकेतन

वित्त अधिकारी  
विश्वभारती

—रजिस्ट्रार—  
विश्वभारती

**विश्वभारती**  
**प्रकाशन विभाग**  
**31 मार्च 2002 तक का तुलन पत्र**

गत वर्ष का आंकड़ा	देयताएँ	अनु	रु	गत वर्ष का आंकड़ा	परिसंपत्तियाँ	अनु	रु
5,61,51,712.39	<b>पूँजी लेखा</b>		5,50,22,988.65	2,72,13,821.25	<b>स्थिर</b>		2,72,15,174.25
23,19,634.58	पूँजी लेखा	1	23,19,634.58	2,72,13,821.25	परिसंपत्तियाँ	4	2,12,83,226.25
63,77,306.04	निधियाँ	2	64,21,139.88		स्थिर		
4,74,54,771.77	आरक्षित निधि	3	4,62,82,214.19		परिसंपत्तियाँ	5	1,59,31,948.00
2,29,89,964.59	<b>चालू देयताएँ</b>		2,47,73,738.76	5,19,27,855.73	निवेश		
24,09,525.23	जमा देयताएँ	6	20,31,914.01		<b>चालू</b>		5,25,81,553.16
6,10,870.63	जमा रवीन्द्र मवन निधि	7	6,10,870.63		परिसंपत्तियाँ		
67,65,403.70	देयताएँ	8	69,41,618.78		बैंक खाता	13	48,55,054.92
44,84,902.84	प्रावधान	9	55,21,778.58		हाथ में नकदी	14	1,55,36,652.01
4,13,961.95	रचनावली (लोकप्रिय): देयताएँ	10	4,80,381.95		चालू	15	77,58,847.24
82,22,877.27	अधिशेष रॉयल्टी	11	91,02,432.84		परिसंपत्तियाँ (परिसंपत्तियाँ) रचनावली (लोकप्रिय)	16	3,42,288.30
					परिसंपत्तियाँ	17	96,01,008.00
					टिकिट स्टॉफ सेवा	18	9,505.72
82,422.97	विश्वभारती पत्रिका देयताएँ	12	84,742.17		हात में स्टक	19	1,43,19,257.44
					वर्धमानरती पत्रिका	20	1,58,939.53
					परिसंपत्तियाँ		
7,01,41,676.98	<b>कुल</b>		7,97,96,737.41	7,91,41,676.98	<b>कुल</b>		

~~7,97,96,737.41~~  
~~अध्यक्ष (निदेशक)~~  
~~प्रधान विभाग~~

**विश्वभारती**  
**प्रकाशन विभाग**  
 31 मार्च 2002 का तुलन पत्र अनुसूची

विवरण	नामे रु	जमा रु	नामे रु	जमा रु
<b>अनुसूची - 1</b>				
पूँजी लेखे				<u>23,19,634.58</u>
पूँजी लेखा				23,19,634.58
<b>अनुसूची - 2</b>				
निधियों				<u>64,21,139.88</u>
भवन निधि				26,14,632.81
मूलह्रास निधि				38,06,507.07
<b>अनुसूची - 3</b>				
आरक्षण				<u>4,62,82,214.19</u>
भवन एवं प्रेस आरक्षण				5,82,187.57
विकास आरक्षण				25,13,313.96
सामान्य आरक्षण				75,86,001.01
लाभ तथा हानि उपयोग लेखा				3,11,91,507.05
रवीन्द्र शोध योजना के लिए आरक्षण				7,12,500.00
स्वामित्व एकीकरण आरक्षण				25,20,773.17
स्टॉक एवं स्टोर आरक्षण				11,75,931.43
<b>अनुसूची - 4</b>				
अचल परिसंपत्तियाँ			<u>2,12,83,226.25</u>	
द्वारा			1,71,196.96	
कोलकाता में भवन			11,14,632.81	
शान्तिनिकेतन में भवन			17,350.00	
विभिन्न आरक्षण का लाभ			1,56,07,830.90	
मूलहारा निधि निवेश			19,19,139.11	
फर्नीचर तथा उपकरण			3,98,665.02	
कोलकाता में भूमि			15,00,000.00	
पुस्तकालय ग्रंथ			20,616.81	
विविध उपकरण			52,563.20	
मटोर गाड़ी			52,563.20	
पेन्शन एवं उपदान निधि निवेश			1,47,000.00	

**विश्वभारती**  
**प्रकाशन विभाग**  
31 मार्च 2002 का तुलन पत्र अनुसूची

विवरण	नामे रु	जमा रु	नामे रु	जमा रु
<b>अनुसूची - 5</b>				
<b>निवेश</b>			<b>59,31,948.00</b>	
जी. वी. विकास निधि			88,77.50	
जी. वी. साधारण आरक्षण निधि			55,610.50	
निवेश (यू. बी.आई. टीवी पार्क):1			50,00,000.00	
निवेश (यू. बी.आई. टीवी पार्क):2			7,77,560.00	
बी. एस.एस (100 की दर से 100 शेयर्स)			10,000.00	
<b>अनुसूची - 6</b>				
<b>जमा: देयताएं</b>			<b>20,31,914.01</b>	
<b>अग्रिम</b>			<b>2,89,764.98</b>	
सीडी सह केसेट्स			1,12,817.10	
रवीन्द्र भवन (छवि एवं पेंट)			21,819.00	
रवीन्द्र भवन विकास			185.00	
यात्रा. अग्रिम ब्याज वापसी			15,693.70	
यात्रा. अग्रिम वापसी			1,24,033.80	
पी.एफ (एल) ऋण वापसी			9,450.00	
चेतन बचत बीमा (एल)			344.73	
विक्रय कर ( टी.डी.एस)			7,051.00	
सीड निधि (एच.बी.एल)			3,34,175.00	
स्टाफ हितकारी निधि			36,097.22	
स्टाफ कल्याण निधि			36,097.22	
जी.पी. निधि में अंशदान			35.00	
<b>अनुसूची - 7</b>				
<b>जमा रवीन्द्र भवन निधि में</b>			<b>6,10,870.63</b>	
<b>अनुसूची - 8</b>				
<b>देयाताएं</b>			<b>69,41,618.78</b>	
<b>अनुसूची - 9</b>				
<b>प्रवधान</b>			<b>55,21,778.38</b>	
पी.एंड जी के लिए प्रवधान			55,21,778.38	
<b>अनुसूची - 10</b>				
रवीन्द्र रघुनाथली (लोकप्रिय) देयाताएं			4,80,381.95	
आर.आर.पी अग्रिम प्राप्त			66,420.00	
एस. बी.आई पार्क स्ट्रीट लेखा व.पी.आर (आर.आर.पी)			4,13,961.95	
<b>अनुसूची - 11</b>				
<b>अतिरिक्त स्वामित्व</b>			<b>91,02,432.84</b>	
<b>अनुसूची - 12</b>				
<b>विश्वभारती पत्रिका : देयाताएं</b>			<b>84,742.17</b>	
अग्रिम आमदनी (वि.भ.प.)			8,666.00	
अंशदान (वि.भ.प.)			50,000.00	
विक्रि(वि.भ.प.)			26,076.17	

**विश्वभारती**  
**प्रकाशन विभाग**  
31 मार्च 2002 का तुलन पत्र अनुसूची

विवरण	नामे रु	जमा रु	नामे रु	जमा रु
<b>अनुसूची - 13</b>				
बैंक लेखे			<u>48,55,054.92</u>	
एस. बी.आई. शान्तिनिकेतन			2,25,722.44	
एस. बी.आई. शेक्सपीयर सरणी			22,36,459.00	
यू. बी.आई कलेज स्ट्रीट			6,08,878.14	
यू. बी.आई तीवोली पार्क			17,83,995.34	
<b>अनुसूची - 14</b>				
हाथ में नकद			<u>1,55,36,652.01</u>	
नकद			21,561.74	
एस. बी.आई. पार्क स्ट्रीट शाखा			1,55,15,090.27	
<b>अनुसूची - 15</b>				
घातू परिसम्पत्ति			77,58,847.24	
अग्रिम (अ)			8,70010.52	
वित्त अधिकारी को अग्रिम (कम्प्यूटर)	15,250.00			
अग्रिम	4,41,561.40			
वित्त अधिकारी को अग्रिम	3,56,497.91			
दृष्टि वो सृष्टि	118.80			
अग्रदाय	<u>56,582.41</u>			
कपीराइट			32,370.50	
कपीराइट	<u>32,370.50</u>			
प्राप्य ब्याज			7,50,000.00	
अर्जित ब्याज	7,50,000.00			
विक्री प्राप्य			1,85,991.02	
उधार बिक्री प्राप्य	1,77,367.19			
वि.म. विक्री प्राप्य	8,623.83			
अल्पकालीन जमा उचंत			40,00,000.00	
उचंत	19,20,475.20			
<b>अनुसूची - 16</b>				
जमा परिसम्पत्ति			<u>3,42,288.30</u>	
अग्रिम स्टाफ हितकारी निधि से			13,642.00	
सीडी सह केस्टेस विक्री प्राप्य			750.00	
जमा सी.ई.एस.सी			4,685.24	
जमा एच.एस.परिषद			3,02,000.00	
सामूहिक बीमा योजना			10.00	
गारंटी जमा : यू.बी.आई (जे.एस.के)			1,500.00	
आय कर (टी.डी.एस)			802.08	
वृत्ति कर (ए)			20.00	
वेतन आय कर			504.00	
विक्री प्राप्य			14,363.73	
जमानत जमा			4,011.00	

**विश्वभारती**  
**प्रकाशन विभाग**  
31 मार्च 2002 का तुलन पत्र अनुसूची

विवरण	नामे रु	जमा रु	नामे रु	जमा रु
<b>अनुसूची - 17</b>				
रचनावली (लोकप्रिय) परिसम्पत्ति			96,01,008.00	
आर.आर.पी. विक्री प्राप्य			450.00	
एस. बी.आई. पार्क स्ट्रीट लेखा अशदान (आर.आर.पी)			20,660.00	
अल्पावधि जमा (आर.आर.पी)			95,79,898.00	
<b>अनुसूची - 18</b>				
स्टॉप स्टॉक सेवा			9,505.72	
<b>अनुसूची - 19</b>				
<b>हाथ में स्टक</b>			<u>1,43,19,257.44</u>	
व्यापार में स्टॉक (पुस्तके)			1,13,68,117.55	
व्यापार में स्टॉक (आर.आर.पी-1)			4,91,370.00	
व्यापार में स्टॉक (आर.आर.पी-2)			22,16,522.00	
व्यापार में स्टॉक (भवन सामग्रियां)			645.99	
व्यापार में स्टॉक (कागज)			2,42,601.90	
<b>अनुसूची - 20</b>				
विश्वभारती पत्रिका :परिसम्पत्तियां			<u>1,58,939.53</u>	
अग्रिम प्राप्त योग्य (वि.भा.प.)			4,566.00	
जिल्दसागी (वि.भा.प.)			9,303.00	
ब्लॉक (वि.भा.प.)			8,265.19	
विक्रय पर कमीशन (वि.भा.प.)			550.00	
आकस्मिकता (वि.भा.प.)			1,333.10	
मानदेय (वि.भा.प.)			33,475.00	
एम.भी.एम चार्जज (वि.भा.प.)			323.75	
कागज (वि.भा.प.)			22,384.14	
डाक टिकट (वि.भा.प.)			2,511.00	
छापई (वि.भा.प.)			67,895.00	
प्रकाशन एवं विज्ञापन (वि.भा.प.)			1,567.00	
यात्रा एवं यातायत (वि.भा.प.)			4,766.05	

**विश्वभारती**  
**प्रकाशन विभाग**  
लाभहानि लेखा 2001-2002 वर्ष का (राशि रु. में)

विवरण	अनु.		विवरण	अनु.	
प्रारंभिक स्टॉक		1,47,60,069.25	अंतिम स्टॉक		
व्यापार में स्टॉक		1,17,97,336.57	व्यापार में		1,13,68,117.55
(बहियों)			स्टॉक (बहियों)		
व्यापार में स्टॉक		5,91,390.00	व्यापार में		4,91,370.00
(आर.आर.पी-1)			स्टॉक		
			(आर.आर.पी-1)		
व्यापार में स्टॉक		13,80,200.00	व्यापार में		22,16,522.00
(आर.आर.पी-2)			स्टॉक		
			(आर.आर.पी-2)		
व्यापार में स्टॉक		645.99	व्यापार में		645.99
(निर्माण			स्टॉक (निर्माण		
सामग्रियां)			सामग्रियां)		
व्यापार में स्टॉक		9,90,496.69	व्यापार में		2,42,601.90
(कागज)			स्टॉक		
			(कागज)		
खर्च (प्रत्यक्ष)		73,11,759.60	विक्री लेखा :		
स्थापना व्यय (प)	1	24,31,765.34	विक्री		2,20,04,540.70
उत्पादन लागत	2	48,79,994.26			
कुल लाभ C/o		1,42,51,969.29			
		3,63,23,798.14			3,63,23,798.14
खर्च (परोक्ष)		1,55,43,013.09	कुल लाभ B/F		1,42,51,969.29
ऐजेन्सी प्रकाशन	3	1,8,66.09	आय (राजस्व)		35,84,209.22
स्थापना व्यय	4	60,20,195.45	ऐजेन्सी	9.	932.91
			प्रकाशन का		
कार्यालय खर्च	5.	10,22,782.14	उपर कमिशन		
बही क्रय	6	73,725.00	विविध रॉयल्टी	10	28,397.50
रचनावली	7	4,09,797.50	पर कमिशन		
(लोकप्रिय) खर्च			बही क्रय का	11	4,350.00
			उपर कमिशन		
विक्री व्यय	8	80,14,646.91	सुद प्राप्त	12	22,94,203.60
			विविध प्रापतियां	13	54,000.00
			पैकिंग प्रापतियां		2,630.21
शुद्ध लाभ		22,93,165.42	रचनावली	14	11,99,695.60
			(लोकप्रिय)		
			आय		
कुल		1,78,36,178.51			

कुल 1,78,36,178.51

अध्यक्ष (निदेशक)  
ग्रंथ विभाग



**विश्वभारती**  
**प्रकाशन विभाग**

वर्ष 2001-2002 के लाभ तथा हानि लेखा की अनुसूचियाँ

विवरण	नामे रु	जमा रु	नामे रु	जमा रु
<b>अनुसूची - 1</b>				
स्थापना व्यय (प)		24,31,765.34		
बोनस (भत्ता सहित). पी		29,604.00		
सी.सी.ए. - पी		43,025.00		
महंगाई भत्ता - पी		5,21,975.00		
जी.वी. आनुतोषिक अनु. (पी) में अंशदान		25,228.74		
जी.वी. पेंशन अनु. (पी) में अंशदान		1,68,191.60		
एच.आर.ए. : पी		3,48,010.00		
चिकित्सा सहायता : पी		38,490.00		
वेतन - पी		11,59,941.00		
अस्थायी नियुक्ति एवं अवकाश व्यवस्था		48,000.00		
परिवहन भत्ता (प्रोड)		49,300.00		
<b>अनुसूची - 2</b>				
उत्पादन लागत		48,79,994.26		
बाध्यकारी		9,52,047.76		
कागज क्रय		33,56,350.50		
छापाई		5,71,030.00		
परिवहन लागत (कागज)		566.00		
<b>अनुसूची - 3</b>				
प्रकाशन एजेन्सी		1,866.09		
प्रकाशन एजेन्सी		1,866.09		
<b>अनुसूची - 4</b>				
स्थापना लागत		60,20,195.45		
बोनस (भत्ता सहित)		1,08,342.00		
नगद एवं काउन्टर भत्ता		7,638.00		
सी.सी.ए.		1,09,875.00		
चार्य भत्ता (जी)		50.00		
महंगाई भत्ता		12,88,058.00		
जी.वी. आनुतोषिक अनु. (जी) में अंशदान		62,235.55		
जी.वी. पेंशन अनु. (जी) में अंशदान		4,14,903.65		
एच.आर.ए.		8,06,399.00		
चिकित्सा सहायता		1,37,769.00		
समयोपरि भत्ता		19,189.75		
वेतन		28,60,978.50		
वेतन इत्यादि		34,268.00		
छोटा प्रतिमैनक		4,375.00		
विशेष भत्ता		9,859.00		
अस्थायी नियुक्ति एवं अवकाश व्यवस्था		64,195.00		
परिवहन भत्ता (रा.)		83,100.00		
धुलाई भत्ता		8,960.00		

**विश्वभारती**  
**प्रकाशन विभाग**

वर्ष 2001- 2002 के लाभ तथा हानि लेखा की अनुसूधिया

विवरण	नामे रु - जमा रु	नामे रु	जमा रु
<b>अनुसूची - 5</b>			
कार्यालय लागत		10,22,782.14	
वार्षिक अध्ययन भत्ता		4,000.00	
बैंक प्रभार		225.00	
कार्यालय केन्टिन को सहयोग		43,833.84	
मुख्य ह्रास		1,21,398.00	
निवृत्त चार्ज		74,384.50	
प्रपत्र एवं लेखन सामग्री		74,384.50	
सम्मानिकी		1,31,352.79	
बीमा : अग्नि इत्यादि		1,20,400.00	
मटोर वाहन अनुरक्षण चार्ज		1,89,873.65	
पौर कर		25.00	
किराया		40,032.20	
वृत्ति पर राजस्वकर		600.00	
रवीन्द्रनाथ ठाकुर जयन्ती एवं पुण्यतिथि व्यय		24,864.00	
दूरभाष चार्ज		93,272.00	
व्यापार तथा साइन बोर्ड अनुमति		35.00	
यात्रा एवं वाहन		13,829.95	
पोशाक		1,08,536.16	
रखरखाव एवं भरम्मत		1,08,536.16	
<b>अनुसूची -6</b>			
पुस्तक क्रय		73,725.00	

**विश्वभारती**  
**प्रकाशन विभाग**  
वर्ष 2001-2002 के लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची

विवरण	नामे रु	जमा रु	नामे रु	जमा रु
<b>अनुसूची - 7</b>				
रचनावली (लोकप्रिय) व्यय			4,09,790.50	
जिल्दसागी (आर.आर.पी)			3,53,284.00	
छापाई (आर.आर.पी)			38,930.00	
प्रकाशन एवं विज्ञापण (आर.आर.पी)			17,581.00	
यात्रा एवं परिवहन			2.50	
<b>अनुसूची - 8</b>				
विक्रय लागत			80,14,646.91	
दुलाई और मजदूरी			1,605.00	
विक्रय पर कमिशन			44,26,862.77	
भाड़ा			17,851.00	
डाक खर्च			6,301.00	
प्रकाशन एवं विज्ञापण			3,31,659.00	
पुस्तक विक्रय पर स्वामित्व			32,30,368.14	
<b>अनुसूची - 9</b>				
एजेन्सी प्रकाशन पर कमिशन			932.91	
<b>अनुसूची - 10</b>				
विविध स्वामित्व पर कमीशन			28,397.50	
<b>अनुसूची - 11</b>				
पुस्तक क्रय पर कमीशन			4,350.00	
<b>अनुसूची - 12</b>				
ब्याज प्राप्त			22,94,203.00	
<b>अनुसूची - 13</b>				
विविध प्राप्तियां			54,000.00	
<b>अनुसूची - 14</b>				
रचनावली (लोकप्रिय) आय			11,99,695.60	
डाक खर्च एवं पैकिंग (आर.आर.पी) प्राप्ति			810.40	
चन्दा (आर.आर.पी)			11,98,885.20	

अध्यक्ष (निदेशक)  
ग्रंथान विभाग

**विश्वभारती**  
**प्रकाशन विभाग**

वर्षान्ति 31 मार्च 2001-2002 का लिए अनुसूची से लाभ एवं हानि विवरण (राशि रु में)

विवरण		विवरण	
पी. एन्ड जी से प्राप्त धन	34,65,723.00	शोध अग्रणीत	3,23,64,064.63
शोध अग्रनयन	3,11,91,507.05	लाभ एवं हानि (शुद्ध आय)	22,93,165.42
	<u>3,46,57,230.05</u>		<u>3,46,57,230.05</u>

विवरण	अनु	विवरण	अनु
प्रारम्भिक स्टॉक	19,71,590.00	अंतिम स्टॉक	27,07,892.00
व्यापार में स्टॉक	5,91,390.00	व्यापार में स्टॉक	4,91,370.00
(आर.आर.पी -1)		(आर.आर.पी -1)	
व्यापार में स्टॉक	13,80,200.00	व्यापार में स्टॉक	22,16,522.00
(आर.आर.पी -2)		(आर.आर.पी -2)	
व्यय परोक्ष	4,09,797.50	आय (राजस्व)	
रचनावली	1 4,09,797.50	रचनावली	2 11,99,695.60
(लोकप्रिय) व्यय		(लोकप्रिय) व्यय	
शुद्ध लाभ	15,26,200.10		
कूल	<u>39,07,587.60</u>	कूल	<u>39,07,587.60</u>

**विश्वभारती**  
**प्रकाशन विभाग**

वर्ष 2001-2002 के लिए अनुसूची से (आर.आर.पी) लाभ एवं हानि लेखा (राशि रु में)

विवरण	नाम रु	जमा रु	नाम रु	जमा रु
अनुसूची - 1				
रचनावली (लोकप्रिय) व्यय		4,09,797.50		
जिल्दसाजी (आर.आर.पी)		3,53,284.00		
छपाई (आर.आर.पी)		38,930.00		
प्रकाशन एवं डिज़ाइन (आर.आर.पी)		17,581.00		
यात्रा एवं परिवहन		2.50		

**अनुसूची - 2**

रचनावली (लोकप्रिय) आय	11,99,695.00
डाक खर्च एवं पैकिंग (आर.आर.पी) प्राप्ति	810.40
चन्दा (आर.आर.पी)	

11,98,885.20

अध्यक्ष (निदेशक)  
ग्रंथन विभाग

## विश्वभारती

## संगीत परिषद्

31 मार्च 2002 तक तक का तुलन पत्र

2000-2001	विवरण	2001-2002	2000-2001	परिसम्पत्तियाँ	2001-2002
22,827.50	सुरक्षित निधि विगत लेखानुसार	22,827.50	94,887.86	उपस्कर एवं उपकरण विगत लेखानुसार	87,771.27
49,48,480.77	जमा विगत लेखानुसार कम: विपत्ति में स्थानान्तरित रवीन्द्र संगीत कलाकार निधि	51,32,006.54	13.06	कम: शुल्क ह्रास	94,887.86 7,116.59
	योग: 2001-2002 के लिए राजस्व शुल्क	45,48,480.77 5,00,000.00 40,48,480.77 10,83,525.77	18,250.00	खण्ड विगत लेखानुसार कम: शुल्क ह्रास	12.08 13.06 0.98
	विपन्न रवीन्द्र संगीत कलाकार निधि	51,32,006.54		निवेश (एफ.ओ. विश्वभारती)	18,250.00
10,25,000.00	कम: भुगतान 2001-2002	4,90,000.00	83,78,695.00	विगत लेखानुसार	
	विश्वभारती संगीत परिषद् विकास निधि	5,00,000.00 10,000.00 4,90,000.00	10,25,000.00	स्थायी जमा: यू.वी.आई. तिवली पार्क शाखा विगत लेखानुसार	1,13,85,520.00 83,78,695.00 30,06,825.00
46,97,333.25	विगत लेखानुसार आय एवं व्यय लेखा विगत लेखानुसार	54,72,304.55	2,280.00	योग: इस वर्ष का जोड़ स्थायी जमा यू.टी.आई बैंक में	
	योग: व्यय से ऊपर अधिक आय	46,97,333.25 7,74,971.30 54,72,304.55	2,500.00	विगत लेखानुसार	2,280.00
0.13	उचित विगत लेखानुसार	0.53	20,000.00	अग्रदाय विगत लेखानुसार	2,500.00
	योग: इस वर्ष	0.13 0.40		अग्रिम	
0.50	अग्रिम विगत लेखानुसार	0.50	1,234.07	उत्साव अग्रिम विगत लेखानुसार	750.00
			7,50,782.16	अकन पत्र पर स्टॉक विगत लेखानुसार	1,234.07
				नकद एवं बैंक शेष हाथ में नकद	6,43,822.20
1,02,93,642.15	विगत लेखानुसार	1,21,42,139.62	1,02,93,642.15	यू.टी.आई. तिवली पार्क शाखा में (एस/बी नं 49280)	NIL 6,43,822.20
					1,2142,139.62

अद्यतनिक सचिव  
विश्वभारती संगीत परिषद्

**विश्वभारती**  
**संगीत परिषद्**  
वर्ष 2001-2002 के लिए आय एवं व्यय लेखा

2000-2001	विवरण	2001-2002	2000-2001	परिसम्पत्तियाँ	2001-2002
1,81,200.00	वेतन एवं भत्ता		3,36,638.81	स्वामित्व पर कमीशन	3,48,541.92
28,530.30	आकस्मिकता एवं अनियमित व्यय		20,465.00	व्याज (बैंक)	22,105.00
6,036.00	ड्राफ्ट खर्च		18,24,695.00	निवेश से लाभ	10,27,938.00
13,272.00	प्रपत्र एवं रटेशनरी		1,91,750.00	स्वयुद्धि का शुल्क	81,525.00
20,340.50	यात्रा एवं परिवहन		38,350.00	स्वामिकन शुल्क	28,150.00
13,487.00	पूराभाष शुल्क		4,000.00	विभिन्न प्रतियाँ	-
360.00	बैंक शुल्क		1,234.07	अंकन पत्र का इति स्टांक	1,234.07
1,42,150.00	रवीन्द्र संगीत विशेषज्ञ को सम्मानिकी				
-	विधिक व्यय				
7,694.67	मूल्याहान				
2,795.70	संगीती एवं बैठक				
22,657.50	स्वरांगन पर व्यय				
16,000.00	टैगोर जयन्ती एवं पूज्याह पर व्यय				
1,800.00	प्रकाशन एवं विज्ञापन				
1,234.07	अंकन पत्रों पर स्टांक				
10,559.50	कणिका बनर्जी की स्मरण-संध्या				
1,56,000.00	जी.बी. को सेवा-शुल्क				
23,227.00	एस्.आर. मजुमदार जयन्ती				
1,800.00	कार्यालय				
10,600.00	अधिलाम (प्रोत्साहन भत्ता)				
-	प्रेस काफरन्स				
-	*विशेष कार्यक्रम (2001)				
-	पाठ-भवन शताब्दी				
-	विशेष कार्यक्रम				
17,57,388.64	व्यय से उपर अधिक आय				
	वात्सविक व्यय रु 78,769.40				
	कम: अ) बैंडियो सत्वाधिकार से				
	प्राप्तियाँ रु. 20,000.00				
	आ) सारास्य से विज्ञापन लागत				
	प्राप्तियाँ रु 12,090.00 रु. 32,090.00				
	रु. 46,679.40				
24,17,132.88		15,09,493.99	24,17,132.88		15,09,493.99

अवैतनिक सचिव  
विश्वभारती संगीत परिषद्

## विश्वभारती

## संगीत परिषद्

31 मार्च 2002 को प्रतियां एवं भुगतान लेखा

2000-2001	विवरण	2001-2002	2000-2001	परिसमयतियां	2001-2002
20,465.00	व्याज (बैंक)	22,105.00	1,81,200.00	वेतन एवं भत्ता	1,93,000.00
18,24,695.00	निवेश से आय	10,27,938.00	28,530.30	आकास्मिक एवं अनियमित व्यय	35,099.40
4,000.00	विविध प्रतियां	-	6,036.00	ड्राफ्ट व्यय	6,751.00
1,91,750.00	स्वीकृत शुल्क	81,525.00	13,272.00	प्रपत्र एवं स्टेशनरी	10,245.00
38,350.00	स्वरांकन शुल्क	28,150.00	20,340.50	यत्रा एवं परिवहन	14,145.00
26,006.00	मंचन सत्याधिकार पर स्वामित्व	14,400.00	360.00	बैंक शुल्क	350.00
8,68,800.25	डिस्क, रेकर्ड एवं कैसेट्स पर स्वामित्व	7,75,617.69	1,42,150.00	रवीन्द्र संगीत विशेषज्ञ को सम्मानिकी	1,71,300.00
10,400.00	रवीन्द्र संगीत पर फिल्म में स्वामित्व	8,050.00	-	वैधिक व्यय	13,495.00
4,13,349.00	रेडियो प्रसारण एवं दूरदर्शन टेलिकास्ट पर राज शुल्क	4,44,500.00	2,795.70	बैठक व्यय	5,731.00
35,000.00	फिल्म सत्याधिकार पर स्वामित्व	1,89,500.00	22,657.50	स्वरांकन व्यय	40,643.60
6,000.00	अग्रिम (सी)	20,000.00	16,000.00	टैगोर जयन्ती एवं पुण्य तिथि व्यय	16,000.30
-	यू.टी.आई. में स्थिर जमा (निकासी)	10,25,000.00	20,000.00	अग्रिम	-
-	उत्सव अग्रिम	750.00	24,78,695.00	स्थिर जमा यू.टी.आई. तीवली पार्क शाखा में	30,06,825.00
-	उचंचत	0.40	13,487.00	दूरभाष शुल्क	12,614.00
			1,800.00	कार्यालय कक्ष का अनुरक्षण	-
			-	जमा (ट्रस्ट्रीज, आर.एन. टैगोर इस्टेट)	-
			1,800.00	प्रकाशन एवं विज्ञापन	37,398.00
			16,350.00	उपस्कर एवं उपकरण	-
			10,559.50	कपिका बगर्जी की स्मरण-संध्या	-
			23,227.00	एस.आर. मजुगदार की जन्म शताब्दी	-
			156,000.00	जी.भी. को सेवा शुल्क	-
			10,600.00	अधिलाग (प्रोत्साहन भत्ता)	54,000.00
			-	प्रेस कान्फारेन्स	11,800.00
			-	विशेष कार्यक्रम 2001	4,848.25
			-	पाटभवन शताब्दी 2001	46,679.40
			-	रवीन्द्र संगीत कलाकार विपन्न निधि	42,071.40
			-	विशेष कार्यक्रम के लिए योगदान	10,000.00
			-	उत्सव	1,500.00
			-	इति शेष	6,43,822.20
4,77,827.41	आय शेष	43,88,318.25	7,50,782.16		
39,16,642.66		43,88,318.25	39,16,642.66		43,88,318.25

अवैतनिक सचिव

विश्वभारती संगीत परिषद्,

**विश्वभारती**  
**भविष्य निधि लेखा**

वर्ष 2001-2002 के लिए 31.3.2002 को जलन पत्र

देयताएँ	(रु.)	(रु.)	परिसम्पत्तियाँ	(रु.)	(रु.)
सदस्यों की निधि			अग्रिम लेखा विगत लेखानुसार	320777037.57	
अ) भविष्य निधि शुल्क विगत लेखानुसार	218672537.64		योग (+) इस वर्ष	20894504.66	
योग (+) इस वर्ष का शुल्क	33765343.84			52971542.23	
योग (+) इस वर्ष का लाभ	21682355.00		कम (-) इस वर्ष की वसूली	18969410.36	
कम (-) इस वर्ष का वापसी/निकासी	274120236.48			34002131.87	34002131.87
	26780763.15		स्थिर जमा		
अ) सी.पी.एफ. शुल्क विगत लेखानुसार	14224011.95	247339473.33	एस.बी.आई. शान्तिनिकेतन विगत लेखानुसार	58570500.00	
योग (+) इस वर्ष का शुल्क	2678996.00		योग (+) इस वर्ष निवेश	13022500.00	
योग (+) इस वर्ष का लाभ	1163244.00			71593000.00	71593000.00
	18066251.95		एस.बी.आई. कलकत्ता विगत लेखानुसार	21786575.00	
कम (-) इस वर्ष का वापसी/निकासी	4464195.17		योग (+) इस वर्ष निवेश	1000000.00	
	13602056.78	13602056.78		22786575.00	22786575.00
इ) विश्वभारती योगदान विगत लेखानुसार	7994333.83		यू.वी.आई. बोलपुर विगत लेखानुसार	37202450.00	
योग (+) इस वर्ष का शुल्क	963189.00		योग (+) इस वर्ष का बकाया	456264.00	
योग (+) इस वर्ष का लाभ	457575.00			37658714.00	
	9415097.83		योग (+) इस वर्ष निवेश	9334000.00	
कम (-) इस वर्ष का वापसी/निकासी	473805.05			46992714.00	
			कम (-) इस वर्ष परिपक्वता	7718050.00	
				39274664.00	39274664.00
			यू.वी.आई. मुवनडांगा विगत लेखानुसार	51508000.00	
			योग (+) इस वर्ष निवेश	6565000.00	
				58073000.00	
			कम (-) इस वर्ष परिपक्वता	4010000.00	
				54063000.00	54063000.00
अग्रनयन	26988282.89		अग्रनयन		221719370.87



विश्वभारती  
संगीत परिषद्  
भविष्य निधि लेखा

वर्ष 2001-2002 के लिए 31.3.2002 को तुलन पत्र

विवरण	(रु.)	(रु.)	(रु.)
देयताएं			
अग्रणीत	269882822.89		221719370.87
आय एवं व्यय लेखा :			
पिछले लेखानुसार	306775.52		5500000.00
कम (-) इस वर्ष भगतान	6491.00		5500000.00
	300284.52		
योग (+) इस वर्ष व्यय से ऊपर आय	23731509.51		
	24031794.03		
कम (-) भगतान			
भविष्य निधि लेखा	21682355.00		
सी.पी.एफ. लेखा	1163244.00		
वि.भा. योगदान लेखा	457575.00		
	23303174.00		
रु. 1599870.15 पर वि.भा. योगदान वापसी			
	199983.77		
	23503157.77		
	(-)		
	23503157.77		
	528636.26		
विविध: जमा लेखा			
अ) विगत लेखानुसार	842586.13		
योग (+) इस वर्ष जमा	251730.09		
	1094316.22		
म (-) इस वर्ष प्रदत्त	376909.48		
	717406.74		
आ) विश्वभारती योगदान धनवापसी वि.वि. अनु. आयोग को			
वगत लेखानुसार	1599870.15		
योग (+) इस वर्ष लाभ	199983.77		
	1799853.92		
	2517260.66		
कुल (अ+आ)	2517260.66		
	2517260.66		
	272928719.81		

कुल (अ+आ)

*Geetha*  
लेखा अधिकारी, विश्वभारती

*Prakash*  
लेखा अधिकारी, विश्वभारती

*Prakash*  
लेखा अधिकारी, विश्वभारती

272928719.81

7108685.73

इति शेष :

14103950.18

4408265.00

4411236.00

1038664.06

4245785.12

44100663.21

14103950.18

29996713.03

456264.00

30452977.03

विगत लेखानुसार

कम (-) इस वर्ष प्रदत्त

प्रोद्भूत व्याज :

विगत लेखानुसार

कम (-) परिपक्व

एस.वी.आई. प्रतिसूति

अग्रणीत

विश्वभारती  
भविष्य निधि लेखा

वर्ष 2001-2002 के लिए आय एवं व्यय लेखा

व्यय	रु	रु	आय	रु
व्यय से ऊपर अधिक आय	23,731,509.51		सामान्य खातानुसार स्थिर जमा पर सूद	9,627,559.33
			असा.टी.डी.आर.आर.आई.पी. के विरुद्ध प्रोद्भूत सूद	
			एस.बी.आई. शान्तिनिकेतन	4245785.12
			एस.बी. आई. कलकत्ता	1038664.06
			यू.बी.आई. बोलपुर	4411236.00
			यू.बी.आई. मुदनडांगा	4408265.00
				14103950.18
	23,731,509.51			23,731,509.51

  
लेखाधिकारी  
विश्वभारती



**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**

New Delhi, the 10th February 2005

No. N-15/13/6/5/2004-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st February 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely :—

"The areas within the Revenue Village of Punnala in Pathanapuram Taluk of Kollam District."

R. C. SHARMA  
Joint Director (P&D)

---

**INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY**

New Delhi-110068, the 15th February 2005

No. IG/Admn(G)/St. 10/2003/26.—In exercise of the powers vested in it, under the provisions of Section 25(2) of the IGNOU Act, 1985 (No. 50 of 1985), the Board of Management of the University, at its 74th meeting held on 28.2.2003 had made amendments to Statute 10A regarding the Establishment of School of Agriculture and School of Law. This has the approval of the President of India in his capacity as the Visitor, as conveyed by the Ministry of Human Resource Development vide their letter No. F.5-23/2003-Desk(U)(A) dated February 4, 2005.

**Statute 10A—The Schools of Studies**

After addition the amended Clause (1) under the Statute 10A reads as follows :

10. School of Agriculture;
11. School of Law; and
12. Such other Schools as may be set-up by the Statutes.

A. S. NARANG  
Registrar

---

**VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN  
AUDITED ACCOUNTS  
FOR 2001-2002**

Kolkata-1, the 18th September 2003

**AUDIT CERTIFICATE**

No. OA II (AB)/AR/2001-02/VB/330.—I have examined the Receipt & Payment Accounts, Income & Expenditure Accounts for the year ended 31st March 2002 and the Balance Sheet as on 31st March 2002 of Visva-Bharati, Birbhum. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a results of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Visva-Bharati, Birbhum according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

SHANTANU BASU  
Pr. Director of Audit  
Central : Kolkata

## Audit Report on the Accounts of Visva-Bharati, Santiniketan, for the year 2001-02.

### 1. Introduction

1.1 Visva-Bharati was founded in December 1921 and was registered as a Society in May 1922 under Societies' Registration Act, 1860. It was later converted into a Central University with the enactment of Visva-Bharati Act 1951.

1.2 The University is financed mainly by grants received from University Grants Commission. It also receives grants for specific purposes from the Government of India and the Government of West Bengal and from organisations like Indian Council of Agricultural Research and Council of Scientific and Industrial Research.

During the year 2001-02, the University received grants amounting to Rs. 4,512.54 lakh from different sources as mentioned below :

(Rs in lakh)

Source of the grant	Maintenance Grant	Specific Purpose Grant	Total
University Grants Commission	3,769.17	617.93	4,387.10
Government of India	0.00	71.87	71.87
Government of West Bengal	0.00	09.66	09.66
Other sources	0.00	43.91	43.91
<b>Total</b>	<b>3,769.17</b>	<b>743.37</b>	<b>4,512.54</b>

1.3 The audit of annual accounts of the University for the year 2001-02 was conducted under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act 1971 read with Section 36 of the Visva-Bharati Act 1951.

### 2. Comments on accounts :

#### 2.1 Consolidated Balance Sheet (Santiniketan)

2.1.1 Despite mention in previous year's Audit Report, the asset accounts depicted book value of acquisition and did not exclude obsolescent, unusable, irreparable and condemned assets and also did not take into account depreciation with corresponding reduction of capital account. Therefore, the capital and asset accounts were overstated accordingly, thereby not giving the correct picture. The University is advised to charge depreciation on assets.

2.1.2 Despite mention in the earlier Audit Reports, the University did not maintain Register of Assets in Form GFR-19, as required under Rule 151(4)(a) of General Financial Rules. Relevant extracts of the Register was not appended to Annual Accounts. All though, a centralised register of assets was maintained in case of Building, the same was not in Form GFR-19 and the assets acquired in 2001-02 was not included therein. The progressive value of the assets as on 31st March 2002 was also not worked out. As such, correctness of the fixed assets (Rs 3346.53 lakh) could not be verified in audit.

2.1.3 The University did not furnish report on physical verification of Fixed Assets. As such, it could not be ascertained as to whether the verification of Fixed Assets for 2001-02 was conducted. As such, physical existence/condition of the assets could not be ascertained in audit.

2.1.4 Investment schedule, indicating details such as name of the bank/financial institution, amount, date, period, rate of interest, date of maturity, matured value etc. was not appended to the Annual Accounts.

2.1.5 The figures incorporated in the Consolidated Balance Sheet under different heads in respect of the accounts of (i) Publishing Department (ii) Music Board (iii) Silpa Sadana and (iv) Nippon Bhavana could not be distinctly identified as these accounts were not prepared in the new format of accounts.

## AUDIT REPORT, 2001-02

**2.2 Balance Sheet—Assets (Santiniketan Accounts)**

**2.2.1** "Stores and Spares" of Rs 36.99 lakh was exhibited under 'Current Asset, Loans and Advances etc.' (Schedule 17) while the records of the Engineering Stores of the University exhibited a balance of Rs 10.25 lakh under the above sub-head.

The discrepancies pointed out above need reconciliation.

**2.2.2** Balance Sheet exhibited investments for Rs 494.62 lakh while as per Receipts and Payments Accounts (Non-Revenue) (Santiniketan) the total investment works out to Rs 512.59 lakh (Opening Balance: Rs 451.68 lakh; Addition during the year: Rs 60.91 lakh). However, neither the investment of Rs 494.62 lakh nor the investment of Rs 512.59 lakh agreed with the Investment Register, which exhibited Investment of Rs 443.48 lakh.

The discrepancies pointed out above need reconciliation.

**2.2.3** The University produced fund/account-wise investment scripts/documents for Rs 443.48 lakh, as detailed below:—

Sl. No.	Name of the fund/account from which investment made	Amount (Rs in lakh)
(i)	Endowment Fund	115.40
(ii)	Indira Gandhi Centre for National Integration	2.80
(iii)	Nippon Bhavana	10.96
(iv)	Granthan Vibhaga Fund	187.72
(v)	CPF Contribution Transferred Fund	126.60
	<b>Total:</b>	<b>443.48</b>

The fund/account-wise investment shown above could not be linked the figures exhibited in the Balance Sheet. Investment scripts/documents for the remaining investment of Rs 51.14 lakh (Rs 494.62 lakh – Rs 443.48 lakh) was not furnished.

**2.2.4** Addition of Rs 467.14 lakh (Revenue Account: Rs 43.72 lakh; Non Revenue Account: Rs 423.42 lakh) was exhibited under 'Fixed Assets' in the Balance Sheet (Schedule-14). Fixed Assets created from Revenue Account included 'Furniture and Fixture' (Rs 11.69 lakh). Correctness of capitalisation of Rs 32.03 lakh could not be verified in audit as item wise details were not exhibited distinctly in the Receipts and Payments Account (Revenue). Further, capital expenditure as per Receipts and Payments Accounts (Non-Revenue) works out to Rs 499.50 lakh, as detailed below:—

		(Rs in lakh)
Name of the head	Capital Expenditure as per Receipts and Payments Accounts (Non-Revenue)	
Building		222.43
Furniture and Fixture		191.21
Electric Installations		0.04
Library Books		47.90
Tube wells and Water Supply		35.00
Other Fixed Assets		2.92
<b>Total:</b>		<b>499.50</b>

The discrepancy of Rs 76.08 lakh (Rs 499.50 lakh – Rs 423.42 lakh) in case of Non-revenue Account needs reconciliation.

**2.2.5** Value of 'Vehicles' was shown as Rs 16.86 lakh under the head 'Fixed Assts' in Balance Sheet (Schedule-14) while as per records of the concerned department, value of the 19 vehicles was Rs 26.49 lakh. Value of a Jeep, Diesel Bus and a donated car was not available. The discrepancy needs reconciliation.

**2.2.6** An amount of Rs 4.83 lakh was exhibited in the Balance Sheet (Schedule 17) under the sub-head "Others (Suspense)" under 'Current Assets, Loans, Advances, etc.

## AUDIT REPORT, 2001-02

The University is advised to book the transactions under appropriate head and avoid operation of suspense head as it dilutes the accuracy of the accounts.

**2.2.7** Total assets/liabilities of "Previous Year" was shown as Rs 4107.47 lakh in the Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March 2002 while as per previous year's Balance Sheet the total was Rs 4215.17 lakh. This resulted in a difference of Rs 107.70 lakh. While accepting the facts, the University stated that previous years balance were reorganised due to introduction of the new format of accounts. However, no reconciliation statement was appended to the accounts in this regard.

**2.2.8** Previous year's Balance Sheet exhibited Rs 1.65 under 'Other Assets' which included a balance of Rs 0.03 lakh under the sub-head "Unrealised loan out of Vice-Chancellor's Discretionary Fund". This fund was not exhibited in the Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March 2002. As such, the position of unrealised loan as on 31<sup>st</sup> March 2002 could not be ascertained in audit.

### 2.3 Balance Sheet—Assets (Silpa Sadana)

Closing Stock of Silpa Sadana was valued in the following manner is during the last three years:—

Year	Method of Valuation
1999-00	75 per cent of market value
2000-01	At market value
2001-02	50 per cent of market value

Although the method of valuation varied from year to year, the University, did not appened any note to the accounts in this regard.

### 2.4 Balance Sheet—Assets (Publishing Department)

**2.4.1** An amount of Rs 19.20 lakh was exhibited in the Balance Sheet (Schedule-15) under the head "Suspense" under 'Current Assets'. The University is advised to book the transactions under proper head and avoid operation of suspense as it dilutes the accuracy of the accounts.

**2.4.2** Value of the stock of unfinished books for Rs 0.48 lakh was not included under the head 'Stock-in-hand' in the Balance Sheet (Schedule-19). This resulted in understatement of assets under the head 'Stock-in-hand' and liabilities under the sub-head 'Profit and Loss Appropriation Account' (Schedule-3) by Rs 0.48 lakh.

**2.4.3** Investment totaling Rs 527.01 lakh was included under the following heads in the Balance Sheet while Investment Register disclosed total investment of Rs 560.22 lakh, resulting in discrepancy of Rs 33.21 which needs reconciliation:—

(Rs in lakh)	
Head under which included	Amount invstment
Fixed Assets (Schedule-4)	176.74
Investments (Schedule-5)	59.32
Rach (Popular) Assets (Schedule-17)	95.80
Cash-in-hand (Schedule-14)	155.15
Current Assets (Schedule-15)	40.00
<b>Total</b>	<b>527.10</b>

Despite mention in previous year's Audit Report, the total amount was not reflected under the head 'Investment' in the asset side of the Balance Sheet.

### 2.5 Balance Sheet—Assets (Palli Siksha Bhavana)

Bank Balance of Krishi Vigyan Kendra (KVK) was exhibited as Rs 9.85 lakh under 'Current Assets, Loans, Advances etc.' in the Balance Sheet (Schedule-10) while the Cash Book of KVK disclosed Bank Balance of Rs 13.21 lakh. This resulted in understatement of assets by Rs 3.36 lakh.

## AUDIT REPORT, 2001-02

**2.6 Balance Sheet—Assets (Provident Fund Accounts)**

2.6.1 Despite mention in previous year's Audit Report, the University did not exhibit its investment and cash/bank balance separately under GPF and CPF.

2.6.2 Balance Sheet exhibited total investment of Rs 1877.17 lakh under 'Fixed Deposit' as on 31<sup>st</sup> March 2002. The University did not follow the pattern of investment prescribed by the Government of India (G.O.I.) in this regard with effect from April 1998, as shown below, and invested the entire amount in Fixed Deposit:—

Category of Investment	Percentage prescribed by GOI
Central Government Securities	25
State Government Securities	15
Investment in Bond/securities of Public Financial Institutions and/or Certificate of deposit issued by Public Sector Banks	40
To be investment in any of the above three	20

The investment plan needs to be reconsidered and corrective action be taken as per Government of India's decision.

2.6.3 'Fixed Deposit' of Rs 227.87 lakh with State Bank of India, Santiniketan was erroneously exhibited in the Balance Sheet as Fixed Deposit in State Bank of India, Calcutta.

**2.7 Balance Sheet—Liabilities (Santiniketan)**

2.7.1 Balance Sheet (Schedule 3) exhibited Rs 303.90 lakh under 'Revolving Fund for House Building Advance'. Despite mention in previous year's Audit report, the University did not credit interest for Rs 9.55 lakh recovered from its employees during the year 2001-02. This resulted in understatement of liability under Fund Balance for Rs 9.55 lakh as at 31<sup>st</sup> March 2002.

2.7.2 Against the fund balance of Rs 303.90 lakh under 'Revolving Fund for House Building Advance', corresponding assets of Rs 250.62 lakh was exhibited in the Balance Sheet (Schedule 17) as detailed below:—

Name of the head	Amount (Rs in lakh)
Loans : Staff (HBA)	246.31
Bank Balance (included in Rs 1169.74)	4.31
<b>Total:</b>	<b>250.62</b>

The shortfall of Rs 53.28 lakh (Rs 303.90 lakh – Rs 250.62 lakh) indicates that the entire fund was not utilised for the purpose for which it was intended.

**2.8 Balance Sheet—Liabilities (Provident Fund Accounts)**

2.8.1 Balance Sheet exhibited Rs 18.00 lakh under the head 'Visva-Bharati Contribution Refundable to UGC'. The amount represented employer's contribution refundable due to conversion from CPF to GPF. Employer's contribution amounting to Rs 2.25 lakh in respect of one subscriber was, however, included under the head 'Miscellaneous Deposit Account' instead of the head 'Visva-Bharati Contribution Refundable to UGC'. Consequently, liability under 'Miscellaneous Deposit Account' was overstated and liability under 'Visva-Bharati Contribution Refundable to UGC' was understated by Rs 2.25 lakh.

2.8.2 The fund balance of GPF and CPF as exhibited in the Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March 2002 did not agree with the balance worked out in the Broad Sheet for 2001-02, as detailed below:—

(Rs in lakh)			
Name of Fund	GPF	CPF	Total
Balance shown in Balance Sheet	2,473.39	136.02	2,609.41
Balance as per Broad Sheet	2,477.84	131.57	2,609.41
<b>Difference</b>	<b>- 4.45</b>	<b>4.45</b>	<b>0.00</b>

Although there is no difference taking GPF and CPF together, the difference of the respective funds needs reconciliation.



## AUDIT REPORT, 2001-02

**2.9 Balance Sheet—Liabilities (Publishing Department)**

Balance Sheet exhibited liability of Rs 0.85 lakh under 'Visva-Bharati 'Patrika' while corresponding assets under the head was as Rs. 1.59 lakh, resulting in difference of Rs 0.74 lakh which needs reconciliation.

**2.10 Income & Expenditure Accounts (Santiniketan)**

'Excess of Income over expenditure' of Rs 280.31 lakh was not exhibited separately under 'Plan' and 'Non-Plan' in the Income and Expenditure Account despite being pointed out in previous year's Audit Report.

**2.11 Income & Expenditure Accounts (Silpa Sadana)**

**2.11.1** Bonus of Rs 0.82 lakh in respect of the following units of Silpa Sadana were exhibited in the Balance Sheet of Silpa Sadana under the head "Profit and Loss Account" instead of being reflected in the Income and Expenditure Account of the respective units:—

Name of the Unit	Amount of Bonus (Rs in lakh)
Paper Making	0.03
Weaving	0.19
Carpentry	0.31
Book Binding	0.27
Batik	0.02
<b>Total:</b>	<b>0.82</b>

This resulted in understatement of 'Excess of Income over Expenditure' by Rs 0.82 lakh.

**2.11.2** Expenditure of Rs 0.88 lakh towards pay allowance of Santiniketan Shop was apportioned to the following units of Silpa Sadana:—

Name of the Unit	Amount of Pay and allowance (Rs in lakh)
Paper Making	0.04
Weaving	0.69
Pottery	0.03
Leather	0.07
Batik	0.05
<b>Total:</b>	<b>0.88</b>

Since, Santiniketan Shop did not exist, booking of expenditure against this shop was not correct.

**2.12 Income & Expenditure Accounts (Palli Siksha Bhavana)**

The expenditure booked under the following heads differed with the figures shown in the corresponding schedules, indicating mixing-up of transactions:—

(Rs in lakh)

Name of Head	Schedule	Expenditure as per Income and Expenditure Account	Expenditure shown in the corresponding schedule	Difference
Establishment Expenses	15	207.37	209.17	-1.80
Other Administrative Expenses	16	19.13	17.33	1.80

This discrepancy needs reconciliation.

## AUDIT REPORT, 2001-02

**2.13 Receipts and Payment Account**

2.13.1 'Plan' and 'Non Plan' receipts/ payments were not reflected distinctly in the Receipts and Payments Account. In order to avoid mix-up of transactions, 'Plan' and 'Non Plan' items should be exhibited distinctly in the Receipts and Payments Account.

2.13.2 Bank Statement(s) disclosed that amount of Rs 11.13 lakh was transferred by the bank on 12.11.2001 as per advice of the University. However, the amount was wrongly debited in the Cash Book of Santiniketan main account instead of being credited. This resulted in overstatement of liabilities ('Deposit and Advance') and assets ('Cash at bank') Rs. 22.26 lakh.

**2.14 Utilisation of Grants**

2.14.1 Specific purpose grants received from different sources during 2001-02 was not reflected correctly in the 'Statement showing Utilisation of grants', resulting in differences with the Receipts and Payments Account (Non-Revenue), as shown below:-

(Rs in Lakh)

Source of Grant	Grant as per Receipts and Payment Account (Non-Revenue)	Grants as per Statement of Utilisation of Grants	Difference excess(+)/ short(-)
University Grants Commission	617.93	618.14	-0.21
Government of India	71.87	70.64	1.23
Government of West Bengal	09.66	09.91	-0.25
Other Bodies	43.91	41.51	2.40
<b>TOTAL</b>	<b>743.37</b>	<b>740.20</b>	<b>3.17</b>

2.14.2 The University furnished Utilisation Certificate to the grant sanctioning authority (University Grants Commission) in July 2002 to the effect that entire Non-Plan maintenance grant for Rs. 3769.17 lakh had been utilised for the purposes for which it was sanctioned. However, as per Receipts and Payments Account (Revenue), unspent balance of Non-Plan Maintenance grant works out Rs 60.00 lakh (Closing Balance: Rs 231.98 lakh less Internal Receipts: Rs 171.98 lakh). Therefore, the certificate in support of utilisation of Non-Plan Maintenance grant for 2001-02 as furnished by the University was not correct.

**2.15 Bank Reconciliation Statement**

2.15.1 Scrutiny of Bank Reconciliation Statement as on 31<sup>st</sup> March 2002 in respect of Santiniketan main account revealed the following discrepancies that were awaiting adjustment/settlement:-

(Rs in Lakh)

Sl. No.	Particulars	More than but less than 3 years	More than 6 months	Up to 6 months	Total
1.	Deposited to bank but not credited by bank	0.00	1.35	208.67	210.02
2.	Credited in bank but not taken in Cash Book	0.00	0.75	0.88	1.63
3.	Debited by bank but not taken in Cash Book	0.00	0.00	0.17	0.17
4.	Cheques issued but not debited by bank	1.52	0.51	283.06	285.09

Records disclosed receipts in foreign currency amounting to US \$ 15 and £ 406 pertaining to the period March 1999 to March 2002. The amount remained unaccounted for as it was neither entered in the Cash Book nor credited by the Bank till 31<sup>st</sup> March 2002.

## AUDIT REPORT, 2001-02

**2.15.2** Cash Book of Publishing Department exhibited 'Nil' balance in respect of State Bank of India, Park Street Branch while the bank statements disclosed a balance of Rs 0.57 lakh as on 31<sup>st</sup> March 2002. The University did not prepare Bank Reconciliation Statement for reconciliation of the difference.

**2.16 General**

**2.16.1** Despite mention in previous years' Audit Report, the University prepared its annual accounts mainly on cash basis except Provident Fund Accounts, which is maintained on accrual basis. The system of accounting is required to be on accrual basis so that Income and Expenditure Accounts and Balance Sheet make a meaningful depiction of true and fair view of the financial position of the University.

**2.16.2** The University did not prepare Consolidated Income and Expenditure Account and Consolidated Receipts and Payments Accounts. Previous year's figures were also not indicated in the Consolidated Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March 2002. The Consolidated Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March 2002 exhibited sum total of the assets and liabilities of all the sub-accounts. However, internal adjustments between different sub-accounts were not taken into consideration in the Consolidated Balance Sheet. The University is advised to prepare a complete set of consolidated accounts exhibiting consolidated figures with linked schedules, as per the Common Format of Accounts for Central Autonomous Bodies, so that the financial position of the University as whole is available at a glance.

**2.17 Effect of audit comments on Balance Sheet and Income and Expenditure Account**

The net impact of the comments given in preceding paras is that assets as on 31<sup>st</sup> March 2002 were overstated by Rs 18.42 lakh, liabilities overstated by Rs 12.23 lakh and 'Excess of Income over Expenditure' for the year understated by Rs 0.82 lakh.

**2.18 Non receipt of reply**

The draft audit report was issued to the University on 28.04.2003 for replies/comments. But the University did not furnish their within the stipulated period.

**2.19** Though Balance Sheet (PSV) as at 31<sup>st</sup> March 2002 and Income & Expenditure Account (PSV) for the year 2001-02 referred to Schedule 1 and 8 respectively, those schedules were not printed. Similarly, schedule 1, though referred to in Balance Sheet (PSB) as at 31.03.2002, the same was not printed.

Place: Kolkata  
Date: 18.09.2003

Sd/-  
(SHANTANU BASU)  
Pr. Director of Audit  
Central: Kolkata

I. Statement showing Utilisation of RECURRING Grants (Santiniketan) received from the U.G.C./Union and other Bodies during the year 2001-2002

Sl. No.	Opening Balance	Name of the Funding Authority	Letter No.	Grant received during 2001-2002	Total Grants received	Expenditure during the year 2001-2002	Unspent Balance 2001-2002	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p><b>I. (-) 1,42,000.64 UGC:</b></p> <p><b>BLOCK MAINTENANCE GRANTS</b></p> <p><b>FOR THE YEAR 2001-2002</b></p>								
			F21-10/99(CU) Dt. 31.3.2001	9,58,50,000.00				University has received total Block (maintenance) Grants for the Year 2001-2002:—
			F21-10/2000(CU) Dt. 31.3.2001	2,00,00,000.00				Grants Received:- 37,69,17,000.00
			F21-10/2001(CU) Dt. 30.7.2001	6,39,00,000.00				Opening Balance:- (-)1,42,000.64
								<b>TOTAL</b> 37,67,74,999.36
			F21-10/2001(CU) Dt. 9.8.2001	12,77,99,000.00				University Internal Receipt and
			F21-10/2001(CU) Dt. 28.12.2001	6,53,89,000.00				Other Receipts 1,71,97,700.68
								<b>Total Receipts</b> 39,39,72,700.04
			F21-10/2001(CU) Dt. 8.2.2002	39,79,000.00				<b>Total Expenditure:</b> 37,07,74,620.85
				37,69,17,000.00	37,67,74,999.36	35,35,76,920.17	(+) 2,31,98,079.19	(+) 2,31,98,079.19

# VISVA-BHARATI SANTINIKETAN

## I. Statement showing Utilisation of RECURRING Grants (Santiniketan) received from the U.G.C./Union and other Bodies during the year 2001-2002

Sl. No.	Opening Balance	Name of the Funding Authority	Letter No.	Grant received during 2001-2002	Total Grants received	Expenditure during the year 2001-2002	Unspent Balance 2001-2002	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

UGC:  
BLOCK MAINTENANCE  
GRANTS FOR THE YEAR 2001-2002


Total Revenue Expenditure 37,07,74,620.85

Less: University Internal and other Receipts (-) 1,71,97,700.68

\*\* Total Revenue Expenditure Out of Maintenance (Block) Grants 2001-2002 35,35,76,920.17

Certified that the Grants received by the University from the University Grants Commission / Union and other State Governments during the year 2001-2002 have actually been credited to the Accounts of the University. It is further certified that the Grants have been utilised for the purpose for which these were sanctioned in accordance with the Rules and Conditions attached to the


  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

  
Finance Officer  
Visva-Bharati


  
Registrar  
Visva-Bharati

**VISVA - BHARATI**  
**CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2002**

CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Santiketan	Sriniketan	Sriniketan	Silpa-Sadana	Nippon Bhavan	Granthan Bivag	Music Board	Current Year
	Rs	PSV Rs	PSB Rs			Rs	Rs	
CORPUS/CAPITAL FUND	3,351,690			16,3592				3,515,282
BLOCK CAPITAL FUND	279,201,829	13,563,047	17,941,486	101,500	2,474,321	2319635		315,601,818
RESERVES AND SURPLUS	86,089,576			76,523	3,919,573	52703354	5495132	148,284,158
ENDMET FUND	11,884,715						1515000	13,399,715
BENEVOLENT FUND	6,413,502							6,413,502
DEVULP FUND	66,888,559		904,166					67,792,725
EDUCARE PROJECT FUND	15,260,053	331,497	844,796					16,436,346
OSPRO FUND	5,358,434	540,705	1,019,330					6,918,469
SPACT FUND	1,229,485		985,318					2,214,803
FLOW FUND	823,263		58,015					881,278
SELFIN SCHEME FUND	1900729							1,900,729
DEPOSITS AND ADVANCES	19,352,800	9,863,098	827,190	9,423,374	99,470	2642784	5132007	47,340,723
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	1,769,342	45,388	472,887	26,281		22130954		24,444,852
<b>TOTAL</b>	<b>499,523,977</b>	<b>24,343,735</b>	<b>23,053,188</b>	<b>9,791,270</b>	<b>6,493,364</b>	<b>79,796,727</b>	<b>12,142,139</b>	<b>655,144,400</b>
<b>ASSETS</b>								
FIXED ASSETS	279,201,829	13,563,047	17,941,486	101,500	2,474,321	21,283,226	87,783	334,653,192
INVESTMENTS - FROM ENDOWMENT FUNDS	6,724,314							6,724,314
INVESTMENTS - OTHERS	42,738,057				1,095,750	5,931,948	11,403,770	61,169,525
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	170,859,777	10,780,688	5,111,702	9,689,770	2,923,293	52,581,553	650,586	252,597,369
<b>TOTAL</b>	<b>499,523,977</b>	<b>24,343,735</b>	<b>23,053,188</b>	<b>9,791,270</b>	<b>6,493,364</b>	<b>79,796,727</b>	<b>12,142,139</b>	<b>655,144,400</b>

  
 Sd/-  
 Finance Officer  
 Visva-Bharati

  
 Registrar  
 Visva-Bharati

  
 Accounts Officer  
 Visva-Bharati

**VISVA BHARATI**


SANTINIKETAN

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2002

(Amount - Rs.)		Schedule	Current Year	Previous Year
CAPITAL FUND AND LIABILITIES				
CORPUS/CAPITAL FUND		1	3,351,690	3,753,410
BLOCK CAPITAL FUND		2	279,201,829	232,492,169
RESERVES AND SURPLUS		3	86,089,576	62,117,214
ENDOWMENT (ENDMET) FUND		4	11,884,715	11,275,072
BENEVOLENT FUND		5	6,413,502	5,959,269
DEVELOPMENT UNDER PLAN (DEVLP) FUND		6	66,888,559	66,219,335
GOVT SPONSORED EDUCATIONAL & RESEARCH ( EDUCARE) PROJECT FUND		7	15,260,053	9,527,331
OTHER SPONSORED PROJECT (OSPRO) FUND		8	5,358,434	2,231,974
SPONSORED ACTIVITIES ( SPACT) FUND		9	1,229,485	-493,772
FELLOWSHIP (FLOW) FUND		10	825,263	1,274,449
SELF-FINANCING (SELFIN) SCHEME FUND		11	1,900,729	
DEPOSITS AND ADVANCES		12	19,352,800	15,264,234
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		13	1,769,342	1,126,381
<b>TOTAL</b>			<b>499,523,977</b>	<b>410,747,066</b>
<b>ASSETS</b>				
FIXED ASSETS		14	279,201,829	232,492,169
INVESTMENTS - FROM ENDOWMENT (CORPUS) FUNDS		15	6,724,314	6,762,174
INVESTMENTS - OTHERS		16	42,738,057	38,405,472
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.		17	170,859,777	133,087,250
<b>TOTAL</b>			<b>499,523,977</b>	<b>410,747,066</b>

  
Registrar  
Visva-Bharati

  
Finance Officer  
Visva-Bharati

  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

**VISVA BHARATI**  
**SANTINIKETAN**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2002**

(Amount - Rs.)		Current Year	Previous Year
<b>SCHEDULE 1.</b>			
<b>CORPUS/CAPITAL FUND</b>			
<b>(ANNEXURE "A" )</b>			
a) <u>Opening balance of the funds</u>		3,753,410	3,655,733
b) <u>Additions to the funds:</u>			
i. Donations / grants			
ii. Income from investments made on account of funds		104,341	97,677
iii. Other additions (specify nature)			
<b>TOTAL : (a+b)</b>		<b>3,857,751</b>	<b>3,753,410</b>
<b>c) <u>Utilisation/Expenditure towards objectives of funds</u></b>			
i. <u>Capital Expenditure</u>			
ii. <u>Revenue Expenditure</u>		506,061	
<b>TOTAL : (c)</b>		<b>506,061</b>	
<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)</b>		<b>3,351,690</b>	<b>3,753,410</b>
<b>SCHEDULE - 2 (ANNEXURE "B" )</b>			
<b>BLOCK CAPITAL FUND</b>			
Balance as at the beginning of the year		232,492,169	210,163,465
Addition during the year		46,714,167	22,328,704
Deduction during the year		4,507	
<b>BALANCE AS AT THE YEAR - END</b>		<b>279,201,829</b>	<b>232,492,169</b>

*Satish Chandra*  
Accounts Officer  
Visva-Bharati



**VISVA BHARATI**  
SANTINIKETAN

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2002**

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 3. (ANNEXURE "C") RESERVES & SURPLUS		Current Year	Previous Year
<b>1. DEPRECIATION RESERVE FUND</b>			
Opening Balance of the Fund		779,954	549,647
Addition during the financial year			
Interest on Investment		52,534	230,307
Deduction during the financial year			
<b>BALANCE AS AT THE YEAR - END</b>	<b>•</b>	<b>832,488</b>	<b>779,954</b>
<b>2. REVOLVING FUND FOR H.B. ADVANCE</b>			
Opening Balance of the Fund		25,390,000	18,890,000
Addition during the financial year		5,000,000	6,500,000
Deduction during the financial year			
<b>BALANCE AS AT THE YEAR - END</b>		<b>30,390,000</b>	<b>25,390,000</b>
<b>3. Revenue Reserve :</b>			
Opening Balance of the Fund		244,788	13,381,295
Addition during the financial year		23,659,550	
Deduction during the financial year		5,375	13,136,507
<b>BALANCE AS AT THE YEAR - END</b>		<b>23,898,963</b>	<b>244,788</b>
<b>4. Pension Eligibility Reserve Fund :</b>			
Opening Balance of the Fund		17,335,209	17,335,209
Addition during the year		512,990	
Deduction during the year		6,031,589	
<b>BALANCE AS AT THE YEAR - END</b>		<b>11,816,610</b>	<b>17,335,209</b>

Accounts Officer  
Visva-Bharati


## VISVA BHARATI

SANTINIKETAN

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2002

(Amount - Rs.)

	Current Year	Previous Year
<b>5. Granthana-Vibhaga Reserve Fund :</b>		
Opening Balance of the Fund	18,235,335	18,235,335
Addition during the year	3,124,819	
Deduction during the year	2,346,627	
<b>BALANCE AS AT THE YEAR - END</b>	<b>19,013,527</b>	<b>18,235,335</b>
<b>6. Silpa-Sadana Reserve Fund :</b>		
Opening Balance of the Fund	106,548	106,548
Addition during the year	3,871	
Deduction during the year		
<b>BALANCE AS AT THE YEAR - END</b>	<b>110,419</b>	<b>106,548</b>
<b>7. Music Board Reserve Fund :</b>		
As per last Account	25,380	25,380
Addition during the year	2,189	
Deduction during the year		
<b>BALANCE AS AT THE YEAR - END</b>	<b>27,569</b>	<b>25,380</b>
<b>TOTAL</b>	<b>86,089,576</b>	<b>62,117,214</b>
<b>SCHEDULE 4. (ANNEXURE "D")</b>		
<b>ENDOWMENT ("ENDMET") FUNDS</b>		
a) Opening balance of the funds	11,275,072	6,737,974
b) Additions to the funds :		
i. Donations / grants	50,000	
ii. Net Accumulated Investment Income	744,622	4,512,898
(Detailed Breakup as per Annexure)		
iii. Other additions (Fund transferred)	32,786	24,200
<b>TOTAL : (a+b)</b>	<b>12,102,480</b>	<b>11,275,072</b>

  
 Accounts Officer  
 Visva-Bharati

**VISVA BHARATI**  
SANTINIKETAN

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2002**

(Amount in Rs.)		
	Current Year	Previous Year
Disbursement during the year	97,352	
Transfer to Benevolent Fund	120,413	
<b>TOTAL : (c)</b>	<b>217,765</b>	
<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)</b>	<b>11,884,715</b>	<b>11,275,072</b>
<b>SCHEDULE 5. (ANNEXURE "E")</b>		
<b>BENEVOLENT FUND</b>		
a) Opening balance of the funds	5,959,269	3,682,817
b) Additions to the funds:		
i. Donations / grants		14,595
ii. Accumulated Income from investments	374,605	2,261,857
iii. Other additions (specify nature)	120,413	
<b>TOTAL : (a+b)</b>	<b>6,454,287</b>	<b>5,959,269</b>
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds		
i. Capital Expenditure		
ii. Revenue Expenditure	10,000	
iii. Transfer to Endowment Fund	30,785	
<b>TOTAL : (c)</b>	<b>40,785</b>	
<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)</b>	<b>6,413,502</b>	<b>5,959,269</b>

*Sat-Bharati*  
Accounts Officer  
Visva Bharati

**VISVA BHARATI**

SANTINIKETAN

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2002**

(Amount - Rs.)		Current Year	Previous Year
<b>SCHEDULE 6: (ANNEXURE "F")</b>			
<b>DEVELOPMENT UNDER PLAN ("DEVLU") FUND</b>			
a) Opening balance of the funds		66,219,335	41,314,778
b) Additions to the funds:			
i. Grants received during the year		55,800,000	
ii. Income from investments		43,100	1,136,087
iii. Other additions (specify nature)			23,768,470
<b>TOTAL: (a+b)</b>		<b>122,062,435</b>	<b>66,219,335</b>
<b>c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds</b>			
<b>i. Capital Expenditure</b>			
- Fixed Assets		42,342,671	
- Others			
<b>Total</b>		<b>42,342,671</b>	
<b>ii. Revenue Expenditure</b>			
- Salaries, Wages and allowances etc.		9,701,019	
- Rent			
- Other Administrative expenses		1,000,000	
- Transfer to Spact Fund		2,130,186	
<b>Total</b>		<b>12,831,205</b>	
<b>TOTAL: (c)</b>		<b>55,173,876</b>	
<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)</b>		<b>66,888,559</b>	<b>66,219,335</b>
<b>SCHEDULE 7: (ANNEXURE "G")</b>			
<b>GOVT SPONSORED EDUCATIONAL &amp; RESEARCH ("EDUCARE") PROJECT FUND</b>			
a) Opening balance of the funds		9,527,331	
b) Additions to the funds:			
i. Grants received during the year		11,918,532	
ii. Income from investments made on account of funds			
iii. Other additions		1,776,310	9,527,331
<b>TOTAL: (a+b)</b>		<b>23,222,173</b>	<b>9,527,331</b>

*Sd/- C. K. Chakraborty*  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

## VISVA BHARATI

SANTINIKETAN

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2002

(Amount - Rs.)


c) <u>Utilisation/Expenditure towards objectives of funds</u>	Current Year	Previous Year
	7,962,120	
<b>TOTAL : (c)</b>	<b>7,962,120</b>	
<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)</b>	<b>15,260,053</b>	<b>9,527,331</b>
<b>SCHEDULE 8. (ANNEXURE "H")</b>		
<b>OTHER SPONSORED PROJECT ("OSPRO") FUND</b>		
a) <u>Opening balance of the funds</u>	2,231,974	3,643,395
b) <u>Additions to the funds during the year:</u>	4,945,213	806,826
c) <u>Utilisation during the year</u>	1,818,753	2,218,247
<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)</b>	<b>5,358,434</b>	<b>2,231,974</b>
<b>SCHEDULE 9. (ANNEXURE "I")</b>		
<b>SPONSORED ACTIVITIES ("SPACT") FUND</b>		
a) <u>Opening balance of the funds</u>	-493,772	
b) <u>Additions to the funds:</u>		
i. Grants received during the year	6,959,448	
ii. Income from investments made on account of funds	2,130,186	
iii. Transfer from other Fund	5,700,205	
iv. Other additions		
<b>TOTAL : (a+b)</b>	<b>14,296,067</b>	
<b>c) <u>Utilisation/Expenditure towards objectives of funds</u></b>	<b>13,066,582</b>	<b>493,772</b>
<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)</b>	<b>1,229,485</b>	<b>-493,772</b>

*S. B. Bhatnagar*  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

**VISVA BHARATI**  
SANTINIKETAN

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2002**  
(Amount - Rs.)

SCHEDULE - 10. (ANNEXURE "J") FELLOWSHIP FLOW FUND		Current Year	Previous Year
a) Opening balance of the fund		1,274,449	297,735
b) Grants received during the year		504,944	1,699,248
c) Utilisation during the year		956,130	722,534
<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)</b>		<b>823,263</b>	<b>1,274,449</b>
SCHEDULE 11. (ANNEXURE "K") SELF-FINANCING ("SELF-FIN") SCHEME FUND			
a) <u>Opening balance of the funds</u>			
b) <u>Additions to the funds:</u>			
i. Income received during the year		2,651,643	
ii. Income from investments			
iii. Other additions (specify nature)			
<b>TOTAL : (a+b)</b>		<b>2,651,643</b>	
c) <u>Utilisation/Expenditure towards objectives of funds</u>		750,914	
<b>TOTAL : (c)</b>		<b>750,914</b>	
<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)</b>		<b>1,900,729</b>	

  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

**VISVA BHARATI**  
SANTINIKETAN

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2002**

(Amount - Rs.)		
	Current Year	Previous Year
<b>SCHEDULE 12.</b>		
<b>DEPOSITS AND ADVANCES</b>		
1. Central Government	---	---
2. State Government	---	---
3. Financial Institutions	---	---
4. Banks		
a) Term Loans	---	---
b) Other Loans (Specify)	---	---
5. Other Institutions and Agencies	---	---
6. Debentures and Bonds	---	---
7. Fixed Deposits	---	---
8. Others (Sundry Deposits)	19,352,800	15,264,234
<b>TOTAL</b>	<b>19,352,800</b>	<b>15,264,234</b>
<b>SCHEDULE 13. (ANNEXURE "L")</b>		
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>		
<b>A. CURRENT LIABILITIES</b>		
1. Undisbursed Scholarships/Stipends	345,043	226,337
2.		
3. Statutory Liabilities :		
a) Overdue	---	
b) Others	---	---
4. Other Current Liabilities	1,424,299	900,044
<b>TOTAL (A)</b>	<b>1,769,342</b>	<b>1,126,381</b>

*gshetty*  
Accounts Officer  
Visva-Bharati







**VISVA BHARATI**  
SANTINIKETAN

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2002**

<b>SCHEDULE 16 - INVESTMENTS - OTHERS (ANNEXURE "M")</b>		<b>(Amount - Rs.)</b>	
		<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
1. In Government Securities			
2. Other approved Securities			
3. Shares (in Joint Stock Company)		9,000	9,000
4. Debentures and Bonds			
5. Subsidiaries and Joint Ventures			
6. Others (specified)			
	a) Postal Savings Bank	20,203	20,203
	b) Bank of India Certificate	3,575	3,575
	c) Fixed Deposit with Co-Operative Bank	7,936	7,936
	d) Fixed Deposit with State Bank of India	42,697,343	38,364,758
<b>TOTAL</b>		<b>42,738,057</b>	<b>38,405,472</b>

<b>SCHEDULE 17 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (ANNEXURE "N")</b>		<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
<b>A. CURRENT ASSETS</b>			
1. Inventories:			
a) Stores and Spares		3,698,867	2,797,708
b) Loose Tools			
c) Stock-in-trade			
Finished Good Work-in-progress			
Raw Materials			
2. Sundry Debtors:			
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months			
b) Others		17,530	161,780
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)		692,316	41,126
4. Bank Balances:			
a) With Scheduled Banks:			
- On Current Accounts			
- On Deposit Accounts (includes margin money)			
- On Savings Accounts			
b) With non-Scheduled Banks:			
- On Current Accounts			
- On Deposit Accounts			
- On Savings Accounts			
5. Post Office-Savings Accounts			
<b>TOTAL (A)</b>		<b>121,382,436</b>	<b>98,189,303</b>

*Sd/-*  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

## VISVA BHARATI

SANTINIKETAN

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2002

(Amount - Rs.)

B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS	Amount - Rs.	
	Current Year	Previous Year
1. <u>Loans:</u>		
a) Staff (HBA)	24,631,046	17,210,234
b) Other Entities engaged in activities / objectives similar to that of the Entity		
c) Others (specify) Adv(G) + Adv(R) + Festival Adv.	23,399,946	16,926,768
2. <u>Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:</u>		
a) On Capital Account		
b) Prepayments	483,457	483,457
c) Others (Suspense)		
3. <u>Income Accrued:</u>		
a) On Investments from Earmarked / Endowment Funds		
b) On Investments - Others		
c) On Loans and Advances		
d) Others (Student Fees)	962,892	760,945
(includes income due unrealised Rs. ....)		
4. <u>Claims Receivable</u>		
<b>TOTAL (B)</b>	49,477,341	34,897,947
<b>TOTAL (A+B)</b>	170,859,777	133,087,250

Sd/-  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

**V. J. S. V. A. - B H A R A T I**  
**S A N T I N I K E T A N**

**ANNEXURE - 'A' TO SCHEDULE - I**

**CORPUS / CAPITAL FUND :**

S.B.I., Donation (Inv.)	Rs. P.
	2,030,762.00
U.G.C. Matching Grant	125,000.00
Lapse Deposit Fund (Inv.)	1,048,323.47
Centenary Fund	130,684.03
Sundry Donations	292,020.73
Arup Sarkar Ananda Bazar Patrika	28,943.75
Opening Balance : 2000-2001 :	<u>3,655,733.98</u>
Addition : Income from Inv. Lapse Deposit Fund	97,677.40
Opening Balance : 2001 - 2002 :	<u>3,753,411.38</u>
Addition : Income from Inv. Lapse Deposit Fund	104,340.68
	<u>3,857,752.06</u>
Expenditure during the year	- 506,061.00
Closing Balance : 2001-2002	<u>3,351,691.06</u>

  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

VISVA - BHARATI  
SANTINIKETAN

## ANNEXURE-'B' TO SCHEDULE-2

## BLOCK CAPITAL FUND: BLOCK ASSETS : 2001-2002

	Opening Balance		Addition		Deduction		Total Balance		Assets acquired during 2001-02 from the following grants	
	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
1) Land	2,585,826.21		—		—		2,585,826.21			
2) Building	104,114,733.98		21,830,363.78		—		125,945,097.76		Maintenance Grant : 4,371,496.61	
3) Water Supply	5,768,392.49		—		—		5,768,392.49			
4) Electric Installation	1,329,348.78		4,391.00		—		1,333,739.78			
5) Boundary Wall & Fencing	1,156,433.53		287,984.00		—		1,444,417.53			
6) Roads & Culverts	1,676,181.82		—		—		1,676,181.82		Dev. Fund :	42,342,670.66
7) Swimming Pools	8,499.61		—		—		8,499.61			
8) Machinery & Plants	12,384,634.10		99,435.00		—		12,484,069.10			
9) X-Ray / Cardigraphy	350,756.48		—		—		350,756.48			
10) Clinical Equipments	21,725.48		—		—		21,725.48			
11) Motor / Bus / Cycles etc.	1,686,396.26		—		—		1,686,396.26			
12) Furniture & Equipments	40,801,319.03		17,341,809.14		—		58,143,128.17			
13) Scientific Lab. Equipments & Furniture	18,428,609.03		748,646.00		—		19,177,255.03			
14) Types & Cases for Press	381,650.80		—		—		381,650.80			
15) Library Books & M.S.S.	41,602,337.28		6,401,538.35		4,506.65		47,999,368.98			
16) Paintings / Images & Relics	70,324.43		—		—		70,324.43			
17) Copy Right	125,000.00		—		—		125,000.00			
	232,492,169.31		46,714,167.27		4,506.65		279,201,829.93			46,714,167.27

Sd/- *Account Officer*  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

VISVA - BHARATI  
SANTINIKETAN

**ANNEXURE 'C' TO SCHEDULE - 3**

**RESERVES & SURPLUS:**

**1) Depreciation Fund Reserve Fund:**

- a) Santiniketan Press - Depreciation Fund  
b) Vinoy-Bhavana Depreciation  
c) Depreciation General

Corpus	Current Year		Previous Year	
	Rs.	P.	Rs.	P.
	64,977.00		78,646.00	
	31,729.00		87,615.00	
	452,941.00		666,227.00	
	<b>549,647.00</b>		<b>832,488.00</b>	
				<b>779,954.00</b>

**2) Revolving Fund for House Building Advance:**

- Opening Balance  
Addition during the Financial Year

25,390,000.00	18,890,000.00
5,000,000.00	6,500,000.00
<b>30,390,000.00</b>	<b>25,390,000.00</b>

**3) Revenue Reserve:**

- Opening Balance  
Excess of Income

13,189,824.00
323,088.00

- Less: Loss in Refectories

<b>13,512,912.00</b>
201,333.00

- Add: V.C.'s Discretionary Fund

<b>13,311,579.00</b>
----------------------

- Fees from Doordarshan

53.00
-------

- Less: Excess of Expenditure over Income  
Closing Balance

69,664.00
-----------

<b>13,381,296.00</b>
----------------------

13,136,508.00
---------------

<b>244,788.00</b>
-------------------

- Opening Balance:

244,788.00
------------

- Add: Excess of Income

23,659,550.00
---------------

<b>23,904,338.00</b>
----------------------

5,375.00
----------

<b>23,898,963.00</b>
----------------------

- Less: Expenditure on fees from Doordarshan (Rs. 69,664.00-Rs. 64,289.00)

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

**ANNEXURE 'C' TO SCHEDULE - 3 (contd.)**

- 4) Pension Eligibility Reserve Fund:  
 5) Granthana-Vibhaga Reserve Fund:  
 6) Silpat-Sadana Reserve Fund:  
 7) Musik Board Reserve Fund:

**Total of (1 to 7) Revenue Reserve:**

Current Year		Previous Year	
Rs.	P.	Rs.	P.
11,816,610.00		17,335,209.00	
19,013,527.00		18,235,335.00	
110,419.00		106,548.00	
27,569.00		25,380.00	
30,968,125.00		35,702,472.00	
86,089,576.00		62,117,214.00	

*Signature*  
Sd/-

Accounts Officer  
Visva-Bharati

**VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN**

**ANNEXURE "D" to ENDOWMENT FUND Schedule No. 4**

**CONSOLIDATED STATEMENT ON ENDOWMENT FUND**

Sr. No.	Corpus	Investment	Accumulated Interest on 1.4.2001	Interest Earned during the year	Disbursement during the year	Accumulated Interest on 31.3.2002	Fund on 31.3.2002
	A.	B.	C.	D.	E.	F. (C+D-E)	G. (A+F)
1	29,970.44	29,970.40	78,140.86	4,994.33		83,135.19	113,105.63
2	7,028.89	7,028.14	15,517.44	839.89	160.00	16,197.33	23,226.22
3	15,481.00	15,481.00	45,762.15	2,208.79		47,970.94	63,451.94
4	500.00	500.00	1,068.50	140.00		1,208.50	1,708.50
5	15,990.00	15,990.00	32,414.77	1,839.80		34,254.57	50,244.57
6	1,600.00	1,600.00	1,762.59	190.50		1,953.09	3,553.09
7	1,450.00	1,450.00	2,286.16	156.72		2,442.88	3,892.88
8	16,531.98	16,541.98	3,964.76	1,985.04	1,000.00	4,949.80	21,481.78
9	1,250.00	1,250.00	2,892.05	205.85		3,097.90	4,347.90
10	35,000.26	35,000.26	34,533.13	4,543.37		39,076.50	74,076.76
11	3,602.95	3,602.95	5,979.76	396.61		6,376.37	9,979.32
12	520.00	520.00	609.63	58.65	25.00	643.28	1,163.28
13	525.00	525.00	467.52	62.40		529.92	1,054.92
14	2,100.00	2,100.00	3,587.94	249.48		3,837.42	5,937.42
15	557,801.68	557,801.31	281,546.15	62,476.48	12,688.00	331,334.63	889,136.31
16	317,522.10	317,522.31	677,361.69	50,293.63		727,655.32	1,045,177.42
17	3,000.00	3,000.00	2,475.86	360.00	270.00	2,565.86	5,565.86
18	2,007.25	2,000.00	6,424.84	360.00		6,784.84	8,792.09
19	1,000.00	1,000.00	3,143.93	80.50		3,224.43	4,224.43
20	2,500.00	2,500.00	6,684.82	200.25		6,885.07	9,385.57
21	1,000.00	1,000.00	1,121.42	80.50	100.00	1,101.92	2,101.92
22	1,000.00	1,000.00	1,613.82	80.50	100.00	1,594.32	2,594.32
23	2,152.00	2,152.00	2,165.22	172.17	105.00	2,232.39	4,384.39
24	21,449.75	21,449.75	61,575.76	2,573.96		64,149.72	85,599.47
26	2,644.27	2,644.00	2,596.03	418.22	259.00	2,755.25	5,399.52
27	949.52	949.52	1,401.93	113.95		1,515.88	2,465.40
28	48,000.00	48,000.00	20,173.31	5,240.00	3,224.00	22,189.31	70,189.31



VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

## ANNEXURE "D" to ENDOWMENT FUND Schedule No. 4

## CONSOLIDATED STATEMENT ON ENDOWMENT FUND

Sr. No.	Corpus	Investment	Accumulated Interest on 1.4.2001	Interest Earned during the year	Disbursement during the year	Accumulated Interest on 31.3.2002	Fund on 31.3.2002
	A.	B.	C.	D.	E.	F. (C+D-E)	G. (A+F)
29	2,141.00	2,141.00	6,855.73	228.09		7,083.82	9,224.82
30	5,000.00	5,000.00	16,922.84	901.67		17,824.51	22,824.51
31	2,125.00	2,125.00	5,706.79	305.00		6,011.79	8,136.79
32	1,000.00	1,000.00	3,422.05	105.00		3,527.05	4,527.05
33	5,025.57	5,025.00	5,377.35	902.40		6,279.75	11,305.32
34	610.41	610.00		58.00		58.00	668.41
35	1,224.09	1,224.00	938.00	148.00		1,086.00	2,310.09
36	1,605.00	1,605.00	4,172.27	288.45		4,460.72	6,065.72
37	530.00	530.00	970.27	74.80		1,045.07	1,575.07
38	40,031.50	40,031.00	11,219.88	4,402.96	2,486.50	13,136.34	53,167.84
39	3,160.00	3,160.00	6,962.63	379.20		7,341.83	10,501.83
40	1,000.00	1,000.00	2,544.79	115.00		2,659.79	3,659.79
41	5,568.00	5,568.00	8,102.14	668.16		8,770.30	14,338.30
42	2,000.00	2,000.00	1,381.41	205.00		1,586.41	3,586.41
43	142,204.00	142,204.00	218,494.40	23,482.32		241,976.72	384,180.72
44	7,400.30	7,400.30	12,919.78	425.76		13,345.54	20,745.84
45	500.00	500.00	429.79	90.00	45.00	474.79	974.79
46	35,000.00	35,000.00	11,819.03	4,700.00	2,188.50	14,330.53	49,330.53
47	535.00	535.00	1,413.16	93.57		1,506.73	2,041.73
48	15,000.00	15,000.00	40,248.00	2,700.00		42,948.00	57,948.00
49	10,000.00	10,000.00	15,803.02	1,800.00		17,603.02	27,603.02
50	3,373.87	3,373.87	7,676.19	303.62		7,979.81	11,353.68
51	2,000.00	2,000.00	3,468.28	240.00		3,708.28	5,708.28
52	25,000.00	25,000.00	27,052.92	4,483.33		31,536.25	56,536.25
53	12,000.00	12,000.00	17,054.50	1,440.00		18,494.50	30,494.50
54	300.00	300.00	-986.11	36.00		-950.11	-650.11
55	5,400.00	5,400.00	4,485.25	581.74		5,066.99	10,466.99

**VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN**

**ANNEXURE "D" to ENDOWMENT FUND Schedule No. 4**

**CONSOLIDATED STATEMENT ON ENDOWMENT FUND**

Sr. No.	Corpus	Investment	Accumulated Interest on 1.4.2001	Interest Earned during the year	Disbursement during the year	Accumulated Interest on 31.3.2002	Fund on 31.3.2002
	A.	B.	C.	D.	E.	F. (C+D-E)	G. (A+F)
56	50,000.00	50,000.00	80,900.47	4,312.50		85,212.97	135,212.97
57	20,237.90	20,237.90	7,925.24	1,753.55	4,500.00	5,178.79	25,416.69
58	1,500.00	1,500.00	1,327.89	144.00		1,471.89	2,971.89
59	30,000.00	30,000.00	3,124.67	4,600.00	2,205.00	5,519.67	35,519.67
60	3,500.00	3,500.00	8,601.75	630.00		9,231.75	12,731.75
61	15,000.00	15,000.00	34,127.50	1,800.00		35,927.50	50,927.50
62	2,000.00	2,000.00	2,923.25	240.00		3,163.25	5,163.25
63	2,000.00	2,000.00	3,042.12	240.00	90.00	3,192.12	5,192.12
64	12,000.00	12,000.00	19,966.00	2,164.00		22,130.00	34,130.00
65	4,000.00	4,000.00	5,661.23	480.00		6,141.23	10,141.23
66			5,972.42			5,972.42	5,972.42
67	1,000.00	1,000.00	629.73	120.00	100.00	649.73	1,649.73
68	300.00	300.00	87.55	54.00		141.55	441.55
69	12,000.00	12,000.00	4,893.00	2,640.00	1,200.00	6,333.00	18,333.00
70	75,000.00	75,000.00	24,573.54	8,788.40		33,361.94	108,361.94
71	10,000.00	10,000.00	13,315.95	1,800.00		15,115.95	25,115.95
72	3,000.00	3,000.00	1,708.00	631.50		2,339.50	5,339.50
73	500.00	500.00	461.30	90.00		551.30	1,051.30
74	12,135.35	12,135.00	19,493.99	1,456.20		20,950.19	33,085.54
75	1,001.00	1,001.00	390.90	86.34		477.24	1,478.24
76	31,073.00	31,073.00	15,052.39	3,728.57	2,400.00	16,380.96	47,453.96
77	1,000.00	1,000.00	880.00	180.00	100.00	960.00	1,960.00
78	5,000.00	5,000.00	3,010.17	600.00		3,610.17	8,610.17
79	300.00	300.00	171.65	36.00		207.65	507.65
80	140,001.00	140,001.00	85,495.02	16,300.11		101,795.13	241,796.13
81	5,000.00	5,000.00	7,418.28	500.00		7,918.28	12,918.28
82	10,000.00	10,000.00	4,399.32	1,200.00		5,599.32	15,599.32

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

## ANNEXURE "D" to ENDOWMENT FUND Schedule No. 4

## CONSOLIDATED STATEMENT ON ENDOWMENT FUND

Sr. No.	Corpus	Investment	Accumulated Interest		Interest Earned during the year	Disbursement during the year	Accumulated Interest		Fund on 31.3.2002
			on 1.4.2001	C			D.	E	
	A.	B.							
	15,000.00	15,000.00	6,600.73	1,700.00	1,792.00	6,508.73	21,508.73		
83	118 Sati Kumar Chatterji	3,500.00	4,836.17	420.00		5,256.17	8,756.17		
84	119 Soma Basu & Deepshika Mukherjee Endowment	1,235.00	664.01	148.20	40.00	772.21	2,007.21		
85	120 Anjan Sukla Smriti Puraskar	1,000.00	1,410.07	107.50		1,517.57	2,517.57		
86	121 Ashoke Kumar Ghosh Book Prize	2,000.00	2,820.14	215.00		3,035.14	5,035.14		
87	122 Himangshu Kumar Sen Book Prize	2,500.00	2,661.67	268.73		2,930.40	5,430.40		
88	123 Dhirendranath Dutta Endowment	10,000.00	5,082.69	1,075.00	500.00	5,657.69	15,657.69		
89	124 Women Mangesh Bhandari Memorial Prize	3,000.00	956.04	285.00	300.00	941.04	3,941.04		
90	125 Prabhabati Satish Chandra Sukul Endowment	3,000.00	2,605.74	285.00		2,890.74	5,890.74		
91	126 Nalini Motion Chakraborty Endowment	2,000.00	2,274.21	190.00		2,464.21	4,464.21		
92	127 Dayamoyee Binapani Endowment	101,838.00	94,114.68	14,433.79		108,548.47	210,386.47		
93	128 Ashalata Sen Endowment	12,000.00	14,422.00	1,440.00		15,862.00	27,862.00		
94	129 Urmilabala Sen Endowment	10,000.00	9,278.79	950.00		10,228.79	20,228.79		
95	130 Amalabala Devi Endowment	10,000.00	9,278.79	950.00		10,228.79	20,228.79		
96	131 Pratiba Devi Endowment	4,001.00	2,225.67	405.08		2,630.75	6,631.75		
97	133 Asis Sen Endowment	6,000.00	7,652.00	720.00		8,372.00	14,372.00		
98	134 History Dept. Silver Jubilee Endowment	2,000.00	2,526.00	360.67		2,886.67	4,886.67		
99	135 Nilkanta Smriti Endowment	4,000.00	3,121.33	480.00		3,601.33	7,601.33		
100	136 Sankar Dayal Sharma Endowment	20,000.00	9,888.67	2,475.00		12,363.67	32,363.67		
101	137 Lalit Kumar Majumder Endowment	2,001.00	1,360.80	215.10		1,575.90	3,576.90		
102	138 Haridas Banerjee Memorial Endowment	220,000.00	287,011.33	24,900.00		311,911.33	531,911.33		
103	139 Piyush Kanti Ghosh Memorial	3,000.00	1,239.00	322.50		1,561.50	4,561.50		
104	140 Surendra / Jitendra / Sarada Smriti Puraskar	5,000.00	6,264.67	537.50		6,802.17	11,802.17		
105	141 Patha-Bhavana Sahitya Puraskar	3,000.00	2,891.00	360.00		3,251.00	6,251.00		
106	142 Kamalmala Ghosh Memorial Book Prize	1,000.00	1,154.00	104.07		1,258.07	2,258.07		
107	143 Mahendra Kr. Ghosh Memorial Book Prize	1,000.00	1,154.00	75.00		1,229.00	2,229.00		
108	144 H.H.Sankaracharya Sarananda Ashrama Endow.	15,000.00	10,974.73	1,575.00		12,549.73	27,549.73		
	145 Dr. B.Gopal Reddy Rajlakshmi Endowment	25,000.00	28,758.33	3,000.00		31,758.33	56,758.33		

**VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN**

**ANNEXURE "D" to ENDOWMENT FUND Schedule No. 4**

**CONSOLIDATED STATEMENT ON ENDOWMENT FUND**

Sr. No.	Corpus	Investment	Accumulated Interest on 1.4.2001	Interest Earned during the year	Disbursement during the year	Accumulated Interest on 31.3.2002	Fund on 31.3.2002
	A.	B.	C.	D.	E.	F. (C+D-E)	G. (A+F)
109	12,000.00	12,000.00	13,036.67	1,200.00		14,236.67	26,236.67
110	40,000.00	40,000.00	39,550.96	3,800.00		43,350.96	83,350.96
111	30,000.00	30,000.00	30,605.00	5,380.00		35,985.00	65,985.00
112	3,000.00	3,000.00	2,083.00	322.50	25.00	2,380.50	5,380.50
113	50,000.00	50,000.00	43,108.00	6,250.00		49,358.00	99,358.00
114	30,000.00	30,000.00	24,571.00	3,750.00		28,321.00	58,321.00
115	15,000.00		14,965.11	1,425.00		16,390.11	31,390.11
116	10,000.00	10,000.00	7,842.00	1,250.00	1,600.00	7,492.00	17,492.00
117	3,500,000.00	3,500,000.00	1,460,884.20	351,250.00	31,791.00	1,780,343.20	5,280,343.20
118	20,000.00	20,000.00	12,945.00	2,050.00		14,995.00	34,995.00
119	10,000.00	10,000.00	6,737.50	1,000.00		7,737.50	17,737.50
120	15,000.00	15,000.00	7,226.55	750.00		7,976.55	22,976.55
121	18,000.00	18,000.00	12,330.00	1,822.50		14,152.50	32,152.50
122	100,000.00	100,000.00	15,735.00	10,125.00	10,264.00	15,596.00	115,596.00
123	10,000.00	10,000.00	4,091.11	1,000.00		5,091.11	15,091.11
124	40,000.00	40,000.00	20,250.00	4,000.00		24,250.00	64,250.00
125	70,000.00	70,000.00	38,612.86	8,050.00		46,662.86	116,662.86
126	70,000.00	70,000.00	38,612.86	4,025.00		42,637.86	112,637.86
127	10,000.00	10,000.00	4,562.50	1,000.00		5,562.50	15,562.50
128	2,000.00	2,000.00	830.00	200.00		1,030.00	3,030.00
129	100,000.00	100,000.00	28,042.00	11,500.00	15,344.00	24,198.00	124,198.00
130	10,000.00	10,000.00	879.50	862.50	1,000.00	742.00	10,742.00

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

## ANNEXURE "D" to ENDOWMENT FUND Schedule No. 4

## CONSOLIDATED STATEMENT ON ENDOWMENT FUND

Sr. No.	Corpus	Investment	Accumulated Interest on 1.4.2001	Interest Earned during the year	Disbursement during the year	Accumulated Interest on 31.3.2002	Fund on 31.3.2002
	A.	B.	C.	D.	E.	F. (C+D-E)	G. (A+F)
131 174 Thakur V. Hariprosad Fund for Dev. Proj. Career	17,180.00	17,180.00		1,632.08		1,632.08	18,812.08
132 175 Ashin Dasgupta Endowment	5,000.00	5,000.00	1,400.00	575.00	1,450.00	525.00	5,525.00
133 176 Late Jayanta Ch. Basu Mallick Endowment	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	120,000.00
134 177 Late Suhag Kumari Nahar	80,000.00	80,000.00	8,000.00	8,000.00		16,000.00	96,000.00
135 178 Santidev Smriti Sangit Protijogita Fund	20,000.00	20,000.00		1,900.00		1,900.00	21,900.00
136 179 Pravas Jiban Choudhury Endowment Fund	4,200.00	4,200.00		399.00		399.00	4,599.00
180 Karunamoyee Prize Fund	50,000.00					0.00	50,000.00
	6,789,314.08	6,724,313.69	4,448,129.02	744,621.55	97,352.00	5,095,398.57	11,884,712.65

  
 Accounts Officer  
 Visva-Bharati

**VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN**

**ANNEXURE "E" to BENEVOLENT FUND Schedule No. 5**

**CONSOLIDATED STATEMENT ON BENEVOLENT FUND**

Sr. No.	Corpus	Investment	Accumulated Interest on 1.4.2001	Interest Earned during the year	Disbursement during the year	Accumulated Interest on 31.3.2002	Fund on 31.3.2002
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1	20,203.47	20,203.47				0.00	20,203.47
2	8,422.50	8,422.50	18,379.57	971.21		19,350.78	27,773.28
3	2,800.00	2,800.00	7,612.63	304		7,916.63	10,716.63
4	1,410.00	1,410.00	2,137.57	169.2		2,306.77	3,716.77
5	4,535.00	4,535.00	2,579.14	539.68		3,118.82	7,653.82
6	26,250.00	26,250.00	46,850.92	3150		50,000.92	76,250.92
7	26,998.75	26,998.75	58,108.43	3059.09		61,167.52	88,166.27
8	7,811.50	7,811.50	16,873.33	896.29		17,769.62	25,581.12
9	16,100.75	16,100.75	34,902.92	1832.02		36,734.94	52,835.69
10	132,109.07	132,109.00	78,139.27	17818.22		95,957.49	228,066.56
11	19,653.50	19,653.50	47,926.20	2551.75		50,477.95	70,131.45
12	7,669.75	7,669.75	15,908.51	897.21		16,805.72	24,475.47
13	20,582.75	20,582.75	13,250.57	2206.07		15,456.64	36,039.39
14	2,044.27	2,044.27	5,262.12	237.81		5,499.93	7,544.20
15	2,315.00	2,315.00	3,870.30	289.8		4,160.10	6,475.10
16	56,514.00	56,514.00	1,039.52			1,039.52	1,039.52
17	2,049.86	2,049.00	200,507.05	6944.81		207,451.86	263,965.86
19	5,612.95	5,612.95	3,112.62	371.39		3,484.01	5,533.87
47	40,360.00	40,360.00	15,690.28	485.31		16,175.59	21,788.54
51	2,284.68	2,284.68	79,013.73	4,843.20		83,856.93	124,216.93
58	13,357.29	13,357.00	3,511.04	274.16		3,785.20	6,069.88
59	21,580.07	21,580.00	721.00	951.69		1,672.69	15,029.98
61	544,853.11	544,852.76	64,685.24	2588		67,273.24	88,853.31
63	3,575.00		272,334.58	61,007.12		333,341.70	878,194.81
65	150,517.52	150,517.02	9,693.58	3178		12,871.58	16,446.58
69	260,344.65	260,344.65	205,562.08	27157.72		232,719.80	383,237.32
70	44,916.39	44,916.00	428,058.70	33503.86	10000	451,562.56	711,907.21
			71,905.01	6376.44		78,281.45	123,197.84

**VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN**

**ANNEXURE "E" to BENEVOLENT FUND Schedule No. 5**

**CONSOLIDATED STATEMENT ON BENEVOLENT FUND**

Sr. No.	Corpus	Investment	Accumulated Interest on 1.4.2001	Interest Earned during the year	Disbursement during the year	Accumulated Interest on 31.3.2002	Fund on 31.3.2002
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
28	20,000.00	20,000.00	12,981.14	2200		15,181.14	35,181.14
29	20,000.00	20,000.00	9,673.25	1863		11,536.25	31,536.25
30	7,100.00	7,100.00	8,875.82	903.75		9,779.57	16,879.57
31	780,000.00	780,000.00	172,145.92	104614		276,759.92	1,056,759.92
32	162,500.00	162,500.00	255,726.36	20912		276,638.36	439,138.36
34	5,000.00	5,000.00	6,617.67	600		7,217.67	12,217.67
35	712,500.00	712,500.00	28.00			28.00	712,528.00
36	68,000.00	68,000.00	37,655.00	7140		44,795.00	112,795.00
37	300.00	300.00	36.00	18		54.00	354.00
38	500,000.00	500,000.00	117,250.00	53750		171,000.00	671,000.00
	<b>3,720,271.83</b>	<b>3,716,694.30</b>	<b>2,328,625.07</b>	<b>374,604.80</b>	<b>10,000.00</b>	<b>2,693,229.87</b>	<b>6,413,501.70</b>

*Accounts Officer*  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

## ANNEXURE E to DEVELOP FUND Schedule No. 6

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
Essential Staff Quarters outside 5th Plan	-106,276	-106,276		
Additional Construction of Mathematics Deptt. Building	-37,190	-37,190		
Development of Campus at Santiniketan	-7,631	-7,631		
Construction of Siksha-Bhavana Library Building	-737	-737		
Construction of Proposed Art Gallery	-14,694	-14,694		
Extension of Sangit-Bhavana	-1,041	-1,041		
Renovation & Improvement of Existing Hostel Facilities	-40,608	-40,608		
Construction of 100 seated Boys' Hostel (Old)	-5,000	-5,000		
Construction of Building for University Service Instrumentation Centre	-62,403	-62,403		
Construction of Additional Accommodation of Central Accounts Office	-438,260	-438,260		
Construction of Conference Hall	-927	-927		
Construction of 3 Passengers' Shed at Sriniketan	-43,094	-43,094		
Students' Welfare Refectories	-195,789	-195,789		
Construction of Addl. Physical Education Building	-1,437	-1,437		
-do- Workshop for Trainees at Silpa-Sadana	-94,567	-94,567		
Extension of Zoology Department	-5,000	-5,000		
Construction of Addl. Class Room for Chemistry Deptt.	-133,147	-133,147		
-do- Addl. Guest House (Old)	-17,591	-17,591		
-do- Garage for P.M. Hospital	-95,216	-95,216		
Construction of Watch & Ward Building	-10,670	-10,670		
-do- Addl. Class Room for Physics Department	-610	-610		
Extension of Rural Office & Library Building P.S.V.	-28,090	-28,090		
Construction of Cycle Shed for Administrative Building	-3,100	-3,100		
-do- Class Room for History of Arts Kala-Bhavana	-369,976	-369,976		
-do- 50 Seated Boys' Hostel at Sriniketan	-1,010	-1,010		
Construction of Music Class Room for Patha-Bhavana	-13,994	-13,994		
Extension of Library Building for Patha-Bhavana	-8,100	-8,100		
Development of Minalini Ananda Pathasala	-4,091	-4,091		
Construction of 100 Seated Boys' Hostel (New)	-354,446	-354,446		
-do- Class Room for P.S.B.	-1,912	-1,912		



VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

## ANNEXURE 'F' to DEVELOPMENT FUND Schedule No. 6

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
1st Floor of Conference Hall-Central Office	-739,740	-739,740		
100 Seated Girls' Hostel	-221,835	-221,835		
Vidya-Bhavana Office Building	0	0		
Extension of Science Laboratory for Patha-Bhavana	-5,841	-5,841		
Extension of Sangit-Bhavana	0	0		
Recreation Centre for Patha-Bhavana Boys' Hostel	-14,952	-14,952		
20 Seated Girls' Hostel at Vinaya-Bhavana	-7,972	-7,972		
L.S.S. Staff Quarters	-787,843	-787,843		
'C' Type Staff Quarters	-824,751	-824,751		
1st Floor of (Western Side) of Nava-Nalanda of Kala-Bhavana	-196,617	-196,617		
'B' Type Staff Quarters	-875,532	-875,532		
Purchase of Books—8th Plan (General)	-132,383	-132,383		
Purchase of Bus/Ambulance and Installation of E.P.A.B.X. under Campus Development (8th Plan)	-81,256	-81,256		
Purchase of Equipments & Furniture (8th Plan)	-49,994	-49,994		
Purchase of Built-up Houses for Staff Quarters	8,310	8,310		
Construction of Building for Computer Centre	22,860	22,860		
Additional Accommodation for School of Life Science	13,618	13,618		
Land Scape Architect & Master Plan	46,509	46,509		
Extension of Building for Rahindra-Bhavana Archives	48,536	48,536		
Construction of Class Room & Canteen—Vinay-Bhavana	23,149	23,149		
Extension of Chemistry Building	8,942	8,942		
Extension of Administrative Building for Santiniketan	45,989	45,989		
Construction of Patha-Bhavana Girls' Hostel (6th Plan)	38,245	38,245		
Extension of Dining Hall for Patha-Bhavana	268	268		
Extension and Improvement of Hostel Facilities	11,115	11,115		
Purchase of Pocket Land	328,298	328,298		
Medical Health Scheme (7th Plan)				
Equipment / X-Ray / Ambulance Service	19,541	19,541		

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

ANNEXURE F to DEVELOPMENT FUND Schedule No. 6

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
Additional Accommodation of Vidya-Bhavana in the Deptt. of English & Indology	28,878	28,878		
Equipment for Theater & Audio-Visual Programme	16,129	16,129		
Augmentation of Sports Facilities	16,090	16,090		
Construction of Class Room for Siksha-Satra	12,519	12,519		
Construction of 1st Floor on Sriniketan Hospital Building for P.C.K.	38,065	38,065		
Construction of 1st Floor over existing Ground Floor of Purvapalli Guest House	830	830		
Construction of Additional Class Room for Botany	1,524	1,524		
Construction of Arts & Crafts Class Room for Patha-Bhavana	6,672	6,672		
Construction of Additional Class Room, Workshop & Library of Vinoy-Bhavana	14,397	14,397		
Additional Deep Tubewell for Augmentation of Water Supply in Campus	24,829	24,829		
Extension of Physics Deptt. Building	19,485	19,485		
Extension of Social Work Deptt. Building	29,090	29,090		
Construction of Workshop for Work Education—Vinoy-Bhavana	13,341	13,341		
1st Floor of Science Building for Siksha-Satra	41,648	41,648		
Library-Cum-Reading Room for U.S.S.	28,244	28,244		
Deep Tubewell with Pump House & Electric Installation	60,619	60,619		
Women Hostel at Visva-Bharati	801,280	481,280	800,000	480,000
Extension of Lab. Building for C.I.H.A.B.	120,980	120,980		
Girls' Hostel at Sriniketan	234	234		
100 Seated Girls' Hostel for Patha-Bhavana	214,222	214,222		
U.G.C. Grant for 9th Plan Development Grant	56,952,307	45,414,645	52,900,000	41,362,338

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

## ANNEXURE 'F' to DEVLUP FUND Schedule No. 6

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
Construction of Vidya-Bhavana Complex under 9th Plan				
Construction of the Office of the Proctor, D.S.W., O.P.T.,				
Students Amenities Centre under 9th Plan				
Construction of Boys' Hostel for Sangit-Bhavana				
and Kala-Bhavana under 9th Plan				
Indira Gandhi Centre for National Integration		2,087,086	43,100	
UGC Grant for Setting up of Indira Gandhi Centre for Studies in National Integration	1,071,641	1,406,180		334,538
Grant for Vocationalisation of Education at the First Degree Level	1,001,816	1,001,816		
Grant for Upgradation of Computer Centre	734,068	2,086,458		1,352,390
U.G.C. Grant for Platinum Jubilee Celebration (II) under Plan Grant	6,769,663	9,694,299		2,924,637
U.G.C. Grant for Computerisation of University Library under Inflienet Programme	118,690	154,390		35,700
U.G.C. Special Grant for Major Repairing of Building	-235,552	771,895		1,007,447
U.G.C. One Time Special Assistance for Library and Laboratory	2,306,793	7,853,433		5,546,640
UGC Specific Grant for Office Automation	2,000,000		2,000,000	
UGC Grant for suitable Sanskrit Speaking Course Visva Bharati	100,000		100,000	
DEVLUP FUND	66,888,559	66,219,335	55,843,100	53,043,690
Transferred to Spect Fund (IGCNI)				2,130,186
				55,173,876

  
 Accounts Officer  
 Visva-Bharati

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

## ANNEXURE 'G' to EDUCARE FUND Schedule No. 7

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
UGC. Research Projects :				
Project under Dr. P. Jash	-997			-997
-do- Dr. A.N. Lahiri Majumdar	-5,693			-5,693
-do- Prof. R.P. Pandey	-23,369			-23,369
-do- Dr. R.K. Mohanty	-3,195			-3,195
-do- Prof. Samir Bhattacharya	-5,044			-5,044
Career Award to Dr. S.S. Mahapatra	-10,220			-10,220
-do- Dr. A.N. Lahiri Majumdar	-41,817			-41,817
Project under Dr. I.N. Basu Mallick	-5,592			-5,592
Project under Dr. S.Mondal	-27,748			-27,748
Support of Research to Dr. D.N. Srivastava	-11,274			-11,274
Project under Dr. Subrata Chakraborty	-2,256			-2,256
-do- Dr. Asim Kr. Roy	-64,961			-64,961
-do- Dr. Puspajit Mondal	-3,721			-3,721
-do- Dr. V.C. Joy	-6,942			-6,942
Support of Research to Sri Ratnin Mitra	-6,258			-6,258
Project under Dr. S.K. Sen (Scheme-I)	-100,046			-100,046
-do- Dr. Arun Kr. Roy	-12,799			-12,799
-do- Dr. B.P. Das	-444			-444
Financial Assistance to Dr. A.K. Choudhury	-1,000			-1,000
-do- Dr. Sri M.S. Ghosh	-81			-81
Project under Dr. Shelly Bhattacharya	-2,185			-2,185
Project under Dr. Anjali Roy	-243			-243
Project under Dr. Kashinath Bhattacharya	-14,071			-14,071
-do- Dr. Nirmalya Banerjee	-2,434			-2,434
Major Research Project under Dr. Harish Ch. Mishra	-1,572			-1,572
Project under Dr. N.B. Harichandan	-4,997			-4,997
Research Project under Dr. S.P. Sinha Babu	-161			-161
-do- Dr. N.C. Sukul	-5,838			-5,838
-do- Dr. U.S. Roy	-2			-2
-do- Dr. Asha Mukherjee	-5,056			-5,056

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

## ANNEXURE 'C' to EDUCARE FUND Schedule No. 7

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
West Bengal Govt. Grants:				
Project under Dr. Malabika Roy	-9,269	-9,269		
Govt. of India Grants:				
Department of Atomic Energy:				
Project under Dr. Ranabir Datta	-3,346	-3,346		
-do- Dr. B. K. Talukdar	-714	-714		
-do- Dr. Samar Kr. Roy	-1,743	-1,743		
-do- Dr. B. K. Talukdar	-7	-7		
-do- Dr. Ranabir Dutta	-299	-299		
Department of Science & Technology Grant:				
Project under Dr. B. K. Talukdar	-75,324	-75,324		
-do- Dr. N. C. Sukul	-9,462	-9,462		
D.S.T. Young Scientist Project under Sri Partha Pratim Chakraborty	-48,451	-48,451		
-do- Sri Pulak Ranjan Manna	-63,150	-63,150		
Grants from National Symposium on General and Comparative Endocrinology	-4,300	-4,300		
D.B.T. Grants:				
Project under Dr. Shelly Bhattacharya	-45,727	-45,727		
-do- Dr. Samir Bhattacharya	-9,938	-9,938		
C.S.I.R. Grants:				
Pool Officer — Smt. Asima Lahiri Majumdar	-1,957	-1,957		
-do- Smt. Rupa Manjari Biswas	-5,800	-5,800		

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

## ANNEXURE 'G' to EDUCARE FUND Schedule No. 7

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
Pool Officer — Smt. Sulapa Mukhopadhyay	-73,022	-73,022		
-do- Smt. Urmila Dev	-13,508	-13,508		
-do- Sri Partha Pratim Chakraborty	-38,744	-38,744		
Pool Officer Smt. Roma Sarkar	-5,263	-5,263		
Research Associate Sri Ram Ballav Roy	-9,923	-9,923		
-do- Sri Tuhin Saha	-526	-526		
National Symposium on General Comparative Endocrinology	-20,000	-20,000		
Project under Dr. B.N. Mitra	-6,300	-6,300		
-do- Dr. S. Sengupta	-8,037	-8,037		
-do- Dr. A.K. Dey	-1,871	-1,871		
-do- Dr. S.G. Biswas	-923	-923		
-do- Dr. A.K. Datta	-1,074	-1,074		
-do- Dr. Arun Kr. Roy	-1,265	-1,265		
-do- Prof. A.B. Das	-366	-366		
-do- Dr. Kashinath Bhattacharya	-29,480	-29,480		
-do- Dr. Arun Kr. Roy	-8,606	-8,606		
I.C.A.R. Grants:				
Project under Prof. Samir Bhattacharya	0	0		
-do- Dr. S.K. Mukhopadhyay	-108	-108		
-do- Dr. M.K. Das Gupta	-4,272	-4,272		
-do- Dr. Asit Bhattacharya	-34,533	-34,533		
-do- Dr. Anjali Roy	-11,408	-11,408		
-do- Dr. Samar Dutta	-13,085	-13,085		
-do- Dr. G.C. Mondal	-12,332	-12,332		
-do- Dr. D. Dasgupta	0	0		
-do- Dr. A.K. Mondal	-164	-164		
-do- Dr. S.S. Pal	-11,244	-11,244		
-do- Dr. Debasis Das	-2,140	-2,140		
-do- Dr. N.C. Sukul	-79,697	-79,697		

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

## ANNEXURE 'G' to EDUCARE FUND Schedule No. 7

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
<b>I.C.S.S.R. Grants:</b>				
Grant for Seminar on History of Art of Kala-Bhavana	-250	-250		
Grant for All India Persian Teachers' Conference	-500	-500		
Project under Dr. Shib Ranjan Mishra	-1,940	-1,940		
<b>I.C.A.R. Grants:</b>				
Project under Prof. Ashok Rudra	-7,156	-7,156		
-do- Dr. S. K. Datta—Botany	20	20		
-do- U.S. Roy—Chemistry	2,641	2,641		
-do- Prof. Shelly Bhattacharya	968	968		
-do- Dr. Suchibrata Sen	8,181	8,181		
-do- Prof. K. Mahapatra	3,984	3,984		
-do- Prof. G.N. Bhattacharya	4,731	4,731		
-do- Prof. G.P. Sengupta	9,851	9,851		
-do- Prof. Shelly Bhattacharya (Scheme-II)	24,037	24,037		
-do- Prof. Samir Bhattacharya	4,984	4,984		
-do- Dr. P. Das & Dr. S. Samanta	1,960	1,960		
-do- Dr. P. Nath (Scheme-I)	1,517	1,517		
-do- Prof. N.C. Sukul	29,908	29,908		
-do- Dr. K.C. Roy	22,000	22,000		
-do- Dr. Asim Kr. Sen	11,705	11,705		
-do- Dr. Asim Kr. Das	1,999	3,632		1,633
-do- Dr. P. Nath (Scheme-II)	39,530	39,530		
-do- Dr. Sasadhar Dey	15,000	15,000		
-do- Dr. Arun Kumar Roy		29,794		29,794
-do- Dr. Bijay Kr. Mukherjee	32,623	46,313		13,690
-do- Dr. Samit Roy	0	0		
-do- Dr. Rup Kumar Kar	13,059	17,376	35,674	39,991

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

ANNEXURE 'G' to EDUCARE FUND Schedule No. 7

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
U.G.C. Research Project under Dr. Dibakar Kundu	20,000	20,000		
-do- Dr. Dikshit Sinha	38,355	114,933		76,578
-do- Dr. N.B. Harichandan	2,053	153,443		151,390
Project under Prof B.C.Samal	138,364		142,800	4,436
Project under Prof Dr.Kashinath Bhattacharyya	100,791		144,780	43,989
Project under Smt Alibha Dakhi	43,933		133,500	89,567
Project under Prof Dr.Swapan Mondal	147,331		194,280	46,949
Project under Prof Dr.Swadesh Ranjan Biswas	378,680		378,680	
Project under Prof Dr.D.P.Mukherjee	194,050		194,050	
Project under Prof Bijoy Kr. Mukherjee (Project II)	62,854		76,000	13,146
Project under Prof N.C.Sukul	154,524		477,850	323,326
Project under Prof Dr.Amit Hazra	80,682	80,682		
Project under Prof Dr. Dipak Bhattacharyya	5,955	18,938	3,600	16,583
Project under Prof Dr. Pushpajit Mondal	7,370	860	70,092	63,582
Project under Prof Dr.S.P.Sinha Babu	112,324		153,780	41,456
Project under Prof Dr.N.C.Mondal	193,791		278,048	84,257
Project under Prof Dr.P.Halder	0	-14,682	14,682	
Project under Prof Dr.S.K.Sen ( Project II )	56,285	56,285		
Project under Dr. Santabrata Chakraborty	-10	-26,346	26,336	
Research Associateship	-269,439	-262,942		6,497
Govt of W.B. DST				
D.S.T. Project under Dr. I.N. Basu Mallick	108,994	8,129	121,200	20,335
Deptt. of Animal Research Contract Programme on Foreign Research				
(Late Rile Zone) under Dr. T. Chakraborty, P.S.B.	219,987	239,582		19,595
D.S.T Project under Dr. S.P. Sinha Babu	7,045	7,045		
DST Project under Prof Amitava Dutta	14		31,000	30,986
DST Project under Prof Dr.Kashinath Bhattacharyya	87,974		143,000	55,026



VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

## ANNEXURE 'G' to EDUCARE FUND Schedule No. 7

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
Govt of India				
Central Silk Board Research Project "Field Evaluation of Acaciasids against roof-knot-mulberry" ... under Dr. N.C. Sukul	6,056	30,872	138,793	163,609
M.H.R.D. Project to Conduct a Comparative Study on Environment... other Village School under Dr. J.N. Basu Mallick	43,868	497,106		453,238
Grant for Development of Indo-Tibetan Studies	60,000		60,000	
Ministry of Environment, Forest Research Project under Dr. V.C. Joy	785,705	-2,431	885,500	97,364
Department of Science & Technology Grants :				
Projects :				
Project under Dr. P. Halder	233	233		
Project under Dr. Samir Bhattacharya				
-do- Dr. Ranabir Dutta	5,322	5,322		
-do- Dr. Samir Bhattacharya	25,101	25,101		
-do- Dr. J. N. Basu Mallick	114,786	114,786		
-do- Dr. Shelly Bhattacharya	274	274		
-do- Dr. Asim Kr. Roy	97	97		
-do- Dr. Asmita Sengupta	733	733		
-do- Dr. Subrata Chakraborty	93,742	99,297	206,000	211,555
-do- Dr. Parimalendu Halder	5,502	5,502		
-do- Dr. Arun Kr. Roy	28,997	28,997		
-do- Dr. S.P. Sinha Babu	1,050,000		1,050,000	
-do- Prof Shelly Bhattacharya	380,000		380,000	
-do- Dr. T. P. Chattopadhyay	1,116,356		1,300,000	183,644
		-1,426	1,426	
Govt. of India, Department of Science and Technology Grant for the Project FIST Programme at the Deptt. of Zoology, Visva-Bharati	4,500,000	4,500,000		

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

## ANNEXURE G to EDUCARE FUND Schedule No. 7

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
Atomic Energy Regulatory Board (A.E.R.B.) Research Project under Dr. Sudipta Narayan Roy				
D.B.T. Grants :				
Project under Dr. Samir Bhattacharya	65,349	126,254	83,230	144,135
-do- Dr. Samir Bhattacharya	19,610	19,610		
-do- Dr. S.K. Sen	604,718	628,569	326,000	349,851
-do- Dr. Shelly Bhattacharya	45,321	136,655	194,000	285,334
-do- Dr. Nirmalaya Banerjee	-46,249	148,323		194,572
	9,649	-58,041	207,476	139,786
Ministry of Non-Conventional Energy Source Grant :				
Project under Dr. S. Mondal, Deptt. of Bolany	586,769	232,967	626,094	272,292
Training Course under Bio Measure Programme under Dr. G.N. Chattopadhyay	82,400		82,400	
D.A.E Grants :				
Project under Dr. Prabir Ghosh	23,774	23,774		
-do- Dr. G. N. Chattopadhyay & Dr. S. Mondal	855	855		
-do- Dr. B. K. Talukdar	41,250	41,250		
-do- Dr. Soumya Chakraborty	148,000	148,000		
-do- Dr. Samir Bhattacharya	13,883	13,883		
C.S.I.R. Grants :				
Project under Dr. G. N. Bhattacharya	649	649		
-do- Dr. K. C. Roy	18,569	18,569		
-do- Dr. P. K. Ganguly	878	878		
-do- Dr. S. Bhattacharya & Dr. P. Ganguly	253	253		
-do- Dr. Samir K. Ghosh	5,247	5,247		
-do- Dr. Samir Bhattacharya	32,350	32,350		
-do- Dr. U. S. Roy	4,512	4,512		
-do- Dr. U. S. Roy	722	722		

S. A. BHARATI  
TINIKETAN

## ANNEXURE 'G' to EDUCARE FUND, Schedule No. 2

		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	INFLOW	OUTFLOW
		Rs	Rs	Rs	Rs
Project under :	Dr. V. C. Joy	2,384	2,384		
-do-	Dr. B. B. Nath	12,364	12,364		
-do-	Dr. P. Nath	1,658	1,658		
-do-	Dr. A. N. Lahiri Majumdar	29,958	29,958		
-do-	Dr. Shelly Bhattacharya	1,907	1,907		
-do-	Dr. Shelly Bhattacharya	376	376		
-do-	Dr. K. C. Roy	7,236	7,236		
-do-	Dr. Samir Bhattacharya	55,901	55,901		
-do-	Dr. U. S. Roy	13,200	13,200		
-do-	Dr. Ranabir Dutta	32,128	32,128		
-do-	Dr. Swapan Mondal	14,856	14,856		
-do-	Dr. S. P. Sinha Babu	2,674	5,674	5,600	8,600
-do-	Dr. Shelly Bhattacharya	7	7		
-do-	Dr. Samir Bhattacharya	13,964	199,589	72,600	185,625
-do-	Dr. Asim Kr. Das	79,351	140,726	100,025	133,975
-do-	Dr. Samit Roy	-512	70,975	246,000	171,512
-do-	Dr. Kashinath Bhattacharyya	75,988		216,667	170,012
-do-	Dr. Taraprasad Chattopadhyay	212,938		1,633	3,729
-do-	Dr. Asim Kr. Das		-1,633		
I.C.A.R Grants :					
Project under	Dr. M. K. Das Gupta	270	270		
-do-	Dr. Shih Ranjan Misra	2,040	2,040		
-do-	Dr. V. C. Joy	3,478	3,478		
-do-	Dr. Ajit Kr. Aditya	16,942	16,942		
-do-	Dr. Arun Kr. Roy	4,031	4,031		
-do-	Dr. Shelly Bhattacharya	29,838	29,838		
-do-	Dr. P. Nath	35,848	35,848		
-do-	Dr. Samir Bhattacharya	95,385	95,724		339
-do-	Dr. Shelly Bhattacharya	6,623	144,366	117,920	255,663
-do-	Dr. Shelly Bhattacharya	794,419	247,250	814,634	267,465

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

ANNEXURE 'C' to EDUCARE FUND Schedule No. 7

		CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
Project	under Dr. Arun Kr. Roy	190,354	516,294		325,940
-do-	-do- Dr. P. Nath	301,494	559,753		258,259
-do-	-do- Dr. Sisir Kr. Mukhopadhyay	15,014	268	20,000	5,254
Project—Weed Control under Dr. T. Chakraborty		179,482	495,895	444,500	760,913
NCERT Grants :					
Project under Dr. D. P. Mukherjee		1,516	1,516		
ICSSR Grants :					
Project under Dr. Shib Ranjan Mishra		2,000	2,000		
-do-	-do- Dr. Shib Ranjan Mishra	1,421	1,421		
-do-	-do- Dr. Dibakar Kundu	150,000		150,000	
IDRC Grants :					
Project under Dr. Arun Kr. Roy		570	570		
Other Bodies					
Indira Gandhi National Centre for Arts Project under Smt. Indrani Bhattacharya					
Indira Gandhi National Centre for Art Project under Dr. A. K. Aditya		2,189	2,189		
Indian National Science Academy, New Delhi, Project "Jade and the Study of		5,113	5,113		
it Techniques... Central Asia & India" under Dr. Ashok Kr. Das					
Phosphorus and Potassium Management Fish & Red Laterite Soil Research		10,000	10,000	24,000	24,000
Project under Dr. G. N. Chattopadhyay			40,000		40,000
Indira Gandhi Institute of Development Research Project under					
Dr. Srabani Chakraborty... Common Proper Resource... West Bengal		56,004	265,856	240,000	449,852
Central Silk Board National Sericultural Project under Dr. N. C. Sukul		2,803	2,803		
DSA		1,848,197	1,776,310	1,290,000	1,218,113
		15,260,052	11,303,640	11,903,850	7,947,438
EDUCARE FUND					
DSA's Opening Balance not shown in the Balance Sheet			1,776,310	1,776,310	
The amount taken as excess to be excluded				14,682	14,682
			9,527,330	13,694,842	7,962,124

Accounts Officer  
Visva-Bharati

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

## ANNEXURE 'H' to OSPRO FUND Schedule No. 8

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
Contribution from BHUWALKA JANAKALYAN TRUST for Renovation and Modernisation of Kala-Bhavana	100,000	100,000		
Indian Development Trust Contribution for Repairing of Goenkalaya Girls' Hostel	188,000	188,000		
Ministry of Environment and Forest Grant under the Programme of Assistance to Botanic Garden for the Project on Plant Conservation Activities in Uttarayana Complex, Rabindra H.U.D.C.O. Grant for Building Centre at Sriniketan under CAREER	622,924 102,632	622,924 143,326		40,694
Contribution from Smt. Basanti Ghatak for providing an Annex to the Madhabi Girls' Hostel for 10 Girls Students	44,065	498,892		542,957
B.K.Birla Foundation Contribution for Repairing Work of Birla Girls' Hostel	29,663		450,000	420,337
Tagore Einstein Council Contribution towards Construction of Einstein Bhavana at Santiniketan	57,412	51,412	6,000	
The Japan Foundation Grant for Upgrading Facilities of Japanese Studies	701,210	627,420	73,790	
RPG Enterprise for Renovation Goenka Girls' Hostel	150,000		150,000	
COSIST	3,450,658	3,149,307	1,116,116	814,765
OSPRO FUND	5,358,434	5,381,281	1,795,906	1,818,753
COSIST's Opening Balance not shown in the Balance Sheet		3,149,307	3,149,307	
		2,231,974	4,945,213	

Sd/-  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

ANNEXURE To SPACT FUND Schedule No. 9

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
Writing of University Level Books by Dr. P.N. Ghosh	-1,000	-1,000		
Preservation and Protection of Outdoor Art Objects	-99,218	-99,218		
Assistance for Student's Amenities for Residents & Day-Scholars	-1,851	-1,851		
Publication of Special Nandalal Number of V.B. Quarterly	-12,983	-12,983		
Security Arrangement in Hostels	-78,984	-78,984		
Financial Assistance for Visva Bharati Computer Centre	-126,949	-126,949		
Introduction of D.C.A. Course at Visva-Bharati Computer Centre	-31,174	-31,174		
Purchase of Books & Journals 8th Plan (School)	-1,630	-1,630		
Purchase of Furniture for New Building	-33,177	-33,177		
Grant for National Seminar on Curriculum Development of Human Rights			-75,539	
Education at Indira Gandhi Centre for National Integration, Visva-Bharati				
Ministry of Environment and Forest, New Delhi Grant for				
Organising Seminar on Environmental Biology and Fish Biology	-581	-581		
500th Birth Anniversary of Sri Chaitanya Deva	-8,995	-8,995		
Financial Assistance—Deptt. of Visva-Bharati for Development				
of Buddhist & Tibetan Organisation	-647	-647		
Govt. of India Grant for State Level Training on Boro Rice				
Orissa Govt. Grant for Construction of Hostels for Oriya Students	-29,061	-29,061		
Wider Project under Sri Sunil Sengupta	-35,316	-35,316		
Hindusthan Liver project under Dr. N.C. Sukul	-7,846	-7,846		
S.N. Bose National Centre for Basic Science, Calcutta Grant for Organising				
Seminar on S.N. Bose Centenary in the Deptt. of Philosophy, V.B.	-15,893	-15,893		
Hindusthan Liver Project under Dr. Malabika Roy	-1,523	-1,523		
Steel Authority of India Limited Grant for Construction of Guest House	-48,711	-48,711		
Thakur Hariprosad Institute of Research Grant towards Seminar on				
Development of Values towards Persons with Disabilities	-1,198	-1,198		
I.C.A.R. Grants:				
Grant to Dr. Sukhamoy Mukhopadhyay	-600	-600		
Study Grant to Dr. N.C. Ghosh	-1,250	-1,250		

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

## ANNEXURE 'I' to SPACT FUND Schedule No. 9

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
Project Workshop Study Indo-Gangetic Plains				
Grant for Seminar on Celebration of 50th Birth Anniversary of I.N.A.	-375	-375		
Grant for National Seminar on Theme Changing Interference	-500	-500		
Problems of Periodisation of Indian History in the Deptt. of History		-25,000		
Construction of Dedicated Feeder Line for supply of Non-Interrupted Electricity to Visva-Bharati (Central Assistance)				
Grant for Observation of Platinum Jubilee of Visva-Bharati	-1,00,000	-1,00,000		
Seminar on Agro-Economic Management	10,198	10,198		
Publication of Learned Research Papers including Doctoral Thesis	2,369	2,369		
Introduction of 3-Year Degree Course in Physical Education and Sports	54,773	54,773		
125th Birth Anniversary of Rabindranath Tagore	100,000	100,000		
Regional Seminar on the Occasion of Sankar Jayanti Mahatsava	185,438	185,438		
Purchase of Furniture & Equipments for School Section	20,000	20,000		
U.G.C. Specific Grants for Development of Libraries in the Central Universities (inflibnet)	25,134	25,134		
Subject Panel on Mathematics under Prof. Dilip Kr. Sinha	36,989	36,989		
Remedia coaching for SC / ST	816	816		
Grant for Payment to Rural Handicrafts	6,718	6,718		
Indian Social Science Congress	20,000	20,000		
U.G.C. Grant for Assistance for SC/ST Cell	15,640	15,640		
U.G.C. Grant for 1st Educational Science Congress	1,366	18,865		17,499
Indira Gandhi Centre for National Integration	1,000	1,000		
Indo-French Cultural Exchange under Prof. S. K. Sen	2,130,186			
Unassigned Grant	-67,884			67,884
Financial Assistance for organising Refresher courses	-1,482,289	-912,423		569,866
Special Assistance Programme DSA in the Dept. of Zoology	-801,523	-338,187		1,063,335
UGC Grant for conducting Refresher Course at Sivalosh Mukherjee Science Centre, Calcutta	-2,145		600,000	
GOI Grants for Indo-China Cultural Exchange Programme	400,000		1,290,000	
GOI Grants for State Level Training on Boro Rice Production Technology (Miniket) at PS	-360,358		400,000	
Ministry of HRD, GOI Grants for celebration of Sanskrit year	-18,934	-369,656	9,298	
		-20,229	22,429	21,134
		-2,836	2,836	

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

## ANNEXURE 'I' to SPACT FUND Schedule No. 9

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
GOI, DST Specific Grants :				
Grant for Organising Group Monitoring Workshop—Deptt. of Zoology	40	40		
Grant for All India Seminar on Ichthyology	5,079	5,079		
National Board of Higher Mathematics Grant for Purchase of Library				
Books for the Deptt. of Mathematics	212,604	212,604		
Financial Assistance to National Symposium on Computation Techniques and Radiation F	25,000		25,000	
Govt. of West Bengal Grants :				
Specific Grants :				
National Service Scheme including Camping Programme	116,124	201,703	40,000	125,579
Administrative Training Institute Grant for Seminar on Agro-Economic	1,119	1,119		
Grant in Aid for Organising 9th W.B.State Science Congress	400,000		400,000	
Grant under MPLAD Scheme—1995-96 under Quota of Sri Pranab Mukherjee, MP (R.S.)				
for the Project Development of Multi-media Encyclopedia on the Work of Tagore				
Grant under M.P.L.A.D. Scheme 1998-99 under quota of Sri Pranab Mukherjee,	600	600		
M.P. (RS) for Project (Centre for Science in villages) under Dr. I.N. Basu Mallick				
Grant under m.p.l.a.d. scheme (1998-99) under Quota of Sri Pranab Mukherjee, M.P. (R.S.)	3,520	24,682		21,162
for the Physical Infrastructure Development of CAREER, Sriniketan				
Govt. of West Bengal Book Grant for Vinoy-Bhavana	4,349	4,349		
Grant for Teachers' Training Facilities at Vinoy-Bhavana	5,000	5,000		
Specific Grants :	10,000	10,000		
Compilation of Trilingual Dictionary	70	70		
Deptt. of Culture, National Museum—Financial Assistance for Reorientation &				
Development of Ari Museum				
Deptt. of Culture, National Archives Grant for Preservation of Manuscripts	4,082	4,082		
Deptt. of Culture—Financial Assistance for 125th Birth Anniversary of Rabindranath Tag	96,453	96,453		
Grant for Seminar on Concept of Man in The Philosophy of Rabindranath Tagore	29,835	29,835		
National Seminar on Recent Trends in Plant Science Research	50,000	50,000		
Ministry of Rural Development & Employment Grant for Organising National Workshop on	7,500	7,500		
Role of NGO's in Rural Development at P.C.K.	2,052	2,052		



VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

## ANNEXURE T to SPACT FUND Schedule No. 9

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
Govt. of India Planning Commission (ser unit) Grant for National Seminar on Planning and Marketing in the Memory of A.K. Dasgupta in the Deptt. of Economics	35,000	35,000		
Govt. of India, Ministry of Technology Grant for Contact Programme for Talented School Students organised by Visva-Bharati	8,903	1,004	7,899	
DBT Grant in Aid to meet Expenditure on "Search for Electrode Materials"	107,912		110,000	2,088
DAE Financial Assistance to Dr. Sudipta Narayan Roy for Symposium on Physics	20,000		20,000	
AERB Financial Assistance for Measurement of Cooptional Teaching in Radiation Physics to Dr. S.N.Roy	10,000		10,000	
C.S.I.R. Specific Grants :				
Grant for Indo-U. S. Workshop on Mathematical Chemistry	67,768	74,368		6,600
Grant for National Seminar in Mathematical Education from Primary to Post-graduate Level Perspective Studies	5,000	5,000		
Grant for National Seminar on Environmental Biology and Fish Biology at the Deptt. of Zoology	3	3		
C.S.I.R. Grant for 22nd I.I.G. Conference at the Deptt. of Geography	1,031	1,031		
Grant for Seminar on Social Science Perspective on Agricultural Research	9,500	9,500		
Grant for Conference on Colloquium on Universal and Universal Man	701	701		
I.C.H.R. Grants :				
Grant for Seminar on Tagore's Concept of History	13,723	13,723		
Grant for Seminar on Dr. R. C. Majumdar in the Deptt. of a.i.h.c. & a.	7,125	7,125		
Indo-Japan Tagore Society Grant for extension of Nippon-Bhavana and allied matters	-868,971	-15,702		853,269
NCRI Grants for non-recurring infrastructure	-3,301			3,301
I.C.C.R. Grants :				
Grant for Organising the International Students Day Celebration for the Foreign Students at Visva-Bharati	285	285		

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

## ANNEXURE 'U' to SPACET FUND Schedule No. 9

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
<b>IACS Calcutta Grants :</b>				
Grant for Conference on Condensed Matter Days at the Deptt. of Physics	1,459	1,459		
Contribution for Lecture Programme of Prof. Tu Wei Ming, Deptt. of Philosophy	94	94		
<b>Grants from Other Bodies :</b>				
U.N. High Commission New Delhi Grant for Organising Seminar on Refugee at the Deptt. of Social Work	11,776	11,776		
Orissa Govt. Grant for 125th Birth Anniversary of R.N. Tagore	41,122	41,122		15,388
Orissa Govt. Grant for Extra Curricular Activities	3,234	18,622		
Orissa Govt. Grant for Organising Golden Jubilee Celebration of the Deptt. of Oriya	3,945	3,945		
Grant from Burdwan Zila Parishad in reimbursement of Exp. for Beautification	1,841	1,841		
I.N.S.A. Calcutta Grant for Conference on Solution Chemistry	108	108		
E.Z.C.C. Grant for Preservation of Architectural Monuments	10,366	10,366		
S.I.N.P. Calcutta Grant for Conference on Condensed Matter Days at the Deptt. of Physic.	2,229	2,229		
Inter University Consortium (IUC) for D.A.E. Facilities Research Project under Dr. S.N.R	13	13		
River Research Institute, (W.B.) Grant for Copying with Flood and Draught at the Deptt. of Social Work, Sriniketan.	4,912	4,912		
Reserve Bank of India, Deptt. of Econ./Analysis/ and Policy Grant for National Seminar on Policy & Marketing in the Memory of A.K. Dasgupta at the Deptt. of Economics	19,228	19,228		
Grants from U.B.I for the Beautification of Uttarayana Complex	20,000	20,000		
S.N. Bose National Centre for Seminar on Continuum Mathematics Education from Primary to Post-graduate Level in the Deptt. of Mathematics	10,000	10,000		
S.N. Bose Memorial Centre for Basic Science Grant for Seminar on Nature & Reality in Arts & Science in the Deptt. of Physics	209	209		
E.Z.C.C. Grant for Publication of the Proceedings of the Seminar in the Deptt. of English	4,495	4,495		
Ministry of Agricultural Financial Assistance for Organising National Seminar on Copying with Floods and Draughts at the Deptt. of Social Work, Sriniketan	6,762	6,762		
M.H.R.D. Grant for the National Seminar on Terrorism at the Indira Gandhi Centre for National Integration		8,558		8,558

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

## ANNEXURE To SPACT FUND Schedule No. 9

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
Italian Govt. Grant for Professional Fees of Lecturer in Italian Language at the Deptt. of I Eastern Regional Committee (NCTE) Project under Dr. D. P. Mukherjee	6,110	54,385	77,496	125,771
Rehabilitation Council of India Grant for 1st Indian Educational Science Congress at Visv Cricket Association of Bengal Grant for Patha-Bhavana, Visva-Bharati	232	198	4,345	4,311
I.U.C.C.A. Pune Grant for Organising Joint Seminar—School on Astro-Physics	40,000	40,000		
	200	200		
	20,000	17,030	20,000	17,030
Indian Development Foundation Bangalore Grant for National Youth Camp at V.B.		3,000		3,000
Association of Indian Universities Grant for Inter-University East Zone Youth Festival	58,586	58,586		
Contribution from Sri Buddhadev Guha for the benefit of Rabindra-Bhavana	6,458	6,458		
Indira Gandhi Centre for Art Project (I & II) under Dr. Shyam Sundar Mahapatra	14,452	5,288	46,775	37,611
Ananda Bazar Ashoke Sarkar Vritti	50,563	50,563		
All India Radio and Doordarshan Grant for Mural and Design Work at Doordarshan Building at Santiniketan	162,840	109,360	200,000	146,520
Department of Electronics Grant for the Project Development of Multi-Media Encyclopedia on the Tagore	1,000	3,000	127,142	129,142
Rehabilitation Council of India Grant for Financial Assistance for Organising Seminar on Development of values towards Persons with Disabilities	87,633	87,633		
National Council for Teachers' Education Grant for the Meeting of the Vice-Chancellors' of the West Bengal Universities	538	538		
I.S.F.O. Bangalore Grant for 22nd I.I.G. Conference at the Deptt. of Geography	1,935	1,935		
N.A.T.M.O. Grant for 22nd I.I.G. Conference at the Department of Geography	500	500		
IUC Grant: Financial Assistance to meet TAVDA to participants for Symposium	20,000		20,000	
The Consulate General of Japan. Assistance for Grass Root Project at the Deptt. of Japan	16,886		96,576	79,690
Indian National Science Council New Delhi Financial Assistance for symposium on Measurement of Computational Technique in Radiation Physics and Safety	10,000		10,000	

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN


ANNEXURE 'I' to SPACT FUND Schedule No. 9

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
DRU				
AERC	61,451	25,511	337,653	301,713
CAREER	492,740	605,793	7,834,271	7,947,324
	109,968	265,743	50,887	205,662
	1,229,486	403,275	11,762,606	13,066,582
SPACT FUND				
		897,047	897,047	
			2,130,186	
		-493,772	14,789,839	

The total amount of DRU, AERC and CAREER's Opening Balance

not shown in the Balance Sheet

The amount transferred from DEVLUP FUND

  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETANANNEXURE 'I' to FLOW FUND Schedule No. 10**Fellowship Fund**

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
Fellowship to Dr. Pradip Ganguly	-4,017	-4,017		
-do- Smt. Prabhati Mitra	-2,510	-2,510		
-do- Smt. Lopa Mudra Choudhuri	-29	-29		
-do- Sri Sirajul Islam	-726	-726		
-do- Smt. Manisha Dutta	-797	-797		
Fellowship to Sri Amartya Ghosh	-16,204	-16,204		
Support of Research Project under Prof. Ram Singh Tomar	22,494	22,494		
Support of Major Research Project under Dr. D.K. Ganguly	3,716	3,716		
Financial Assistance to Sri S.R. Mitra	2,000	2,000		
-do- Dr. P. Halder	740	740		
-do- Dr. G. N. Chattopadhyay	7,314	7,314		
-do- Dr. S.K. Sen	745	745		
-do- Dr. S.R. Mishra	2,005	2,005		
Support of Research on Humanities under Dr. Deepak Bhattacharya	10,947	10,947		
U.G.C. Research Associateship (Part-time) :				
(a) Smt. Srabani Chakraborty				
(b) Dr. Mini A.	10,866	15,533	53,000	57,667
(c) Smt. Saswati Kapat		20,798		20,798
ICPR Fellowship to Shri Nizamudding Seith	90,925	21,625	148,600	79,300
Research Fellowship (at any one given time basis) including Teachers' Fellowship		-1,050	9,000	7,950
Visiting Fellowship	1,158,237	1,589,463	73,000	504,226
CSIR Fellowship	-489,492	-480,202		9,290
C.S.I.R. Pool Officer :	-165,565	-102,285	96,344	159,624
Dr. Sukla Bhattacharya	4,380	4,380		
Dr. Shibani Choudhury	1,734	1,734		
Dr. Sujata Guha	2,505	2,505		
C.S.I.R. Research Associates :				
Sri Arun K. Bandopadhyay	22,624	22,624		
Sri Krishnanath Bandopadhyay	12,229	12,229		
Sri B.B. Bandopadhyay	45,567	45,567		

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN

## ANNEXURE 'I' to FLOW FUND Schedule No. 10

## Fellowship Fund

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
Smt. Saswati Sarkar	6,568	6,568		
Smt. Madhumita Bhattacharya	3,428	12,028		8,600
Sri Gourab Kanti Das	33,011	33,011		
Krishni Anusandhan Fellowship to Sri Bhabani Sankar Satpathy	12,000	12,000		
Fellowship to Smt. Chhanda Bose		950		950
I.C.M.R Grants :				
Fellowship to Smt. Madhumita Ghosh	66	66		
GOI/DST Financial Assistance for Programme on Radio etc. under Dr. Samir Bhattachary	14	14		
GOI DST Young Scientistship to Dr. Mini A. Deptt. of Zoology	907	907		
GOI DST Financial Assistance under SERC. visiting Fellowship Scheme to Dr. Bidhan Ch. Patra, Vidyasagar University, Midnapur	3,000	3,000		
ICPR Grants :				
Fellowship to Smt. Chaimeli Choudhury	1,500	1,500		
-do- Dr. A. K. Nag	5	5		
Fellowship to Smt. Aparna Majumder	2,500	2,500		
Fellowship to Smt. Amiya Chatterjee	3,000	1,800	47,000	45,800
Financial Assistance for the year for Publication of Journal	15,000	15,000		
ICHR Grant				
Fellowship to Mrs Sangeeta Mishra	9,300		36,000	26,700
Fellowship to Ms Kakoli Tah	6,775		42,000	35,225
GOI DST Young Scientistship—Dr. M. M. Panja	6,500	6,500		
FLOW FUND	823,263	1,274,449	504,944	956,130

VISVA-BHARATI  
SANTINIKETANANNEXURE K to SELF-FINANCE FUND Schedule No. 11

	CURRENT YEAR Rs	PREVIOUS YEAR Rs	INFLOW Rs	OUTFLOW Rs
Journalism Associate Wing	63,565 1,837,164	107,413 821,540	277,586 1,445,104	321,434 429,480
<b>SELF-FIN FUND</b>	1,900,729	928,953	1,722,690	750,914
		928,953	928,953	
		0	2,651,643	

The amount not shown in the Balance Sheet

  
 Accounts Officer  
 Visva-Bharati

V I S V A - B H A R A T I  
S A N T I N I K E T A N

**ANNEXURE 'L' TO SCHEDULE - 13**

**CURRENT LIABILITIES & PROVISION:**

**A) CURRENT LIABILITIES:**

**1) Undisbursed Scholarship:**

	<u>Current Year</u>		<u>Current Year</u>		<u>Previous Year</u>	
	<u>Receipts</u>	<u>Payment</u>	<u>Balance</u>	<u>Balance</u>	<u>Balance</u>	<u>Balance</u>
	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
Central Govt.	910,127.00	863,317.00	141,043.19		94,233.19	
W. B. Govt.	231,221.00	166,461.00	152,623.67		87,863.67	
Other Govt.	90,626.00	83,490.00	51,375.91		44,239.91	
	<b>1,231,974.00</b>	<b>1,113,268.00</b>	<b>345,042.77</b>		<b>226,336.77</b>	

**4) Other Current Liabilities:**

**Students Aid Fund**

**H.D.F.C. Dues**

**Bills Payable**

**Contractor's A/c**

**Prepaid Dues**

**Cash in hand (Contra) as per Annexure 'N' of Sch. 17**

143,815.31	80,777.31
37,754.00	87,525.00
123,243.00	130,107.00
91,594.92	225,009.92
379,097.84	376,624.87
648,794.39	—
<b>1,424,299.46</b>	<b>900,044.10</b>
<b>345,042.77</b>	<b>226,336.77</b>
<b>1,424,299.46</b>	<b>900,044.10</b>
<b>1,769,342.23</b>	<b>1,126,380.87</b>

**TOTAL:**

**A.1 Current Year Balance**

**4. Other Current Liabilities**

*[Signature]*  
Accounts Officer  
Visva-Bharati



**VISVA-BHARATI**  
**SANTINIKETAN**

**ANNEXURE 'M' TO SCHEDULE - 15 & 16**

**Investment:**

- i) Endowment Fund :  
ii) Benevolent Fund :  
iii) Depreciation Reserve Fund :

- iv) Corpus Fund :  
( 20,30,762 + 10,48,323 )  
v) Development Fund :  
( 2,80,000 + 1,51,000 )  
vi) Ospro Fund :  
( 6,22,924 + 51,412 )  
vii) Other Funds :

- a) Silpa-Sadana Reserve Fund :  
b) Pension Eligibility Reserve Fund :  
c) Publishing Dept. Reserve Fund :  
d) Music Board

**Investment of Grants**

Endowment Fund Investment (As per Annexure 'D' of Sch. 4)  
**Investment - Others**

<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
<b>Rs.</b>	<b>P.</b>	<b>Rs.</b>	<b>P.</b>
6,724,314.00		6,762,174.00	
3,716,694.00		3,697,410.00	
549,647.00		549,647.00	
3,079,085.00		3,079,085.00	
431,000.00		431,000.00	
674,336.00		674,336.00	
32,253.47		32,253.47	
12,154,485.43		12,841,185.43	
17,082,306.42		17,082,306.42	
18,250.00		18,250.00	
5,000,000.00			
49,462,371.32		45,167,647.32	
6,724,314.00		6,762,174.00	
42,738,057.32		38,405,473.32	

*Sd/-*  
**Accounts Officer**  
**Visva-Bharati**

**VISVA-BHARATI  
SANTINIKETAN**

**ANNEXURE 'N' TO SCHEDULE - 17**

**Current Assets, Loan & Advances :**

**A) Current Assets :**

**1) Inventories :**

**a) Stores & Spares :**

<u>Current Year</u> <u>Rs.</u>	<u>P.</u>	<u>Previous Year</u> <u>Rs.</u>	<u>P.</u>
542,038.92		542,038.92	
424,859.73		409,006.90	
2,731,968.29		1,846,662.04	
<b>3,698,866.94</b>		<b>2,797,707.86</b>	

**Others : Store Stock :**

- i) Maintenance of Works & Buildings
- ii) Maintenance of Electricity & Wazier Supply
- iii) Cement & Steel

**2) Sundry Debtors :**

**b) Other Assets :**

1,737.35		1,737.35	
504.78		504.78	
15,288.00		159,538.00	
<b>17,530.13</b>		<b>161,780.13</b>	

**i) Halwasi Trust**

**ii) UNESCO COUPONS**

**iii) Service Postage Stamps**

**3) a. Cash Balance in hand**

**b. Imprest**

648,794.39		—	
43,521.48		41,126.48	
<b>692,315.87</b>		<b>41,126.48</b>	

VISVA - BHARATI  
SANTINIKETANANNEXURE 'N' TO SCHEDULE - 17(contd.)4) Bank Balances - on Current Accounts :-

	<u>Current Year</u>		<u>Previous Year</u>	
	Rs.	P.	Rs.	P.
i) S.B.I., Santiniketan Main A/c	6,451,841.24	—	5,274,334.43	
ii) S.B.I., Calcutta A/c No.1	—	—	2,533,190.59	
iii) S.B.I., Calcutta A/c No.2	—	—	1,137,842.44	
iv) S.B.I., I.G.C.N.I.	3,033,830.00		3,005,830.00	
v) S.B.I., Endowment Fund A/c	10,848,715.71		6,842,781.44	
vi) S.B.I. Revolving Fund	431,218.02		7,896,594.02	
vii) S.B.I. Principal A/c	44,266,286.12		27,609,498.12	
viii) S.B.I., C.P.Fund A/c	393,160.10		4,157,813.45	
ix) U.B.I., Bhubandanga A/c No. 185	8,537,913.10		3,853,573.10	
x) U.B.I., Bhubandanga A/c No. 135	33,754,335.80		32,876,422.80	
xi) S.B.I., Visva-Bharati Patrika Hindi	808.38		808.38	
xii) S.B.I., Santiniketan G.V.Fund A/c	1,453,322.44		—	
xiii) A.E.R.C.'s Bank A/c	492,740.47		—	
xiv) Career's Bank A/c	109,968.45		—	
xv) Associate Wings A/c	1,837,163.90		—	
xvi) Journalism's Bank A/c	63,565.10		—	
xvii) DSA's Bank A/c	1,848,196.76		—	
xviii) Cosist Programme's Bank A/c	3,450,658.00		—	
<b>TOTAL (A)</b>	<b>116,973,723.59</b>		<b>95,188,688.77</b>	
	<b>121,382,436.53</b>		<b>98,189,303.24</b>	

**VISVA-BHARATI**  
**SANTINIKETAN**

**ANNEXURE 'N' TO SCHEDULE - 17(contd.)**

**B) Loans, Advances and Other Assets:**

**1) Loans:**

- a) Staff : H.B.A.  
c) Others (Adv.G) + (Adv. R) + (Festival Advance)

**2) Advances and other amounts recoverable in cash or kind  
or for value to be received  
(c) others (Suspense)**

**3) Income Accrued:**

- d) Others :  
i) Students Fees  
ii) Kitchen Charges  
iii) Misc. Bills  
iv) Land Rent

**TOTAL (B)**

**TOTAL (A + B)**

<u>Current Year</u>		<u>Previous Year</u>	
Rs.	P.	Rs.	P.
24,631,046.24		17,210,234.24	
23,399,946.05		16,926,768.43	
<b>48,030,992.29</b>		<b>34,137,002.67</b>	
<hr/>		<hr/>	
483,457.00			
<hr/>		<hr/>	
658,352.41		486,452.11	
70,064.72		63,352.17	
196,187.00		183,215.50	
38,287.59		27,924.76	
<b>962,891.72</b>		<b>760,944.54</b>	
<hr/>		<hr/>	
<b>49,477,341.01</b>		<b>34,897,947.21</b>	
<hr/>		<hr/>	
<b>170,859,777.54</b>		<b>133,087,250.45</b>	
<hr/>		<hr/>	

  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

**VISVA BHARATI**  
**SANTINIKETAN**

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002**

(Amount - Rs.)

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Grants / Subsidies	18	376,917,000	350,359,800
Fees / Subscriptions	19	2,714,838	2,311,765
Income from Royalty, Publication etc.	20	5,358,021	4,695,976
Interest Earned	21	9,122,435	6,109,331
Other Income	22	4,507	
<b>TOTAL (A)</b>		<b>394,116,801</b>	<b>363,476,872</b>
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	23	272,396,930	279,171,986
Other Administrative Expenses etc.	24	38,777,323	34,723,021
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	25	55,228,872	58,054,398
Pre Paid Dues Adjustment	26	-317,371	-195,316
<b>TOTAL (B)</b>		<b>366,085,754</b>	<b>371,754,089</b>
<b>Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)</b>		<b>28,031,047</b>	<b>-8,277,217</b>

Transferred to Block Capital Fund

4,371,497

Transferred to Revenue Reserve Fund

23,659,550

4,859,291

-13,136,508

Finance Officer  
Visva-Bharati

Accounts Officer  
Visva-Bharati

# **VISVA BHARATI** **SANTINIKETAN**

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002**

(Amount - Rs.)		
	Current Year	Previous Year
<b>SCHEDULE 18 - GRANTS / SUBSIDIES</b> (Irrevocable Grants & Subsidies Received)		
1. Central Government (UGC Block Grant)	376,917,000	350,300,000
2. State Government(s)		59,800
3. Government Agencies		
4. Institutions / Welfare Bodies		
5. International Organisations		
6. Others (Specify)		
<b>TOTAL</b>	<b>376,917,000</b>	<b>350,359,800</b>
<b>SCHEDULE 19 - FEES / SUBSCRIPTIONS</b>		
1. Entrance Fees	229,620	178,070
2. Annual Fees / Subscriptions	2,485,218	2,133,695
3. Seminar / Program Fees		
4. Consultancy Fees		
5. Others (Specify)		
<b>TOTAL</b>	<b>2,714,838</b>	<b>2,311,765</b>


*Visva-Bharati*  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

# **VISVA BHARATI** **SANTINIKETAN**

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002**

(Amount - Rs.)

<b>SCHEDULE 20 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
1. Income from Royalty	113,000	113,000
2. Income from Publications	33,231	41,244
3. Others (Specified)		
Field Study	3,798	-
Sale of Journal	19,238	3,241
Misc. Receipt (Computer Centre)	54,913	-
Cost of Lost Book	-	10,957
Library Fee	6,205	4,635
Sale of Bulletin/Prospectus, Admn. Forms	1,350,001	836,838
Visva-Bharati Patrika (Quarterly Subscription)	15,797	-
Honorarium to Contributors	300	-
Gate money from Rabindra Bhavana	757,524	454,811
Other Item Conveyance Advance	390,426	501,349
Tender Form/ Agreement	118,050	234,865
Misc. Receipt	54,250	-
Laboratory Charges Clinical Path	3,664	1,756
X-Ray Charges	1,480	1,235
Medical Fees	145,233	81,444
E.C.G. Charges	2,680	1,691
Income From Garden	25,887	29,287
Printings	-	614
Bus Fare	28,907	22,430
Night Watch Charges	1,838	2,148
Electric Charges	51,295	35,062
Water Charges	416,814	368,122
Leave Salary & Pension Contribution	230,558	172,953
Hous. Rent	360,788	416,466
Furniture Rent	16,304	23,262
Fan Rent	10,380	11,347
Land Rent	27,826	32,240
Rent From Guest House	854,145	843,010
Telephone Charges	1,177	7,553
Income From Fax	2,534	5,530
Misc. Receipt	26,178	15,862
Income from Ponds	177,050	150,387
Contribution from Granthana Vibhaga	13,000	12,000
Infrastructural Charges	41,450	60,637
V.C's Disc. Fund Rs. (2153.39-Rs. 53.39)	2,100	-
<b>TOTAL</b>	<b>5,358,021</b>	<b>4,695,976</b>
<b>SCHEDULE 21 - INTEREST EARNED</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
1. On Term Deposits :		
a) With Scheduled Banks	9,122,435	6,109,331
b) With Non-Scheduled Banks		
c) With Insitutions		
d) Others		
2. On Savings Accounts :		
a) With Scheduled Banks		
b) With Non-Scheduled Banks		
c) Post Office Savings Accounts		
d) Others		
3. On Loans :		
a) Employees / Staff		
b) Others		
4. Interest on Debtors and Other Receivables		
<b>TOTAL</b>	<b>9,122,435</b>	<b>6,109,331</b>

  
 Accounts Officer  
 Visva-Bharati

# **VISVA BHARATI** **SANTINIKETAN**

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002**

(Amount - Rs.)

<b>SCHEDULE 22 - OTHER INCOME</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
1. In Government Securities		
a) Owned assets	4,507	
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
<b>TOTAL</b>	<b>4,507</b>	
<b>SCHEDULE 23 - ESTABLISHMENT EXPENSES</b>		
a) Salaries and Wages	129,586,230	139,280,401
b) Allowances and Bonus	65,774,536	66,007,182
c) Contribution to Provident Fund	649,140	771,504
d) Contribution to Other Fund (Specify)		
e) Staff Welfare Expenses	1,140,341	3,410,259
f) Expenses on Employees Retirement and Terminal Benefits	70,706,636	66,100,982
g) Others (Specify) Medical Expenses	4,540,047	3,601,657
<b>TOTAL</b>	<b>272,396,930</b>	<b>279,171,986</b>
<b>SCHEDULE 24 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.</b>		
a) Purchase		
b) Labour and processing expenses		
c) Cartage and Carriage Inwards		
d) Electricity and power	8,212,445	5,450,796
e) Water charges	275,605	189,735
f) Insurance		
g) Repairs and maintenance	9,597,391	8,740,094
h) Excise Duty		
i) Rent, Rates and Taxes	15,450	8,400
j) Vehicles Running and Maintenance	370,758	663,936
k) Postage, Telephone and Communication Charges	1,532,109	1,367,623
l) Printing and Stationary	1,100,135	49,004
m) Travelling and Conveyance Expenses	653,020	27,410
n) Expenses on Seminar / Workshops	4,605,043	4,286,441
o) Subscription Expenses	177,975	1,281,430
p) Expenses on Fees		
q) Auditors Remuneration		
r) Hospitality Expenses	73,415	78,406
s) Professional Charges	291,082	308,969
t) Provision for Bad and Doubtful Debts / Advances		
u) Irrecoverable Balances Written-off		
v) Packing Charges		
w) Freight and Forwarding Expenses		
x) Distribution Expenses		
y) Advertisement and Publicity	556,190	674,367
z) Others (Specified)		
i) Artistic & Culture R & D	3,685,735	3,445,324
ii) Examinations	1,905,674	1,639,693
iii) Students' Welfare	3,122,379	3,704,334
iv) Administrative Expenditure	807,451	
v) Office Administration	74,621	1,434,802
vi) Meeting Expenses	808,873	944,910
vii) Conveyance Advance	901,854	416,663
viii) VC's Discretionary Grant	6,000	6,500
ix) Refund of Tuition Fees	4,119	4,185
<b>TOTAL</b>	<b>38,777,323</b>	<b>34,723,027</b>

Accounts Officer



# **VISVA BHARATI** **SANTINIKETAN**

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002**

(Amount - Rs.)		
<b>SCHEDULE 25 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
a) Grants given to Institutions / Organisations (PSV & PSB, Sriniketan)	55,228,872	58,054,398
b) Subsidies given to Institutions / Organisations	----	----
<b>TOTAL</b>	<b>55,228,872</b>	<b>58,054,398</b>

<b>SCHEDULE 26 - PREPAID DUES ADJUSTMENT</b>		
<b>A) Pre paid dues on 31.3.01</b>	1,96,022.35	----
Outstanding for 31.3.02	8,92,827.00	
	10,88,849.35	
<b>B) Outstanding dues for 31.3.01</b>	6,97,592.37	----
Prepaid on 31.3.02	2,33,433.84	
	9,31,026.21	
<b>A-B</b>	1,57,823.14	
Add. Refectory profit	1,67,604.81	----
	(-) 8,057.00	
	1,59,547.81	
<b>A) Pre paid dues on 31.3.2000 (Students &amp; Misc.)</b>		1,64,544.10
Outstanding dues for 31.3.01 (Students & Misc. + Land Rent)		6,97,592.37
		8,62,136.47
<b>B) Outstanding dues for 31.3.2000 (Students &amp; Misc. + Land Rent)</b>		5,04,526.46
Outstanding dues for 31.3.2001 (Students & Misc. + Land Rent)		1,96,022.35
		7,00,548.81
<b>A-B</b>		1,61,587.66
Add. Refectory profit	2,01,333.29	
	(-) 1,67,604.81	
		33,728.48
<b>TOTAL</b>	<b>3,17,370.95</b>	<b>1,95,316.14</b>


  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

**VISVA - BHARATI**

135

**SANTINIKETAN****SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO THE ACCOUNTS****SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**


1. The financial statements of Visva-Bharati have been prepared on CASH BASIS in order to maintain compatibility with the system followed by the Funding Authorities of the Govt. of India and others.
2. Since funding system and pattern does not allow creation of non-cash Funds, no Depreciation has been provided against the assets acquired and held.
3. Unlike previous years, Sundry Earmarked Funds (SEM Funds) have been broken down into specific heads such Endowment Fund, Benevolent Fund, etc. for better appreciation and understanding of the nature and characteristics of the Funds.
4. Similarly unlike previous years, the figures relating to Plan and other Balance of Grants have been shown broken down into specific heads such as EDUCARE Fund, DEVLUP Fund, OSPRO Fund, SPACT Fund, FLOW Fund, etc. for greater transparency, better monitoring and quicker understanding.
5. In the light of the above (3) and (4)
  - (a) Previous year's figures have been rationalised, regrouped and recast on due reconciliation;
  - (b) Investment of Funds has been reclassified Fund-wise to establish speedy linkage.
6. Unlike previous years, Income and Expenditure Account has been separately drawn up and made a part of the financial statements and thus disclosing the distinction between Capital Expenditure and Revenue Expenditure in clear terms.
7. Unlike previous years, current year's figures have been furnished along with previous year's corresponding figures for ease of comparison and compliance with the standard Accounting principles and practices.
8. Unlike previous years, Asset Schedule of Santiniketan Accounts shows movement during the financial year.
9. Unlike previous years, Receipts and Payments Account has been shown in a compact manner as per requirement of the new format prescribed.



(Sd/-)  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

**NOTES TO THE ACCOUNTS**

1. The accounts for the financial year ending 31st March 2001 have been compiled based on the records available under the existing system of bookkeeping. Deficiencies in the existing system have been sought to be made up with the help of data compiled on computer using standard application package. Accordingly, most back-up papers are computer generated.
2. In the interest for fair disclosure of material information, it is declared that cash balance in hand of Rs. 6,48,794/- at the end of the year truly represents un-disbursed liabilities, although corresponding expenditure has been shown as booked. Accordingly, an equivalent amount has been shown as Liability.
3. An un-reconciled amount of Rs. 4,83,457/- has been shown as Asset against suspense for linkage and adjustment in the subsequent financial year.



(Sd/-)  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

## VISVA - BHARATI

## SANTINIKETAN

## RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT (REVENUE) FOR THE FINANCIAL YEAR 2001 - 02

## RECEIPTS

	Current Year	Previous Year
Field Study	3,798	3,241
Sale of Journal	19,238	4,635
Misc. Receipts(Computer Centre)	54,913	
Library Fees	6,206	
Cost of Lost Book	4,507	10,957
Sale of Bulletin/Prospectus/Adm. Forms	1,350,001	836,838
Sale of Research Publication	31,315	18,949
Visva Bharati Patrika(Quarterly) Subscription	15,797	
Honorarium to Contributors	300	18,023
Sale of Publication	1,906	4,197
Sale of Visva Bharati News	10	75
Gate Money from Rabindra Bhavana	757,524	654,811
Other Item Conveyance Advance	390,426	501,349

## PAYMENTS

	Current Year	Previous Year
Establishment Expenditure		
Salary & Allowances		
a) Basic Salary - Teaching	53,970,689	76,508,805
b) Basic Salary - Non Teaching	75,615,541	62,771,596
c) Allowances - Teaching	26,888,192	35,841,541
d) Allowances - Non Teaching	34,865,670	26,277,816
e) Wages & Payment for Services		
f) Honorarium		
g) Ad hoc Bonus	2,620,842	2,527,497
h) Payment for Extra-Time work	1,399,832	1,360,328
Retirement Benefits		
Pension	57,425,064	54,145,684
Gratuity	13,281,572	11,955,298
Leave Encashment		
Contribution to C.P.F	649,140	771,504
Staff Welfare		
Contribution to Group Insurance	150,282	157,118
Leave Travel Assistance	355,480	2,624,982
Staff Recreation Club	11,500	10,650
Staff Excursions	15,000	30,000
Sports & Games		
Liveries & Uniforms	377,043	403,601
Others	231,036	183,908

## STUDENTS FEES A/C:-

Tuition Fees	1,376,005	1,112,486
Residence Fee	488,650	411,365
Admission Fee	229,620	178,070
Registration Fee	42,095	73,976
Library Adm. Fee	1,939	1,927
Examination Fee	226,162	223,648
Marksheet Fee	21,042	19,406
Sports Fee	25,470	22,549
Migration Fee	14,360	10,150
Degree in Absentia	28,065	16,750
Diploma/Certificate Fee	9,525	3,900
Misc. Receipts	205,941	184,603
Breakage Charge	22,565	13,515

## VISVA - BHARATI

## SANTINIKETAN

## RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT (REVENUE) FOR THE FINANCIAL YEAR 2001 - 02

	RECEIPTS		PAYMENTS	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Transcription Fee	12,400	16,420	Medical Expenses	
Institutional Charges	11,000	23,000	a) Cost of Medicine	1,247,822
			b) Cost of Consumables	44,760
Tender Form/Agreement	118,050	234,865	c) Cost of Instruments	1,300
Misc. Receipts	54,250		d) Cost of Beddings & Linen	25,168
Laboratory Charges/Clinical(Path.)	3,664	1,757	e) Cost of X-Ray Films	21,970
X-Ray Charges	1,480	1,236	f) Cost of Stationery	219,312
Medical Fee	145,233	81,444	g) Cost of Reimbursement	
ECG Charges	2,680	1,691	i) Domiciliary Treatment	200
Income from Garden	25,887	29,287	ii) Hospital Treatment	3,310,175
Printing		614		
Bus Fare	28,907	22,430	h) Cost of Provisions	6,623
Night Watch Charges	1,838	2,148	i) Uniform	25,756
Electric Charges	51,295	35,062	j) Hospital Upkeep	517,566
Water Charges	416,814	368,122	k) Clinical Expenses	159,268
Leave Salary & Pension Contribution	230,558	172,953	l) Contribution to Hospitals	50,000
Income from Land/Building & Other Properties			Education, Training & Research	
House Rent	360,788	416,466	a) Teaching Aids & Facilities	103,827
Furniture Rent	16,304	23,262	b) Demonstration Lecture	49,158
Fan Rent	10,380	11,347	c) Field Study	31,585
Land Rent	27,826	32,240	d) Departmental Projects	162,585
Rent from Guest House	854,145	843,010	e) Journals & Periodicals	34,552
Telephone Charges	1,177	7,553	f) Conferences, Seminars & Workshops	222,744
Income from Fax	2,534	5,530	g) Study Tours/Excursions	
Misc. Receipts	26,178	15,862	h) Technical Publications	7,175
Income from Ponds	177,050	150,387	i) Printing & Stationery	49,004
Contribution from Granthana Vibhaga	13,000	12,000	j) Consumables	44,222
Royalty from Granthana Vibhaga	113,000	113,000		





## VISVA - BHARATI

## SANTINIKETAN

## RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT (REVENUE) FOR THE FINANCIAL YEAR 2001 - 02

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	
			Current Year	Previous Year
			<b>Repairs &amp; Maintenance</b>	
			Roads & Pathways	11,122
			Bhavans	9,565
			Museums, Galleries & Painting	4,776
			Students' Hostels	8,552
			Staff Quarters	
			Guest Houses	
			Hospital Buildings	
			Library Buildings	28,342
			Office Buildings	5,684,297
			Gardens & Playground	77,761
			Estate & Campus	44,325
			Physical Training Equipments	709
			Water Works & Supply	771,501
			Electrical Installations incl LAN	32,010
			Telephone Installations	6,386
			Motor Vehicle	419,378
			Scientific Equipments	1,410
			Audio-Video Equipments	56,927
			Musical Instruments	
			Office Equipments & Computers	1,449,751
			Generator Sets	1,333,717
			AC Plant	66,520
			Furniture & Fittings	178,875
			Administrative Expenditure	807,451
			<b>Rent, Rates and Taxes</b>	<b>8,400</b>
				15,450

**VISVA - BHARATI****SANTINIKETAN****RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT (REVENUE) FOR THE FINANCIAL YEAR 2001 - 02**

<b>RECEIPTS</b>	<b>PAYMENTS</b>	
<b>Current Year</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
	<b>Electricity and Power</b>	
	Electricity & Power	6,235,045
	Fuel & Lubricants for Generators	22,000
	<b>Insurance</b>	
	a) Buildings	
	b) Museums	
	c) Vehicles	68,860
	d) Cash	120,875
	<b>Vehicles Running and Maintenance</b>	663,936
	<b>Communication</b>	
	Postage & Courier Charges	89,491
	Telephone & FAX	1,278,132
	<b>Travelling and Conveyance</b>	
	a) Foreign Travel : Cost of Ticket	
	b) Foreign Travel : Others	
	c) Inland Travel : Cost of Ticket	
	d) Inland Travel : Others	9,600
	e) Local Conveyance	17,810
	<b>Subscriptions &amp; Contributions</b>	
	Institutional Membership	1,263,430
	Contribution to Karmi Sabha	10,000
	Contribution to Adhyapak Sabha	8,000




**VISVA - BHARATI**  
**SANTINIKETAN**  
**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT (REVENUE) FOR THE FINANCIAL YEAR 2001 - 02**

RECEIPTS	PAYMENTS	
	Current Year	Previous Year
	Office Administration	
	Office Upkeep	1,290,658
	Printing and Stationery	64,821
	Books & Periodicals	9,800
	Charges General	144,144
	Hospitality Expenses	
	a) V.V.I.Ps	
	b) V.I.Ps	
	b) Senior Govt Officials	
	c) Governing Committee Members	
	d) University Guests	73,415
	e) Others	78,406
	Legal & Professional Charges	
	Lawyers' Fees	
	Legal Charges	291,082
	Professional Consultants' Fees	
	Charges for Professional Services	
	Advertisement and Publicity	
	a) Admission Notice	
	b) Tender Notice	
	c) Recruitment Notice	
	d) Legal Notice	
	e) General Notice	556,190
		674,367

**VISVA - BHARATI**  
**SANTINIKETAN**  
**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT (REVENUE) FOR THE FINANCIAL YEAR 2001 - 02**

RECEIPTS	PAYMENTS	
	Current Year	Previous Year
Meeting Expenses		
a) Executive Council Meeting		
b) Finance Committee Meeting		
c) Internal Committee Meetings		
d) Other Meetings	808,873	944,910
Grants & Subsidies		
PSV.SRNKT	32,611,184	33,231,022
PSB.SRNKT	22,617,687	24,823,376
Furniture & Equipments	1,169,264	1,722,128
Conveyance Advance	901,854	416,663
VC's Discretionary Fund	6,000	6,500
Refund of Tuition Fees	4,119	4,185
	<u>370,774,621</u>	<u>376,808,696</u>
Opening Balance as on 1st April, 2001	394,114,701	363,476,872
	-142,001	13,189,824
	<u>393,972,700</u>	<u>376,666,696</u>
Closing Balance as on 31st March, 2002	23,198,079	-142,001
	<u>393,972,700</u>	<u>376,666,696</u>

  
 Accounts Officer  
 Visva-Bharati

  
 Finance Officer  
 Visva-Bharati

  
 Registrar  
 Visva-Bharati

**VISVA-BHARATI**  
**SANTINIKETAN**  
*Receipts and Payments Account for the year 2001-2002*  
 (NON-REVENUE)

**RECEIPTS****GRANTS FROM C.S.I.R. PROJECTS:**

Fellowship
C.S.I.R. Project under Asim Kumar Das (1)
C.S.I.R. Project under Sri S.P. Sinha Babu
C.S.I.R. Project under Prof. Samir Kumar Roy
C.S.I.R. Project under Sri Asim Kumar Das (2)
C.S.I.R. Project under Sri Kashinath Bhattacharya
C.S.I.R. Project under Sri Taraprosad Chattopadhyay

**PAYMENTS****GRANTS FROM C.S.I.R. PROJECTS:**

Fellowship	96,344.00	1,59,624.00
C.S.I.R. Project under Prof. Samir Bhattacharya	1,633.00	1,85,625.23
C.S.I.R. Project under Dr. S.P. Sinha Babu	5,600.00	8,600.00
C.S.I.R. Project under Prof. Samir Roy	1,00,025.00	1,71,512.00
C.S.I.R. Project under Sri Asim Kumar Das (2)	72,600.00	1,33,975.00
C.S.I.R. Project under Sri Kashinath Bhattacharya	2,46,000.00	1,70,012.00
C.S.I.R. Project under Sri Taraprosad Chattopadhyay	2,16,667.00	3,729.00
Visiting Fellow		9,290.00
Research Associate		8,600.00

**Deposit :**

Misc. Deposit
Union Fee
Magazine Fee
Student's Aid Fund
Patha-Bhavana Students' Deposit
Caution Money
Students' Fees A/c.
Kitchen Deposit
Library Deposit
Laboratory Caution Deposit
Utensils Deposit
Caution Money for Patha-Bhavana Student Deposit
Earnest Money

**Deposit :**

Misc. Deposit	2,38,08,254.50	2,64,66,320.04
Union Fee	1,07,264.00	37,410.00
Magazine Fee	76,161.00	65,140.00
Students Aid Fund	96,378.00	33,340.00
Patha-Bhavana Students' Deposit	3,47,271.00	3,00,000.00
Caution Money	93,350.00	54,235.00
Students' Fees A/c.	41,90,495.70	41,90,495.70
Kitchen Deposit	20,570.00	15,434.00
Library Deposit	81,930.00	26,400.00
Laboratory Caution Deposit	28,600.00	7,925.00
Utensils Deposit	65,760.00	42,480.00
Caution Money for Patha-Bhavana Student Deposit	12,400.00	14,800.00
Earnest Money	7,40,275.00	6,63,468.00

C.O.

3,64,07,578.20

C.O.

3,27,68,414.97

**VISVA-BHARATI**  
**SANTINIKETAN**  
*Receipts and Payments Account for the year 2001-2002*  
 (NON-REVENUE)

**RECEIPTS**

<b>B.F.</b>	
Deposit : (Contd.)	
Security Money	
P.F. Subscription	
P.F. Loan	
Co-Operative Bank	
Income Tax	
Contractors' Income Tax	
Contractors' Sale Tax	
<b>PATHA-BHAVANA REFECTORY No. 1 :</b>	
Kitchen Charges	

3,04,07,578.20
28,30,707.00
2,68,36,157.00
86,85,374.97
1,66,13,699.35
1,00,96,243.00
8,84,038.00
8,42,710.00
12,63,709.28

**PAYMENTS**

<b>B.F.</b>	
Deposit : (Contd.)	
Security Money	
P.F. Subscription	
P.F. Loan	
Co-Operative Bank	
Income Tax	
Contractors' Income Tax	
Contractors' Sale Tax	
<b>PATHA-BHAVANA REFECTORY No. 1 :</b>	
Food Charges	
<b>U.G.C. GRANT FOR IX PLAN SALARY :</b>	
Rabindra Music & Dance	

11,52,676.70

57,015.00  
 57,015.00

**BOTANY :****Teaching Staff:**

Salary	1,01,129.00
Dearness Allowance	44,053.00
House Rent Allowance	7,589.00
Transport Allowance	4,000.00
	1,56,771.00

**MATHEMATICS :****Teaching Staff:**

Salary	1,11,100.00
Dearness Allowance	48,391.00
	1,59,491.00
	9,94,17,302.73

C.O.

C.O.

## VISVA-BHARATI

## SANTINIKETAN.

Receipts and Payments Account for the year 2001-2002

(NON-REVENUE)

## RECEIPTS

B.F.

9,84,60,216.80

## PAYMENTS

B.F.

9,94,17,302.73

U.G.C. GRANT FOR IX PLAN SALARY : (contd.)

PHYSICS :

Teaching Staff :

Salary

84,533.00

Dearness Allowance

36,899.00

House Rent Allowance

6,340.00

Transport Allowance

3,827.00

1,31,599.00

ZOOLOGY :

Teaching Staff :

Salary

1,04,225.00

Dearness Allowance

45,402.00

House Rent Allowance

7,817.00

Transport Allowance

4,000.00

1,61,444.00

ENVIRONMENTAL STUDIES :

Salary

2,47,857.00

Dearness Allowance

1,07,703.00

House Rent Allowance

18,591.00

Transport Allowance

8,408.00

3,82,559.00

STATISTICS :

Teaching Staff :

Salary

1,93,511.00

Dearness Allowance

47,331.00

House Rent Allowance

8,138.00

Transport Allowance

4,214.00

2,53,194.009,84,60,216.80

C.O.

C.O.

10,03,46,098.73

**VISVA-BHARATI**  
**SANTINIKETAN**  
*Receipts and Payments Account for the year 2001-2002*  
 (NON-REVENUE)

**RECEIPTS****B.F.**

9,84,60,216.80

**PAYMENTS**

10,03,46,098.73

**B. F.**  
**U.G.C. GRANT FOR IX PLAN SALARY : (contd.)**

**ECONOMICS :****Teaching Staff :**

Salary

Dearness Allowance

House Rent Allowance

Transport Allowance

4,42,558.00

**ENGLISH :**

Salary

Dearness Allowance

House Rent Allowance

Transport Allowance

1,36,101.00

**HISTORY :**

Salary

Dearness Allowance

House Rent Allowance

Transport Allowance

4,56,217.00

**COMPUTER CENTRE :****Teaching Staff :**

Salary

Dearness Allowance

House Rent Allowance

Transport Allowance

97,530.00

40,490.00

6,971.00

4,400.00

1,49,391.00

**JAPANESE :****Teaching Staff :**

Salary

88,000.00

88,000.00

9,84,60,216.80

C.O.

C.O.

10,16,18,365.73

## VISVA-BHARATI

## SANTINIKETAN

Receipts and Payments Account for the year 2001-2002  
(NON-REVENUE)

## RECEIPTS

B.F.

## PAYMENTS

9,84,60,216.80

B. F.

U.G.C. GRANT FOR IX PLAN SALARY : (contd.)

KALA-BHAVANA :

10,16,18,365.73

Non-Teaching Staff :

Salary	3,25,580.00
Dearness Allowance	59,556.00
House Rent Allowance	10,198.00
Transport Allowance	4,000.00
	<u>3,99,334.00</u>

Philosophy :Teaching Staff :

Salary	1,23,550.00
Dearness Allowance	59,221.00
House Rent Allowance	9,265.00
Transport Allowance	6,000.00
	<u>1,98,036.00</u>

K.S. COMPUTER :

Salary	1,23,000.00
Dearness Allowance	21,280.00
House Rent Allowance	3,600.00
Transport Allowance	900.00
	<u>1,48,780.00</u>

PATNA-BHAVANA :Teaching Staff :

Salary	39,167.00
Dearness Allowance	14,495.00
	<u>53,662.00</u>

C.O.

9,84,60,216.80

C.O.

10,24,18,177.73

## V I S V A - B H A R A T I

## S A N T I N I K E T A N

Receipts and Payments Account for the year 2001-2002

(NON-REVENUE)

## RECEIPTS

B.F.

9,84,60,216.80

## PAYMENTS

B. F.

10,24,18,177.73

## U.G.C. GRANT FOR IX PLAN SALARY : (contd.)

## BIO-TECHNOLOGY :

Salary

9,032.00

Dearness Allowance

4,065.00

House Rent Allowance

677.00

Transport Allowance

452.00

14,226.00

## U.G.C. GRANT FOR IXTH PLAN :

Books

30,92,428.00

Equipments

1,27,30,576.75

## ONE TIME GRANT :

Laboratory Equipments

28,03,369.00

Library Equipments

10,46,000.00

Library Books

16,97,271.00

## IXTH PLAN SALARY:

## AGRICULTURE :

## Teaching Staff:

Salary

22,194.00

Dearness Allowance

9,987.00

House Rent Allowance

1,665.00

Transport Allowance

1,110.00

34,956.00

## SIKSHA-SATRA :

## Teaching Staff:

Salary

78,700.00

Dearness Allowance

34,279.00

1,12,979.00

9,84,60,216.80

C.O.

C.O.

12,39,49,983.48



**VISVA-BHARATI**  
**SANTINIKETAN**  
*Receipts and Payments Account for the year 2001-2002*  
 (NON-REVENUE)

**RECEIPTS**

B.F.

9,84,60,216.80

**PAYMENTS**

B. F.

12,39,49,983.48

**UPADHYAYA'S OFFICES :**

Salary

1,49,467.00

Dearness Allowance

65,068.00

House Rent Allowance

271.00

---

2,14,806.00

---

**K.S. OFFICE :**

Salary

2,69,820.00

Dearness Allowance

1,15,904.00

House Rent Allowance

19,913.00

Transport Allowance

8,400.00

---

4,14,037.00

---

**UNASSIGNED GRANT :**

Group - A

3,74,199.00

Group - B

1,95,667.00

**U.G.C. GRANT FOR SPECIFIC PURPOSE :**

Refresher Course

10,01,200.00

Special Assistance Programme SAP/DSA

12,90,000.00

COSIST Programme Zoology Department

11,05,000.00

Part Time Research Associate—Srabani Chakraborty

53,000.00

Setting up of Single Sanskrit Speaking Course

1,00,000.00

Part Time Research Associate—Saswati Kapal

1,48,600.00

Special Grant for Office Automation

20,00,000.00

C.O.

---

10,41,58,016.80

---

C.O.

---

13,18,62,672.63

---

**U.G.C. GRANT FOR SPECIFIC PURPOSE :**

Research Associateship

6,497.00

Refresher Courses

10,63,335.34

Special Assistance Programme SAP/DSA

12,92,145.00

Platinum Jubilee Celebration

29,24,637.08

Special Grant for Major Repairing of Building

10,07,447.06

Assistance for SC/ST Cell

17,499.00

Setting up of Indira Gandhi Centre for National Integration

3,34,535.67

**U.G.C. GRANT FOR SPECIFIC PURPOSE :**

Indo-French for Cultural Exchange Programme

67,884.00



## VISVA-BHARATI

## SANTINIKETAN

Receipts and Payments Account for the year 2001-2002  
(NON-REVENUE)

## RECEIPTS

B.F.

15,78,88,016.80

## PAYMENTS

B. F.

15,03,61,880.89

## U.G.C. GRANT FOR SPECIFIC PURPOSE (CONTD.):

Construction of Class Room, Teachers' Room,  
Computer Room for Plant Protection, Sriniketan  
Construction of Seminar Hall,  
Teachers' Room, Botany Department  
Construction of Class Room for  
Laboratory 1st Floor, Physics Department  
Campus Development Phase-2  
Repair to Rathindra Hostel, Sriniketan  
Repair & Replacement of Vinoy-Bhavana

12,700.00  
1,02,938.00  
2,75,881.54  
35,00,000.00  
3,60,886.17  
69,663.00

## WEST BENGAL GOVT. GRANT:

West Bengal Govt. Grant for  
N.S.S.

40,000.00

West Bengal Govt. Grant for  
N.S.S.  
Orissa Govt. Grant for Cultural  
Activities

1,25,579.00  
15,388.00

Repair to Quarter vacated by  
Sri P. Baksi, Sri R. Chatterjee, Sri S.K. Mukherjee  
Repair to Agriculture Farm  
Properties at Sriniketan

73,007.00

Repair to PURBITA

2,53,708.82  
4,79,137.52  
6,05,959.34

Construction of Bio-Technology  
Repair & Renovation of P.M. Hospital  
including Operation Theatre

2,77,355.00

Repair, Fixing up Grill, Collapsible Gate  
at the Residence of V.C.

1,35,655.00

Campus Development Erection of Fencing with  
Security Gate in the Core of Ashrama Area

2,87,984.00

Repair to University Press Building

1,49,167.09

Through Repairing and some Renovation Work of  
P.S.B. Library, Sriniketan including  
Electrical Installation work

4,391.00

C.O.

15,79,28,016.80

C.O.

15,70,91,281.37



## VISVA-BHARATI

## SANTINIKETAN

Receipts and Payments Account for the year 2001-2002  
(NON-REVENUE)

RECEIPTS		PAYMENTS	
B.F.		B.F.	
15,91,60,020.55		15,80,81,115.86	
<b>OTHER BODIES GRANT:</b>		<b>OTHER BODIES GRANT:</b>	
DEOMOEL Italian Govt. Grant	77,495.65	Hudco Grant Building Centre	40,694.00
I.U.C.A. Grant for Organising Joint Seminar on School of Austro-Physics		DEOMOEL Italian Govt. Grant	1,25,760.65
The Consulate General of Japan Grant for Asst. Grass Root Project at the Deptt. of Japanese Studies	20,000.00	I.U.C.A. Grant for Organising Joint Seminar on School of Austro-Physics	17,030.00
Tagore Einstein Council Contribution towards Construction of Einstein-Bhavana	96,576.00	Contribution from Basanti Ghatak for Construction of Madhabi Hostel Annex	5,42,956.84
	6,000.00	S.B.I. Grant for Development of Rabindra-Bhavana	5,06,061.00
<b>OTHER BODIES GRANT (CONTD.):</b>		<b>OTHER BODIES GRANT (CONTD.):</b>	
I.N.S.A. Financial Assistance to Symposium held at Physics Deptt.	10,000.00	The Consulate General of Japan Grant for Asst. Grass Root Project at the Deptt. of Japanese Studies	79,690.00
All India Radio Doordarshan Grant for Design Mural Works at Doordarshan-Bhavana	2,00,000.00	I.D.F. Bangalore Grant for National Youth Camp at Visva-Bharati	3,000.00
Japan Foundation Grant for Upgrading Facilities of Japanese Studies	73,790.00	Japan-Indo Tagore Society Grant for Extension of Nippon-Bhavana	8,06,285.02
D.S.T. West Bengal Govt. Grant for Organising 9th State Science Congress at V.B.	4,00,000.00	All India Radio Doordarshan-Bhavana Japan Foundation Grant for Design Mural Workshop at Doordarshan-Bhavana	1,46,520.00
B.K. Birla Foundation Contribution for Repairing Work at Birlalaya Girls' Hostel	4,50,000.00	B.K. Birla Foundation Contribution for Repairing Work at Birlalaya Girls' Hostel	4,20,337.00
R.P.G. Enterprise Contribution for Renovation of the Goenka Girls' Hostel	1,50,000.00	D.S.T. West Bengal Govt. Grant for Workshop on Intellectual Properties Right at Physics Deptt.	30,986.00
D.S.T. West Bengal Govt. Grant for Workshop on Intellectual Properties Right at Physics Deptt.	31,000.00	N.C.R.I. Institute Grant for Non-Recurring Infrastructure Equipments	3,301.00
	16,06,74,882.20		3,301.00
C.O.		C.O.	16,08,03,737.37

**VISVA - BHARATI**  
**SANTINIKETAN**  
*Receipts and Payments Account for the year 2001-2002*  
 (NON-REVENUE)

RECEIPTS		PAYMENTS	
B.F.		B.F.	
S.E.M. FUND:		S.E.M. FUND:	
S.E.M. Fund	2,68,575.00	Investment of S.E.M. Fund	2,00,000.00
V.C.'s Discretionary Fund	1,650.00	Investment of Deposit	81,02,970.00
Investment of Deposit	77,29,521.25	Investment of Grant	55,64,17,809.00
Investment of Grant	55,09,00,000.00	Expenditure out of Income from S.E.M. Fund Investment	1,07,352.00
Income from S.E.M. Fund Investment	12,91,200.70		
Income from Donation Investment of Indira Gandhi Centre	28,000.00		
<b>D.S.T. PROJECT &amp; AUTOMIC ENERGY PROJECT:</b>		<b>D.S.T. PROJECT &amp; AUTOMIC ENERGY PROJECT:</b>	
D.S.T. Project under Smt. Asmita Sengupta	2,06,000.00	D.S.T. Project under Smt. Asmita Sengupta	2,11,555.00
D.S.T. Project under Prof. Shelly Bhattacharya	13,00,000.00	D.S.T. Project under Prof. Shelly Bhattacharya	1,83,644.00
D.S.T. Project under Sri T.P. Chattopadhyay	1,426.16	Automic Energy project under Sri S.N. Roy	1,44,135.00
D.S.T. Project under Sri Arun Kr. Roy	10,50,000.00	M.P. Project under Dr. I.N. Basu Mallick	21,162.00
D.S.T. Project under Sri S.P. Sinha Babu	3,80,000.00	W.B.C.F.R. Project under Dr. T. Chakraborty	19,595.00
Automic Energy project under Sri S.N. Roy	83,230.00	M.H.R.D. Project under Dr. I.N. Basu Mallick	4,53,238.36
M.N.E.S. Project under Dr. Sudhendu Mondal	6,26,094.00	C.S.B. Project under Dr. N.C. Sukul (S.P. Sinha Babu)	1,63,609.00
C.S.B. Project under Dr. N.C. Sukul (S.P. Sinha Babu)	1,38,793.00	I.G.I.D.R. Project under Smt. Srabani Chakraborty	4,49,852.00
I.G.I.D.R. project under Smt. Srabani Chakraborty	2,40,000.00	Bio vita Project under Prof. S.K. Mukhopadhyay	5,254.00
Bio vita Project under Prof. S.K. Mukhopadhyay	20,000.00	ERC/NCTE Project under Dr. D.P. Mukherjee	4,311.00
ERC/NCTE Project under Dr. D.P. Mukherjee	4,345.00	Indira Gandhi Centre for Arts Project under Dr. S.S. Mahapatra	37,611.00
Ministry of Environment Forest Project under Dr. V.C. Joy	8,85,500.00		
Govt. of India - Deptt. of Space Project under Dr. I.N. Basu Mallick	1,10,000.00		
	72,59,39,217.31		72,73,25,834.73
	C.O.		C.O.

**VISVA - BHARATI**  
**SANTINIKETAN**  
*Receipts and Payments Account for the year 2001-2002*  
**(NON-REVENUE)**

**RECEIPTS****B.F.**

72,59,39,217.31

**PAYMENTS****B. F.**

72,73,25,834.73

**D.S.T. PROJECT & AUTOMIC ENERGY PROJECT (CONTD.):**Ministry of Environment Forest Project  
under V.C. JoyPhosphorus & Potassium Magnatic Fish & Red  
Laterite Soil under Prof. G.N. ChattopadhyayGovt. of India - Deptt. of Space Project  
under Dr. I.N. Basu Mallick

M.N.E.S. Project under Dr. Sibhendu Mondal

I.C.A.R. Project under Prof. Shelly Bhattacharya

I.C.A.R. Project under Prof. Arun Kumar Roy

I.C.A.R. Project (Weed) under Prof. T. Chakraborty

I.C.A.R. Project (CIFA) under Prof. Shelly Bhattacharya

I.C.A.R. Project under Dr. P. Nath

I.C.A.R. Project under Prof. Samir Bhattacharya

I.C.H.R. Project under Dr. Arun K. Nag

I.C.P.R. Fellowship - Sri Amiya Chatterjee

I.C.H.R. Fellowship - Kakali Tah

I.C.H.R. Fellowship - Sangita Mishra

I.C.S.S.R. Project under Smt. Chhanda Bose

I.C.P.R. Fellowship - Nizamuddin Seikh

West Bengal Govt. Scholarship

Other Govt. Scholarship

Central Govt. Scholarship

U.G.C. Research Fellowship

**STIPEND & SCHOLARSHIP:**

West Bengal Scholarship

Other Govts. Scholarship

Central Govt. Scholarship

U.G.C. Research Fellow

**STIPEND & SCHOLARSHIP:**

West Bengal Govt. Scholarship

Other Govt. Scholarship

Central Govt. Scholarship

U.G.C. Research Fellowship

72,89,63,895.31

C.O.

C.O.

73,13,52,152.46

**VISVA - BHARATI**  
**SANTINIKETAN**  
*Receipts and Payments Account for the year 2001-2002*  
 (NON-REVENUE)

**RECEIPTS****B.F.****U.G.C. Research Project:**

U.G.C. Research Project under Dr. Rup Kr. Kar	
U.G.C. Research Project under Dr. Puspajit Mondal	
U.G.C. Research Project (No. 2) under Dr. Bijoy Kr. Mukherjee	
U.G.C. Research Project under Dr. Swapan Mondal	
U.G.C. Research Project under Dr. S.P. Sinha Babu	
U.G.C. Research Project under Dr. N.C. Mondal	
U.G.C. Research Project under Dr. N.C. Sukul	
U.G.C. Research Project under Dr. Baishnab Ch. Samal	
U.G.C. Research Project under Dr. Kashinath Bhattacharya	
U.G.C. Research Project under Dr. Aliva Dakshi	

**U.G.C. Research Project (contd.):**

U.G.C. Research Project under Dr. Santobrata Chakraborty	
U.G.C. Research Project under Dr. Swadesh Ranjan Biswas	
U.G.C. Research Project under Dr. D.P. mukherjee	
U.G.C. Research Project under Dr. P. Halder	

**PAYMENTS****B.F.****U.G.C. Research Project:**

U.G.C. Research Project under Dr. Rup Kr. Kar	
U.G.C. Research Project under Dr. Dikshit Sinha	
U.G.C. Research Project under Dr. Puspajit Mondal	
U.G.C. Research Project under Dr. Anun Kr. Roy	
U.G.C. Research Project under Dr. Dipak Bhattacharya	
U.G.C. Research Project (No. 1) under Dr. Bijoy Mukherjee	
U.G.C. Research Project (No. 2) under Dr. Bijoy Mukherjee	
U.G.C. Research Project under Dr. Swapan Mondal	
U.G.C. Research Project under Dr. S.P. Sinha Babu	
U.G.C. Research Project under Dr. N.C. Mondal	

**U.G.C. Research Project (contd.):**

U.G.C. Research Project under Dr. N.C. Sukul	
U.G.C. Research Project under Dr. Baishnab Ch. Samal	
U.G.C. Research Project under Dr. Kashinath Bhattacharya	
U.G.C. Research Project under Dr. Aliva Dakshi	
U.G.C. Research Project under Dr. N.B. Harichandan	
Part time Research Associate Dr. Subani Chakraborty	
Part time Research Associate Dr. Saswati Kapat	
Part time Research Associate Dr. Mimi A.	
U.G.C. Research Project under Dr. Asim Kr. Das	

72,89,63,895.31

73,13,52,152.46

35,674.00  
 71,356.00  
 76,000.00  
 1,94,280.00  
 1,53,780.00  
 2,78,048.00  
 4,77,850.00  
 1,42,800.00  
 1,44,780.00  
 1,33,500.00

39,991.00  
 76,578.00  
 63,582.00  
 29,794.00  
 16,583.00  
 13,690.00  
 13,146.00  
 46,949.00  
 41,456.00  
 84,257.00

26,336.00  
 3,78,680.00  
 1,94,050.00  
 14,682.00

3,23,326.00  
 4,436.00  
 43,987.00  
 89,567.00  
 1,51,390.00  
 57,667.00  
 79,300.00  
 20,798.00  
 1,633.00

C.O.

73,12,85,711.31

C.O.

73,25,50,284.46







**VISVA - BHARATI**  
SANTINIKETAN  
NIPPON-BHAVANA

*Receipts and Payments Accounts for the year 2001-2002*

RECEIPTS :	Rs	P.	Rs.	P.	PAYMENTS :	Rs.	P.	Rs.	P.
Interest on Investment			1,10,575.00		Remuneration to Seminar			29,955.00	
Opening Balance			28,42,862.68		Profession Tax			190.00	
					Closing Balance			29,23,292.68	
			<u>29,53,437.68</u>					<u>29,53,437.68</u>	

*Accountants Officer*  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

*Balance Sheet as at 31. 3. 2002*

LIABILITIES :	Rs.	P.	Rs.	P.	ASSETS :	Rs.	P.	Rs.	P.
1) BLOCK ASSETS : (As per Contra)			24,74,321.00		1) As per last A/c.	22,40,837.58			
					Furniture & Fittings :	2,33,483.42			
								24,74,321.00	
2) GENERAL FUNDS : As per last A/c.			15,57,980.72		2) INVESTMENT : As per last A/c.			10,95,750.00	
(+) Interest received during this year			1,10,575.00		3) BANK BALANCE :			29,23,292.68	
			<u>16,68,555.72</u>						
3) GRANTS RECEIVED : As per last A/c.			22,81,162.00						
(-) Expenditure made during 2001-02			30,145.00						
			<u>22,51,017.00</u>						
4) DEPOSIT STORE STOCK : Payable to Visva-Bharati STEEL ACCOUNT : As per last A/c.			99,469.96						
			<u>64,93,363.68</u>					<u>64,93,363.68</u>	

*Accountants Officer*  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

**V I S V A - B H A R A T I**  
**PALLI SAMGATHANA VIBHAGA, SRINIKETAN**  
*Balance Sheet as at 31.03.2002*

CAPITAL FUND AND LIABILITIES	SCHEDULE	(AMOUNT-Rs.)	
		Current Year	Previous year
BLOCK CAPITAL FUND	1	13,563,046.85	12,767,796.18
GOVT AIDED/SPONSORED EDUCATIONAL— ("EDUCARE") PROJECT FUND	2	331,497.47	290,279.47
OTHER SPONSORED PROJECT ("OSPRO") FUND	3	540,704.85	266,825.80
DEPOSITS AND ADVANCES	4	9,863,098.30	8,954,635.63
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	5	45,387.79	59,706.79
<b>TOTAL</b>		<b>24,343,735.26</b>	<b>22,339,243.87</b>

**ASSETS**


FIXED ASSETS	6	13,563,046.85	12,767,796.18
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	7	10,780,688.41	9,571,447.69
<b>TOTAL</b>		<b>24,343,735.26</b>	<b>22,339,243.87</b>


**V I S V A - B H A R A T I**  
**PALLI SAMGATHANA VIBHAGA, SRINIKETAN**  
*Income & Expenditure A/c for the year 2001-2002*

A. INCOME	SCHEDULE	(AMOUNT-Rs.)	
		Current Year	Previous year
Grants and subsidies	8	33,550,400.00	35,095,500.00
Fees / Subscriptions	9	247,498.22	260,022.00
Other Income	10	203,405.40	158,295.20
<b>TOTAL = A</b>		<b>34,001,303.62</b>	<b>35,513,817.20</b>

**B. EXPENDITURE**

Establishment Expenses	11	28,909,655.10	28,291,421.80
Other Administrative Expenses etc.	12	3,367,587.34	4,719,468.39
<b>TOTAL = B</b>		<b>32,277,242.44</b>	<b>33,010,890.19</b>
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		17,24,061.18	25,02,927.01
Transferred to Deposit Central Office		939,215.51	1,864,477.51
Transferred to Block Capital Fund		784,845.67	638,449.50

  
 Assistant Accounts Officer  
 Visva-Bharati, Sriniketan

  
 Finance Officer  
 Visva-Bharati

  
 Registrar  
 Visva-Bharati

**V I S V A - B H A R A T I**  
**PALLI SAMGATHANA VIBHAGA, Sriniketan**  
*Consolidated Schedule 2001-2002*

**CURRENT YEAR**  
**2001-02**

**SCHEDULE-2 ("EDUCARE") PROJECT FUND**

Opening Balance	2,90,279.47
Receipt this year (INFLOW)	12,59,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,49,279.47</b>
Expenditure this year (OUTFLOW)	12,17,782.00
Closing Balance as on 31.03.02	3,31,497.47

**SCHEDULE-3 ("OSPRO") FUND**

Opening Balance	2,66,825.80
Receipt this year (INFLOW)	11,04,858.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,71,683.80</b>
Expenditure this year (OUTFLOW)	8,30,978.95
Closing Balance as on 31.03.02	5,40,704.85

**SCHEDULE-4 DEPOSIT & ADVANCE**

Opening Balance	89,54,635.63
Receipt this year (INFLOW)	1,38,80,168.12
<b>TOTAL</b>	<b>2,28,34,803.75</b>
Expenditure this year (OUTFLOW)	1,29,71,705.45
Closing Balance as on 31.03.02	98,63,098.30

**SCHEDULE-5 CURRENT LIABILITIES**

Opening Balance	36,156.79
Receipt this year (INFLOW)	28,457.00
<b>TOTAL</b>	<b>64,613.79</b>
Expenditure this year (OUTFLOW)	19,226.00
Closing Balance as on 31.03.02	45,387.79

**SCHEDULE-6 FIXED ASSETS**

Opening Balance	1,27,67,796.18
Receipt this year (INFLOW)	7,95,250.67
<b>TOTAL</b>	<b>1,35,63,046.85</b>
Expenditure this year (OUTFLOW)	NIL
Closing Balance as on 31.03.02	1,35,63,046.85

**SCHEDULE-7 CURRENT ASSETS**

Opening Balance	83,95,000.62
Receipt this year (INFLOW)	77,66,082.89
<b>TOTAL</b>	<b>1,61,61,083.51</b>
Expenditure this year (OUTFLOW)	53,80,395.10
Closing Balance as on 31.03.02	1,07,80,688.41

  
 Assistant Accounts Officer  
 Visva-Bharati, Sriniketan

**V I S V A - B H A R A T I**  
**PALLI SAMGATHANA VIBHAGA, Sriniketan**  
*Consolidated Schedule 2001-2002*

**CURRENT YEAR**  
**2001-02**

**SCHEDULE-9 FEES & SUBSCRIPTION**

Opening Balance	NIL
Receipt this year (INFLOW)	<u>2,47,498.22</u>
TOTAL	<u>2,47,498.22</u>
Expenditure this year (OUTFLOW)	<u>NIL</u>
Closing Balance as on 31.03.02	<u>2,47,498.22</u>

**SCHEDULE-10 OTHER INCOME**


Opening Balance	NIL
Receipt this year (INFLOW)	<u>2,03,405.40</u>
TOTAL	<u>2,03,405.40</u>
Expenditure this year (OUTFLOW)	<u>NIL</u>
Closing Balance as on 31.03.02	<u>2,03,405.40</u>

**SCHEDULE-11 ESTABLISHMENT EXPENSES**

a) Salary and Wages	1,71,99,718.10
b) Allowance and Bonus	1,04,24,430.00
c) Contribution to Provident Fund	1,34,503.00
d) Contribution to other Fund	0.00
e) Staff Welfare Expenses	90,269.00
f) Expenses on Employees Retirement and Terminal Benefits	6,03,255.00
g) Medical Expenses	4,57,480.00
<b>TOTAL</b>	<u><b>2,89,09,655.10</b></u>

**SCHEDULE-12 OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES**

a) Electricity and Power	3,12,891.60
b) Insurance	21,088.00
c) Repair and Maintenance	13,55,402.80
d) Vehicle Running and Maintenance	1,87,395.00
e) Postage, Telephone and Communication Charges	1,49,001.85
f) Printing and Stationery	1,39,329.68
g) Travelling Conveyance Expenses	2,662.00
h) Others (Specify)	
i) Office Administration	9,73,653.03
ii) Education Training and Research	71,750.35
iii) Student Welfare	1,08,866.50
iv) Meeting Expenses	1,626.00
v) Furniture and Equipments	43,920.53
<b>TOTAL</b>	<u><b>33,67,587.34</b></u>

  
Assistant Accounts Officer  
Visva-Bharati, Sriniketan

## VISVA - BHARATI UNIVERSITY

PALLI SAMGATHANA VIBHAGA, SRINIKETAN

Receipts and Payments Accounts, 2001-02

## PART-1

(REVENUE)

## RECEIPTS

Sale of admission form	102795.00	
Misc. Receipts	390.40	
Rent Collection from Staff	19846.00	123031.40

## PAYMENTS

<b>General Administration-1</b>			
Pay- Non-Teaching	696118.00		
Dearness Allowance	301709.00		
H.R. Allowance	37253.00		
Transport Allow.	9950.00		
Other Allowance	6630.00	1051660.00	
Pay- L.S.S	165195.00		
Dearness Allowance	71697.00		
H.R. Allowance	9347.00		
Transport Allow.	3300.00	249539.00	
<b>Other Charges</b>			
Contg. Inclu. Stn. & Print		8583.28	
<b>Accounts Office-2</b>			
Pay- Non-Teaching	1374619.00		
Dearness Allowance	594140.00		
H.R. Allowance	76268.00		
Transport Allow.	15675.00		
Other Allowance	12712.00	2073414.00	
Pay- L.S.S	82090.00		
Dearness Allowance	35755.00		
H.R. Allowance	6155.00		
Transport Allow.	1650.00		
Other Allowance	380.00	126030.00	
<b>Other Charges</b>			
Fuel & Lubricants	1286.00		
Contg. inc. Print. & Stn.	36245.75		
Furniture & Equipment	4837.00	42368.75	
<b>Secretary &amp; Convenor Office-3</b>			
Pay- Non-Teaching	49600.00		
Dearness Allowance	21137.00		
H.R. Allowance	3641.00		
Transport Allow.	825.00	75203.00	
Pay- L.S.S	52250.00		
Dearness Allowance	22757.00		
H.R. Allowance	3916.00		
Transport Allow.	825.00		
Other Allowance	825.00	80573.00	
<b>C.I.W.T—Teaching-4</b>			
Pay	72000.00		
Dearness Allowance	31600.00		
H.R. Allowance	3000.00		
Transport Allow.	2000.00	108600.00	

C.O. 123031.40

C.O. 38,15,971.03

## VISVA-BHARATI UNIVERSITY

PALLI SAMGATHANA VIBHAGA, SRINIKETAN

Receipts and Payments Accounts, 2001-02

PART-I

(REVENUE)

## RECEIPTS

B.F. 1,23,031.40

## Academic Office C.I.T

Admission Fee	5700.00
Tuition Fee	16677.00
Seat Rent	9325.00
Medical Fee	290.00
Sports & Games Fee	300.00
Library Fee	150.00
Library Admission Fee	50.00
Surcharges	1794.00
Identity card	16.00
Library Card	10.00
Sale Proceed of C.I.T Trg	9048.22

43360.22

## PAYMENTS

B.F. 38,15,971.03

Pay- N.T	80929.10
Dearness Allowance	37841.00
H.R.Allowance	6586.00
Transport Allow.	1275.00
	126631.10

## Academic Office-5

C.I.Trg. Inc.Work Shop	
Pay- N.T	84462.00
Dearness Allowance	36882.00
H.R.Allowance	4984.00
Transport Allow.	1350.00
Other Allowance	616.00
	128294.00

Pay- L.S.S	280181.00
Dearness Allowance	121959.00
H.R.Allowance	16532.00
Transport Allow.	6907.00
	425579.00

## Other Charges

Contg.inc.Print. & Stn.	4914.00
-------------------------	---------

## C.I.Trg. Inc.Work Shop-5

Pay- Teaching	1712925.00
Dearness.Allowance	771912.00
H.R.Allowance	93621.00
Transport Allow.	41719.00
Other Allowance	2058.00
C.P.F	16640.00
	2638875.00

## Other Charges

Furniture & Fixture	14266.45
Tools & Equipment	12584.00
Equip.Repair & Replace.	15964.28
Student excursion	15540.00
Contingency	6740.60
Transport Hiring Charges	81772.00
Rowmaterial for 3 Tech Cr	34733.00
Hono.,TA/DA for G Lects.	48447.16
	230047.49

## Elmhirst Craft Museum

Purchase of Craft Matls.-	
and display in exhibition	3378.00
Contingency	808.00
Display stand... Illuminat-	
ion ,Audio Visual Aid etc.	8702.47
	12888.47

C/O 166391.62

C.O. 73,83,200.09



## VISVA-BHARATI UNIVERSITY

PALLI SAMGATHANA VIBHAGA, SRINIKETAN

Receipts and Payments Accounts, 2001-02

PART-I

(REVENUE)

## RECEIPTS

B.F.

1,66,391.62

## PAYMENTS

B.F.

73,83,200.09

## Common Service &amp; General Charges

Anniversary Festival	132701.25	
Gueste Entertainment	1855.00	
Telephone Charges	149001.85	
Electricity Charges	308032.60	
Stationary & Printing	2818.10	
Travelling Allowance	660.00	
Licence and Insurance	18676.00	
Research Publication	2200.00	
Maint.of Vechicle,Fuel etc	138676.00	
Washing Allowance	36132.00	
Remuneration for Ex. Work	210131.00	
Contingency	1300.00	
Furniture & Equipment	4450.00	1006633.80

## Dy. Registrar (Admn.) O.C

Contingency	2189.75	
T.A	938.00	
Fuel Charges	675.00	
Contg inc.Washing of G.H	760.00	4562.75

## Siksha Satra

Admission Fee	13590.00	
Tuition Fee	113097.00	
Tiffen Fee	47211.00	
Library Card	618.00	
Identity card	4.00	
Transfer Certificate Fee	135.00	
Sale of Admission Form	1020.00	
Surcharges	6018.00	181693.00

## Siksha Satra-6

Pay- Teaching	4630994.00	
Dearness.Allowance	2202864.00	
H.R.Allowance	285692.00	
Transport Allow.	110434.00	
Other Allowance	15000.00	
C.P.F	103640.00	7348624.00
Pay- Non- Teaching	238200.00	
Dearness.Allowance	103752.00	
H.R.Allowance	8288.00	
Transport Allow	1650.00	351890.00

## Pay- L.S.S

Dearness.Allowance	324708.00	
H.R.Allowance	141170.00	
Transport Allow.	18847.00	
Other Allowance	5816.00	
	386.00	490927.00

## Siksha Satra Other Charges

O.C inc.Fur. & Equipment	23255.00	
Teaching Aid	44244.50	
Tiffen to Days Scholar	110460.00	
Contg. Inc Stan.&Print.	56795.55	
Merit Scholarship	11040.00	
Contg.inc Stan.&PrintK.G.	14652.75	
Rathindra Pathagar	8130.65	268578.45

C.O. 3,48,084.62

C.O. 1,68,54,416.09

## VISVA-BHARATI UNIVERSITY

PALLI SAMGATHANA VIBHAGA, SRINIKETAN

Receipts and Payments Accounts, 2001-02

## PART-I

(REVENUE)

## RECEIPTS

B.F. 3,48,084.62

## Siksha Satra Library

Cost for lost Books 18.00

Sale of old Newspaper 420.00  
 Misc. Receipt 20.00  
 Lost of books 120.00 560.00

C.O. 3,48,662.62

## PAYMENTS

B.F. 1,68,54,416.09

## Siksha Satra Library-7

Pay- Non- Teaching 170375.00  
 Dearness Allowance 73835.00  
 H.R. Allowance 4533.00  
 Transport Allow. 825.00 249568.00

## Siksha Satra Library

Pay- L.S.S 30603.00  
 Dearness Allowance 13295.00  
 H.R. Allowance 2298.00  
 Transport Allow. 866.00 47062.00

## Siksha Satra Library O.Charges

Contingency 9597.50

## Siksha Satra Phy. Education

Pay- - Teaching 181755.00  
 Dearness Allowance 69268.00  
 H.R. Allowance 11949.00  
 Transport Allow. 4974.00 267946.00

## Siksha Satra Phy. Education

Pay- - L.S.S 32389.00  
 Dearness Allowance 14093.00  
 H.R. Allowance 2329.00  
 Transport Allow. 823.00 49634.00

## S.Satra Phy.Edn. O.Charges

Purchase of Sports Goods 12935.00  
 Maint. of Play Grounds 5908.00  
 Annual Sports & Tourna. 3622.00  
 Contingency 1020.00  
 Visiting Team O.S.Matches 4435.00  
 Award and Prize 3132.00  
 Allow. P.T.Instructors 4500.00 35552.00

## Music Unit-9

Pay- - Teaching 211275.00  
 Dearness Allowance 93836.00  
 H.R. Allowance 16162.00  
 Transport Allow. 6000.00  
 C.P.F 14223.00 341496.00

## P.S.V - Library-10

Pay- Non- Teaching 182215.00  
 Dearness Allowance 79643.00  
 H.R. Allowance 8877.00  
 Transport Allow. 1650.00  
 Other Allowance 3000.00 275385.00

C.O. 1,81,30,656.59

VISVA-BHARATI UNIVERSITY

PALLI SAMGATHANA VIBHAGA, SRINIKETAN

Receipts and Payments Accounts, 2001-02

**PART-1**  
**(REVENUE)**

<b>RECEIPTS</b>			<b>PAYMENTS</b>		
<b>B.F.</b>		<b>3,48,662.62</b>	<b>B.F.</b>		<b>1,81,30,656.59</b>
			<b>Pay- L.S.S</b>	<b>30603.00</b>	
			<b>Dearness Allowance</b>	<b>13295.00</b>	
			<b>H.R.Allowance</b>	<b>2298.00</b>	
			<b>Transport Allow.</b>	<b>866.00</b>	<b>47062.00</b>
			<b>P.S.V - Library O.Charges</b>		
			<b>Pur. Books,Mag.&amp; N.Paper</b>	<b>50915.75</b>	
			<b>Contingency</b>	<b>3865.00</b>	
			<b>Chaitantika</b>	<b>10569.00</b>	
			<b>Book Binding</b>	<b>6495.40</b>	<b>71845.15</b>
<b>Works &amp; Building</b>			<b>Works &amp; Building-11</b>		
<b>Quarters Rent</b>	<b>61777.00</b>		<b>Pay- Non- Teaching</b>	<b>314527.00</b>	
<b>Rent for Guest House</b>	<b>12520.00</b>		<b>Dearness.Allowance</b>	<b>134985.00</b>	
<b>House Rent (Cr.)</b>	<b>100.00</b>		<b>H.R.Allowance</b>	<b>8873.00</b>	
<b>Rent for Furniture</b>	<b>2562.00</b>	<b>76959.00</b>	<b>Transport Allow.</b>	<b>1950.00</b>	<b>460335.00</b>
			<b>Pay- L.S.S</b>	<b>795635.00</b>	
			<b>Dearness.Allowance</b>	<b>346144.00</b>	
			<b>H.R.Allowance</b>	<b>41353.00</b>	
			<b>Transport Allow.</b>	<b>11912.00</b>	<b>1195044.00</b>
			<b>Works &amp; Building O. Charges</b>		
			<b>Maint. of Estate Building</b>	<b>1275308.32</b>	
			<b>Road Rep....Maint. Garden</b>	<b>3750.00</b>	
			<b>Sanitation</b>	<b>1754.00</b>	
			<b>Furniture</b>	<b>6557.00</b>	
			<b>Imp. Beauti. Of Campus</b>	<b>7635.00</b>	
			<b>Contingency</b>	<b>1612.25</b>	
			<b>Minor Works (Civil)</b>	<b>506444.75</b>	
			<b>Tools &amp; Plants</b>	<b>77.00</b>	
			<b>Stationary &amp; Printing</b>	<b>2227.00</b>	
			<b>Electric Maintaince</b>	<b>40509.45</b>	
			<b>Minor Works (Elect ric)</b>	<b>128192.00</b>	<b>1974066.77</b>
<b>Watch and Ward</b>			<b>Watch and Ward-12</b>		
<b>Night Watch</b>	<b>317.00</b>		<b>Pay- Non- Teaching</b>	<b>88625.00</b>	
			<b>Dearness.Allowance</b>	<b>38595.00</b>	<b>127220.00</b>
			<b>Pay- L.S.S</b>	<b>655946.00</b>	
			<b>Dearness.Allowance:</b>	<b>288280.00</b>	
			<b>H.R.Allowance</b>	<b>35025.00</b>	
			<b>Transport Allow.</b>	<b>9853.00</b>	<b>989104.00</b>
			<b>W &amp; W O.C - Contingency</b>		<b>893.00</b>
<b>Health General</b>			<b>Health General-10</b>		
<b>Medical (Cr.)</b>	<b>1500.00</b>		<b>Pay- Non-Teaching</b>	<b>421480.00</b>	
			<b>Dearness.Allowance</b>	<b>194437.00</b>	
			<b>H.R.Allowance</b>	<b>14463.00</b>	
			<b>Transport Allow.</b>	<b>4425.00</b>	
			<b>Other Allowance</b>	<b>30956.00</b>	<b>665761.00</b>
		<b>C.O. 4,27,438.62</b>			<b>C.O. 2,36,61,987.51</b>

**VISVA-BHARATI UNIVERSITY****PALLI SAMGATHANA VIBHAGA, SRINIKETAN***Receipts and Payments Accounts, 2001-02***PART-1  
(REVENUE)****RECEIPTS****B.F.****4,27,438.62****PAYMENTS****B.F.****2,36,61,987.51**

Pay- L.S.S	290062.00	
Dearness Allowance	87468.00	
H.R.Allowance	2525.00	
Transport Allow.	825.00	
Other Allowance	2380.00	383260.00

<b>Health General O.C-Contg.</b>		2789.00
----------------------------------	--	---------

Village Extention general		
Pay— Non-Teaching	839385.00	
Dearness.Allowance	374645.00	
H.R.Allowance	44122.00	
Transport Allow.	14525.00	
Other Allowance	24342.00	1297019.00

Pay L.S.S	72951.00	
Dearness.Allowance	12220.00	
H.R.Allowance	2101.00	
Transport Allow.	825.00	88097.00

**A.Village Extn.Genl- O.C**

Books and Journal	792.00	
Organisation,Parti.of Seminer		
Workshop & Conference	10304.50	
Meeting Expenses	1626.00	
Aid to Village Soceity	2500.00	
Research Publication	682.00	
Printing & Stationary	8715.25	
Maint. of Fuel Charges-		
for M.Cycle & Nisan Van	2865.00	
Contingency	3814.00	31298.75

**B. Contingency Education Programme**

<b>Women Craft Trg.inc.Allow.</b>		3450.00
-----------------------------------	--	---------

**C. Youth Org. in Vill.-O.C**

Health Extn.Activities	2700.00	
Folk Recreation Activities	11990.00	
Develop. Aid for Soceity	13763.00	
Youth Leader Training	4347.00	32800.00

**ii) Day Observance**

a)International Children dey	4762.00	
a) International Lit. dey	4502.00	
Sports Materials	1270.00	
Sensitisation prog.in vill.	1510.00	
Food and Travelling	1498.00	13542.00

**C.O. 4,27,438.62****C.O. 2,55,14,243.26**

**VISVA-BHARATI UNIVERSITY****PALLI SAMGATHANA VIBHAGA, SRINIKETAN***Receipts and Payments Accounts, 2001-02***PART-1  
(REVENUE)****RECEIPTS****B.F.****4,27,438.62****PAYMENTS****B.F.****2,55,14,243.26****iii) Bratibalak Organisation**

Bratibalak Organisation 42753.00

W.Charges for Dress Mat. 815.00

Pur.of Sports &amp; Dress Mat. 4680.00 48248.00

**Sriniketan Hostel & Ref.inc.CIT Hostel****Girls Hostel Allow.to P.T Warden**

Wages to Helper &amp; Contg 10392.50

**Boys Hostel Allow.to P.T Warden**

Wages to Helper &amp; Contg 15172.00

Hostel Gosta Bari-Contg. 1003.00 26567.50

**Maternity & Child Welfare**

Pay— 40225.00

Dearness.Allowance 17522.00

Other Allowance 825.00 58572.00

**Miscellaneous**

Contb. To Srk. Staff Club 5450.00

Conb.to RRRF Scheme 102362.50 107812.50

**Teaching Aid**

Rowmat. Books &amp; Journals 11289.35

Seminar &amp; Workshop 4491.00 15780.35

**Amnt.pertaining to 50%****Estb. Charges of S Sadan****Comm.unit fr Ext.trg.Prog**

to Students 223943.00

**Other Items**

Leave Travel Concession 65884.00

Reimb. For cost Medicine 457480.00

Leave Reservation ( N.A) 240120.00

Ad-hoc Bonus 394946.00

Duty Compensatory Allow 720.00 1159150.00

**Arrear D.A**

262140.00

**Retirement Benefit**

Leave Encashment 603255.00

**Other Activities**

Staff Excursion 6000.00

**C.O. 4,27,438.62****C.O. 2,80,25,711.61**

**VISVA-BHARATI UNIVERSITY****PALLI SAMGATHANA VIBHAGA. SRINIKETAN***Receipts and Payments Accounts, 2001-02***PART-I****(REVENUE)****RECEIPTS****B.F.****Palli Charcha Kendra**

Admission Fee	3250.00
Tuition Fee	11570.00
Seat Rent	6135.00
Medical Fee	350.00
Sports & Games Fee	244.00
Library Fee	72.00
Library Admission Fee	26.00
Surcharges	1172.00
Identity card	1.00
Library Card	20.00
Laboratory Fee	165.00
Breakage Charges	460.00

4,27,438.62

23465.00

**PAYMENTS****B.F.**

2,80,25,711.61

**Palli Charcha Kendra**

Pay— Teaching	1184680.00
Dearness Allowance	510392.00
H.R. Allowance	88400.00
Transport Allow.	25200.00
Other Allowance	400.00
	1809072.00

Pay— Non-Teaching	847180.00
Dearness Allowance	365773.00
H.R. Allowance	33500.00
Transport Allow.	9075.00
	1255528.00

Pay— LSS	116750.00
Dearness Allowance	50853.00
H.R. Allowance	6316.00
Transport Allow.	1875.00
	175794.00

**PCK-Other Charges**

Seminar & Training	1421.00
Sundry Research Exp.	3708.00
Travel Study Tour inc. —	
Maint. of Vehicle	45854.00
Contingency	9848.50

Stationary & Printing	4378.00
Equipment	4239.00
Books & Journals	35480.00
F.W. Superv. TA/DA	138.00
Merit Scholarship	8160.00
Library Contingency	1058.00
	114284.50

**Revitalisation of Silpa Sadan**

Pay—	177100.00
Dearness Allowance	75682.00
H.R. Allowance	13046.00
Transport Allow.	4000.00
Other Allowance	700.00
	270528.00

**Other Charges**

Stypend & Scholarship	34200.00
-----------------------	----------

**Audio Visual Mobile Unit**

Repair & Repl. of Equip.	696.00
Ins. & Service Conct- Equip	2412.00
Purchase of F'lms, Cassettec	
& other A.V. Materials	5301.00
Fuel for Generator/ Van	2898.00
Contg. Inc Printing	2874.00
T.A. / D.A	501.00
Material Development	1415.00
	16097.00

**C.O. 4,50,903.62****C.O. 3,17,01,215.11**

**VISVA-BHARATI UNIVERSITY****PALLI SAMGATHANA VIBHAGA, SRINIKETAN***Receipts and Payments Accounts, 2001-02***PART-I****(REVENUE)****RECEIPTS****B.F.****4,50,903.62****PAYMENTS****B.F.****3,17,01,215.11****Physical Education Unit-PSV**

Purchase of Sports Goods		
& Appart.inc Repair	23068.00	
Maint. of Play Ground	1707.00	
Annual Sports & Tourna.	5000.00	
Pt.Allow for Staff & Sids.	2750.00	
Expdit.for Visiting Team -		
and Out side Matches	2125.00	
Training & Coaching Camp	2500.00	
Award & Prize	1605.00	
Travelling	425.00	
Contingency	425.00	39605.00

**Adult Continuing Education****UGC-Block Grant****3,26,11,184.49**

Pay— Teaching	150480.00	
Dearness.Allowance	65525.00	
H.R.Allowance	11286.00	
Transport Allow.	4400.00	231691.00


Pay— Non-Teaching	302820.00	
Dearness.Allowance	131905.00	
H.R.Allowance	11995.00	
Transport Allow.	3025.00	449745.00

**Adult Continuing Literacy**

Pay— Teaching	218386.00	
Dearness.Allowance	95211.00	
H.R.Allowance	12273.00	
Transport Allow.	3615.00	329485.00

**Temporary Establishment**

Teaching-Pay & O.A	156455.00	
Non-Teaching-Pay & D.A	153892.00	

**TOTAL OF PART -I****3,30,62,088.11****TOTAL OF PART -I****3,30,62,088.11**


Assistant Accounts Officer  
Visva-Bharati, Sriniketan

**VISVA-BHARATI UNIVERSITY****PALLI SAMGATHANA VIBHAGA, SRINIKETAN***Receipts and Payments Accounts, 2001-02***PART-II****(NON-REVENUE)**

RECEIPTS		PAYMENTS	
Area Library	21000.00	K.V.I.C	21065.00
		Area Library	
		Contingency	339.00
		Books & Journals	9962.00
			10301.00
Adult and Continuing - Education & Extension IX th Plan Grant	200000.00	Adult and Continuing - Education & Extension IX th Plan	
		Salary	16732.00
		Research & Field Activities	36823.80
		Postage & Telegram	27455.00
		T.D / D.A	10716.00
		Documentation Materials	18230.00
		Organisation of Workshop	11446.00
		Orientation Programme	3500.00
			124902.80
Siksha Charcha Grant	1259000.00	Siksha Charcha	
		Pay— Teaching	468325.00
		Dearness Allowance	181482.00
		H.R.Allowance	50413.00
		Other Allow.	10680.00
		Arrear D.A	9304.00
			720204.00
		Pay— Non Teaching	237425.00
		Dearness Allowance	91967.00
		H.R.Allowance	29401.00
		Other Allow.	7060.00
		Arrear D.A	4275.00
			370128.00
		S.C Other Charges	
		Office Contg.Elec. Tel.	80539.00
		Crafts Mat.,Books & Jnls	799.50
		Subsidy for Mess Empl.	6000.00
		Other Charges -Contg	573.00
		Medical Service	360.00
		T.A	4384.00
		Adhoc Bonus	14000.00
			106655.50
		C.I.Extn. Rehab.General	
		Pay— Non Teaching	182750.00
		Dearness Allowance	78413.00
		H.R.Allowance	2910.00
		Transport	750.00
		Other Allowance	578.00
			265401.00
		Pay— LSS	46970.00
		Dearness Allowance	20455.00
		H.R.Allowance	3520.00
		Transport	825.00
			71770.00

C.O. 14,80,000.00

C.O. 16,90,427.30



## VISVA-BHARATI UNIVERSITY

PALLI SAMGATHANA VIBHAGA, SRINIKETAN

Receipts and Payments Accounts, 2001-02

## PART-II

(NON-REVENUE)

## RECEIPTS

B.F

14,80,000.00

Weaving

Sale

174653.30

Sale (Cr.)

5081.60

179734.90

Carpentary

Sale (Cr.)

273928.85

## PAYMENTS

B.F

16,90,427.30

C.I.Ex(n. Rehab.General

Other Charges

Printing &amp; Stationary

1477.00

Sales Tax &amp; Sur Charges

726.00

2203.00

Santiniketan Shop

Pay— Non- Teaching

18832.00

Dearness.Allowance

8198.00

H.R.Allowance

1408.00

28438.00

Pay— LSS

38800.00

Dearness.Allowance

16901.00

H.R.Allowance

2913.00

Transport

825.00

59439.00

Sriniketan Shop

Pay— Non-Teaching

38800.00

Dearness.Allowance

16901.00

H.R.Allowance

2913.00

Transport

825.00

59439.00

Pay— LSS

46090.00

Dearness.Allowance

20074.00

66164.00

Marketing Section

Packing &amp; Forwarding Ch.

381.00

Exhibition

3400.00

Repair &amp; Replacement

714.00

4495.00

Weaving

Pay—Non-Teaching

40812.50

Dearness.Allowance

17753.50

H.R.Allowance

300.00

Transport

200.00

59066.00

Pay—LSS

16880.00

Dearness.Allowance

7350.50

H.R.Allowance

1266.50

Transport

412.50

25909.50

Weaving Other Charges

Rawmaterials

102380.60

Labour Charges

146434.00

Equipment

2530.00

Contingency

328.00

251672.60

Carpentary

Pay—Non-Teaching

78175.00

Dearness.Allowance

34047.00

H.R.Allowance

4156.50

Transport

825.00

117203.50

**VISVA-BHARATI UNIVERSITY**  
**PALLI SAMGATHANA VIBHAGA, SRINIKETAN**  
*Receipts and Payments Accounts, 2001-02*  
**PART-II**  
**(NON-REVENUE)**

**RECEIPTS****PAYMENTS**

<b>B.F.</b>	<b>19,33,663.75</b>	<b>B.F.</b>	<b>23,64,456.90</b>
		<b>Pay—LSS</b>	<b>14135.00</b>
		<b>Dearness Allowance</b>	<b>6158.00</b>
		<b>H.R. Allowance</b>	<b>1058.50</b>
		<b>Transport</b>	<b>412.50</b>
			<b>21764.00</b>
		<b>Carpentary-Other Charges</b>	
		<b>Rawmaterials</b>	<b>20094.92</b>
		<b>Labour Charges</b>	<b>363410.00</b>
		<b>Contingency</b>	<b>865.00</b>
			<b>384369.92</b>
		<b>BONUS</b>	
		<b>Paper Making</b>	<b>2742.00</b>
		<b>Weaving</b>	<b>18749.00</b>
		<b>Carpentary</b>	<b>31405.00</b>
		<b>Bookbinding</b>	<b>26633.00</b>
		<b>Batik</b>	<b>2622.00</b>
			<b>82151.00</b>
<b>Leather Works</b>		<b>Leather Works (Com.)</b>	
<b>Sale</b>	<b>17733.15</b>	<b>Rawmaterials</b>	<b>19483.00</b>
<b>Sale (Cr.)</b>	<b>60.00</b>	<b>Labour Charges</b>	<b>1876.00</b>
	<b>17793.15</b>		<b>21359.00</b>
<b>Book Binding</b>		<b>Book Binding</b>	
<b>Sale (Cr.)</b>	<b>29542.20</b>	<b>Rawmaterials</b>	<b>24997.00</b>
		<b>Labour Charges</b>	<b>365230.25</b>
		<b>Tools &amp; Equipment</b>	<b>1524.00</b>
			<b>391751.25</b>
<b>Paper Making (HMP)</b>		<b>Paper Making (HMP)</b>	
<b>Sale</b>	<b>5427.50</b>	<b>Rawmaterials</b>	<b>594.00</b>
<b>Sale (Cr.)</b>	<b>10544.50</b>	<b>Labour Charges</b>	<b>36159.00</b>
	<b>15972.00</b>		<b>36753.00</b>
<b>Pottery</b>		<b>Pottery</b>	
<b>Sale</b>	<b>5868.10</b>	<b>Rawmaterials</b>	<b>1301.80</b>
<b>Sale (Cr.)</b>	<b>100.00</b>	<b>Labour Charges</b>	<b>9607.00</b>
	<b>5968.10</b>		<b>10908.80</b>
<b>Batik</b>		<b>Batik</b>	
<b>Sale</b>	<b>10890.00</b>	<b>Rawmaterials</b>	<b>6022.40</b>
<b>Sale (Cr.)</b>	<b>810.00</b>	<b>Labour Charges</b>	<b>5060.00</b>
	<b>11700.00</b>		<b>11082.40</b>
<b>Deposit General</b>	<b>5778.69</b>	<b>Deposit General</b>	
<b>Deposit Central Office</b>	<b>939215.51</b>	<b>Deposit Central Office</b>	<b>112979.00</b>
<b>P.S.B. Dues</b>	<b>1542.00</b>	<b>P.S.B. Dues</b>	<b>1256.00</b>
<b>Conveyance Advance</b>	<b>61577.00</b>	<b>Conveyance Advance</b>	<b>61577.00</b>
<b>House Building</b>	<b>502619.00</b>	<b>House Building</b>	<b>502619.00</b>
<b>H.D.F.C</b>	<b>46749.00</b>	<b>H.D.F.C</b>	<b>46749.00</b>
<b>Publishing Dept</b>	<b>3050.20</b>		

C.O.

15,60,531.40

20,14,639.20

C.O. Total of Deposit

7,25,180.00

33,24,596.27

## VISVA-BHARATI UNIVERSITY

PALLI SAMGATHANA VIBHAGA, SRINIKETAN

Receipts and Payments Accounts, 2001-02

## PART-II

(NON-REVENUE)

## RECEIPTS

B/F 15,60,531.40 20,14,639.20

## Santiniketan Dues

Fees of Wards	24747.60
Water Charges	12454.75
Bus Fare	2512.00
Fan Rent	1464.00
Festival Advance	9900.00
Trunk CallE	38.00
Examination Fees	10160.00
Marksheet fees	940.00
Late Fees	25.00
Registration Fees	1546.00
Original Certificate	825.00
Ph. D Fees	1290.00
Earnest Money	160293.00
K.S.Store Stock	167885.29
Sales Tax at Source	38302.00
Income Tax at Source	40033.00
I.S.D.Project	240.00
Principal P.S.B	36.00
Siksha Charcha	285070.00

7,54,761.64

## C.I.T

Magazine Fee	2070.00
Student Aid Fund	2080.00
Chhatra Mandali	3200.00
Library Caution Money	2450.00
Cultural Fee	3000.00
Coution Money	2450.00
Co-operative Store	300.00
Utencils	320.00

15870.00

## Siksha Satra

Student Aid Fund	5945.00
Chhatra Mandali	8850.00
Library Caution Money	5050.00
Coution Money	5050.00
Amader Lekha	5930.00
Amder Katha	2980.00
Dinalipi	6490.00

40295.00

## PAYMENTS

B.F. 7,25,180.00 33,24,596.27

## Santiniketan Dues

Fees of Wards	24747.60
Water Charges	12444.75
Bus Fare	2512.00
Fan Rent	1464.00
Festival Advance	9900.00
Trunk CallE	38.00
Earnest Money	245905.00
K.S.Store Stock	153985.52
Sales Tax at Source	39799.00
Income Tax at Source	41530.00
I.S.D.Project	480.00
V.B.S.Samati Ltd.	1894.00
Siksha Charcha	285070.00

8,19,769.87

## C.I.T

Chhatra Mandali	1500.00
Library Caution Money	50.00
Coution Money	75.00

1625.00

## Siksha Satra

Student Aid Fund	10.00
Chhatra Mandali	4739.50
Library Caution Money	50.00
Coution Money	50.00
Amader Lekha	10.00
Amder Katha	5.00
Dinalipi	7565.00

12429.50

C.O.

23,74,458.04 20,14,639.20

C.O.

15,59,004.37 33,24,596.27

## VISVA -BHARATI UNIVERSITY

PALI SAMGATHANA VIBHAGA, SRINIKETAN

Receipts and Payments Accounts, 2001-02

## PART-II

(NON-REVENUE)

## RECEIPTS

B/F 23,74,458.04 20,14,639.20

## P.C.K

Magazine Fee 1080.00  
 Student Aid Fund 1080.00  
 Chhatra Mandal 1700.00  
 Library Caution Money 1300.00  
 Cultural Fee 1480.00  
 Caution Money 1300.00  
 Co-operative Store 156.00  
 Utencils 720.00  
 Laboratory Caution Money 925.00  
 Field Work 240.00  
 Study Tour 1300.00

11281.00

## Siksha Charcha

Magazine Fee 970.00  
 Kitchen Deposit 6790.00  
 Co-curricular Activities 995.00  
 Caution Money 485.00  
 Examination Fees 1430.00  
 Excursion Fee 970.00  
 Session Charges 582.00

12,222.00 23,97,961.04

## Sundry Deduction

G.P.F 4326790.00  
 C.P.F 486900.00  
 P.F.Loan 1816380.00  
 V.B Co-operative Bank 2466242.00  
 L.I.C 913560.08  
 Income Tax 1095542.00  
 Prof. Tax 230213.00  
 Group Insurance 146580.00

11482207.08

## Revenue Imprest

33550400.00 700.00

## Advance

Advance 204289.00  
 Pension Advance 4389255.00  
 Festival Advance 657810.00  
 S.Charcha Advance 50000.00

5301354.00

## PAYMENTS

B.F. 15,59,004.37 33,24,596.27

## P.C.K

Library Caution Money 300.00  
 Caution Money 625.00  
 Laboratory Caution Money 600.00  
 Study Tour 50.00

1575.00

## Siksha Charcha

Examination Fees 1425.00  
 Kitchen Deposit 6510.00  
 Caution Money 465.00  
 Co-curricular Activities 970.00

9370.00

1569949.37

## Sundry Deduction

G.P.F 4321400.00  
 C.P.F 486900.00  
 P.F.Loan 1817235.00  
 V.B.Co-operative Bank 2491427.00  
 L.I.C 914296.08  
 Income Tax 992390.00  
 Prof. Tax 231528.00  
 Group Insurance 146580.00

11401756.08

## Revenue Imprest

33550400.00

## Advance

Advance 145494.00  
 Pension Advance 4389255.00  
 Festival Advance 791190.00  
 S.Charcha Advance 50000.00

5375939.00

## W.B.Govt. Grant

## Mass Education Activities

Prograsive Expenditure  
 inc.Educational Activities 20794.50

C.O.

5,47,47,261.32

C.O.

5,52,43,435.22

**VISVA-BHARATI UNIVERSITY****PALLI SAMGATHANA VIBHAGA, SRINIKETAN***Receipts and Payments Accounts, 2001-02***PART-II****(NON-REVENUE)****RECEIPTS**

B/F 5,47,47,261.32

**IX th Plan Development**

Siksha Satra - Teaching

Pay 78700.00

D.A 34279.00 112979.00

**U.G.C.Project****Land Reform & Operat -**

ion Barga-Grant 129608.00

**Identification and Enhancement  
of Indian Culture & Heritage**

47007.00

Suspence 31344.10

**Merit Scholarship**

Book Grant 4250.00

**U.G.C.Project-Innovative  
Community Learning-REC  
Grant**

750000.00

**PAYMENTS**

B.F. 5,52,43,435.22

**IX th Plan Development**

Siksha Satra - Teaching

Pay 78700.00

D.A 34279.00 112979.00

**U.G.C.Project****Land Reform & Operation Barga**

Honorarium / Fellowship 25200.00

Books &amp; Journals 20397.00

Field Work T.A./D.A 24500.00

Contingency 19341.00

Hiring Service 42000.00 131438.00

Exotic Piggery Project Scheme

Contingency 68039.75

**Identification and Enhancement  
of Indian Culture & Heritage**

Honorarium 22680.00

Salary 7500.00

T.A 9626.00

Contingency 6764.00 46570.00

Suspence 31344.10

**Merit Scholarship**

Book Grant 4250.00

**U.G.C.Project-Innovative  
Community Learning-REC  
Non-Recurring-CLC**

Almirah, Table &amp; Haricane 47700.00

Books 29565.00

Map, Chart, Poster, etc. 3244.00

Bicycle 35000.00

Sports &amp; Recreational It. 32150.00

147659.00**Non Recurring-NCLC**

Almirah, Table &amp; Haricane 4608.00

Books 6357.00

Map, Chart, Poster, etc. 2580.00

Sports &amp; Recreational It. 2842.00

Television 4725.00

Bicycle 2850.00

23962.00

C.O.

5,58,22,449.42

C.O.

1,71,621.00 5,56,38,056.07

**VISVA-BHARATI UNIVERSITY****PALLI SAMGATHANA VIBHAGA, SRINIKETAN***Receipts and Payments Accounts, 2001-02***PART-II****(NON-REVENUE)****RECEIPTS****PAYMENTS**

B.F.	5,58,22,449.42	B.F.	1,71,621.00	5,56,38,056.07
		<b>Recurring-CLC</b>		
		Hon. to Preraks	105000.00	
		Hon. to Asstt Preraks	75000.00	
		Kerosine & O.Lighting Arr.	12500.00	
		Newspapers & Periodicals	12705.00	
		Trag. for Pr. Asstt. Prks	28071.50	
		Letr. Matirials & Equip.	19775.00	
		Office Exp. inc Postag etc.	9257.00	
			262308.50	
		<b>Recurring-NCLC</b>		
		Hon. to Preraks	14400.00	
		Hon. to Asstt Preraks	8400.00	
		Kerosine & O.Lighting Arr.	2000.00	
		Newspapers & Periodicals	1012.00	
		Trag. for Pr. Asstt. Prks	2250.00	
		Letr. Matirials & Equip.	1570.00	
		Office Exp. inc Postag etc.	15.00	
			29647.00	463576.50
<b>TOTAL PART-II</b>	<u>55822449.42</u>			<u>56101632.57</u>
<b>TOTAL PART-I</b>	<u>33062088.11</u>	<b>TOTAL PART-I</b>		<u>33062088.11</u>
<b>TOTAL PART I-&amp; II</b>	<u>88884537.53</u>	<b>TOTAL PART I-&amp; II</b>		<u>89163720.68</u>
<b>Opening Balance</b>		<b>Closing Balance</b>		
P.S.V.	752776.56	P.S.V.	401490.41	
Siksha Charcha	336966.50	Siksha Charcha	409069.50	810559.91
<b>GRAND TOTAL</b>	<u>89974280.59</u>	<b>GRAND TOTAL</b>		<u>89974280.59</u>

  
Asstt. Accounts Officer  
Visva-Bharati

  
Finance Officer  
Visva-Bharati

  
Karma Sachiva  
Visva-Bharati

## V I S V A - B H A R A T I

PALLI SIKSHA BHAVANA, SRINIKETAN

Balance Sheet as at 31.03.2002


CAPITAL FUND AND LIABILITIES	SCHEDULE	(AMOUNT-Rs.)	
		Current Year	Previous year
BLOCK CAPITAL FUND	1	17,941,486.25	16,288,346.71
DEVELOPMENT UNDER PLAN("DEVLUP") FUND	2	9,04,166.10	24,69,678.51
GOVT AIDED/SPONSORED EDUCATIONAL— ("EDUCARE") PROJECT FUND	3	844,796.27	1,262,451.17
OTHER SPONSORED PROJECT ("OSPRO")FUND	4	1,019,330.31	267,190.31
SPONSORED ACTIVITIES ("SPACT") FUND	5	9,85,318.23	0.00
FELLOWSHIP("FLOW") FUND	6	58,014.99	55,214.99
DEPOSITS AND ADVANCES	7	8,27,189.50	8,19,990.09
CURRENT LABILITIES AND PROVISIONS	8	4,72,886.76	4,61,660.65
<b>TOTAL</b>		<b>2,30,53,188.41</b>	<b>2,16,24,532.43</b>
<b>ASSETS</b>			
FIXED ASSETS	9	17,941,486.25	16,288,346.71
CURRENT ASSETS,LOANS,ADVANCES ETC.	10	51,11,702.16	5,336,185.72
<b>TOTAL</b>		<b>2,30,53,188.41</b>	<b>2,16,24,532.43</b>

## V I S V A - B H A R A T I


PALLI SIKSHA BHAVANA, SRINIKETAN

Income &amp; Expenditure A/c for the year 2001-2002

A. INCOME	SCHEDULE	(AMOUNT-Rs.)	
		Current Year	Previous year
Income from Sales /Service	11	1,27,993.60	81,082.13
Grants and subsidies	12	23,335,400.00	25,107,500.00
Fees / Subscriptions	13	127,484.00	136,641.00
Other Income	14	54,599.64	119,766.50
<b>TOTAL = A</b>		<b>2,36,45,477.24</b>	<b>2,54,44,989.63</b>
<b>B. EXPENDITURE</b>			
Establishment Expenses	15	20,737,276.50	22,167,835.00
Other Administrative Expenses etc.	16	19,12,467.10	2,562,451.58
<b>TOTAL = B</b>		<b>22,649,743.60</b>	<b>24,730,286.58</b>
Balance being excess of Income over Expenditure(A-B)		9,95,733.64	7,14,703.05
Transferred to Deposit Central Office		717,712.64	284,124.05
Transferred to Block Capital Fund		278,021.00	430,579.00

  
Assistant Accounts Officer  
Visva-Bharati

  
Finance Officer  
Visva-Bharati

  
Registrar  
Visva-Bharati, Sriniketan

**V I S V A - B H A R A T I**

PALLI SIKSHA BHAVANA, SRINIKETAN

Consolidated Schedule 2001-2002

**SCHEDULE-2 DEVLUP FUND****CURRENT YEAR****2001-02**

Opening Balance	24,58,487.60
Receipt this year (INFLOW)	NIL
<b>TOTAL</b>	<b>24,58,487.60</b>
Expenditure this year (OUTFLOW)	<b>15,54,321.50</b>
Closing Balance as on 31.03.02	<b>9,04,166.10</b>

**SCHEDULE-3 EDUCARE PROJECT FUND**

Opening Balance	12,73,642.08
Receipt this year (INFLOW)	<b>3,57,857.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16,31,499.08</b>
Expenditure this year (OUTFLOW)	<b>7,86,702.81</b>
Closing Balance as on 31.03.02	<b>8,44,796.27</b>

**SCHEDULE-4 OSPRO FUND**

Opening Balance	2,28,668.41
Receipt this year (INFLOW)	<b>13,46,738.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15,75,406.41</b>
Expenditure this year (OUTFLOW)	<b>5,56,076.10</b>
Closing Balance as on 31.03.02	<b>10,19,330.31</b>

**SCHEDULE-5 SPACT FUND**

Receipt this year (INFLOW)	<b>31,60,138.73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31,60,138.73</b>
Expenditure this year (OUTFLOW)	<b>22,91,452.05</b>
Closing Balance as on 31.03.02	<b>9,85,318.23</b>

**SCHEDULE-6 "FLOW" FUND**

Opening Balance	55,214.99
Receipt this year (INFLOW)	<b>55,700.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>110,914.99</b>
Expenditure this year (OUTFLOW)	<b>52,900.00</b>
Closing Balance as on 31.03.02	<b>58,014.99</b>

**SCHEDULE-7 DEPOSIT & ADVANCE**

Opening Balance	8,19,990.09
Receipt this year (INFLOW)	<b>5,99,702.27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14,19,692.36</b>
Expenditure this year (OUTFLOW)	<b>5,92,502.86</b>
Closing Balance as on 31.03.02	<b>8,27,189.50</b>

**SCHEDULE-8 CURRENT LIABILITIES**

Opening Balance	4,49,270.65
Receipt this year (INFLOW)	<b>23,616.11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,72,886.76</b>
Expenditure this year (OUTFLOW)	Nil
Closing Balance as on 31.03.02	<b>4,72,886.76</b>

  
 Assistant Accounts Officer  
 Visva-Bharati, Sriniketan



**VISVA - BHARATI**

PALLI SIKSHA BHAVANA, SRINIKETAN

*Consolidated Schedule 2001-2002***SCHEDULE-9 FIXED ASSETS****CURRENT YEAR**  
**2001-02**

Opening Balance	1,62,88,346.71
Receipt this year (INFLOW)	<u>16,68,003.50</u>
TOTAL	1,79,56,350.21
Expenditure this year (OUTFLOW)	<u>14,863.96</u>
Closing Balance as on 31.03.02	<u>1,79,41,486.25</u>

**SCHEDULE-10 CURRENT ASSETS**

Opening Balance	2,00,949.33
Receipt this year (INFLOW)	39,25,434.60
Closing Bank Balance (KVK)	<u>9,85,318.23</u>
TOTAL	<u>51,11,702.16</u>
Expenditure this year (OUTFLOW)	<u>NIL</u>
Closing Balance as on 31.03.02	<u>51,11,702.16</u>

**SCHEDULE-11 INCOME FROM SALES**

Opening Balance	NIL
Receipt this year (INFLOW)	<u>1,27,993.60</u>
TOTAL	1,27,993.60
Expenditure this year (OUTFLOW)	<u>NIL</u>
Closing Balance as on 31.03.02	<u>1,27,993.60</u>

**SCHEDULE-12 GRANTS**

Opening Balance	NIL
Receipt this year (INFLOW)	<u>2,33,35,400.00</u>
TOTAL	2,33,35,400.00
Expenditure this year (OUTFLOW)	<u>NIL</u>
Closing Balance as on 31.03.02	<u>2,33,35,400.00</u>

**SCHEDULE-13 FEES**

Opening Balance	NIL
Receipt this year (INFLOW)	<u>1,27,484.00</u>
TOTAL	1,27,484.00
Expenditure this year (OUTFLOW)	<u>NIL</u>
Closing Balance as on 31.03.02	<u>1,27,484.00</u>

**SCHEDULE-14 OTHER INCOME**

Opening Balance	NIL
Receipt this year (INFLOW)	54,599.64
TOTAL	54,599.64
Expenditure this year (OUTFLOW)	<u>NIL</u>
Closing Balance as on 31.03.02	<u>54,599.64</u>

  
 Assistant Accounts Officer  
 Visva-Bharati, Sriniketan

**VISVA - BHARATI**

PALLI SIKSHA BHAVANA, SRINIKETAN

*Consolidated Schedule 2001-2002***SCHEDULE-15 ESTABLISHMENT EXPENSES****CURRENT YEAR****2001-02**

a) Salary and Wages	1,24,15,344.00
b) Allowance and Bonus	80,70,156.50
c) Contribution to Provident Fund	96,750.00
d) Contribution to other Fund	0.00
e) Staff Welfare Expenses	15,428.00
f) Expenses on Employees Retirement and Terminal Benefits	1,55,026.00
g) Medical Expenses	1,64,185.00

**TOTAL****2,09,16,889.50****SCHEDULE-16 OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES**

a) Electricity and Power	4,67,952.00
b) Insurance	0.00
c) Repair and Maintenance	34,319.00
d) Vehicle Running and Maintenance	1,27,778.00
e) Postage, Telephone and Communication Charges	79,100.18
f) Printing and Stationery	46,817.60
g) Travelling Conveyance Expenses	13,169.00
h) Others (Specify)	
i) Office Administration	3,17,554.20
ii) Student Welfare	3,13,017.00
iii) Artistic and Culture R & D	3,33,147.12

**TOTAL****17,32,854.10**


Assistant Accounts Officer  
Visva-Bharati, Sriniketan

## VISVA-BHARATI UNIVERSITY

PALLI SIKSHA BHAVANA, SRINIKETAN

Receipt and Payment Account, 2001-02

## RECEIPTS

## VI. Agriculture Receipt

Admission Fees	7450.00	
Library Admin. Fees	68.00	
Tuition Fees	32181.00	
Seat Rent	24030.00	
Library Fees	198.00	
Medical Fees	605.00	
Sports & Games Fees	498.00	
Agri. Misc. Receipt	330.00	
Breakage Charges	2030.00	
Surcharges	3770.00	
Duplicate Identity Card	25.00	
Laboratory Fees	2446.00	
Lost of Instrument	400.00	74031.00

## PAYMENTS

## Agriculture-Teaching

Pay	4193623.00	
D.A.	1887397.00	
H.R.A.	193145.00	
Trans. Allow.	56854.00	
Other Allow.	144520.00	
Provident Fund	92053.00	6567592.00

## Agriculture Non-Teaching

Pay.	1628569.00	
D.A.	706365.00	
H.R.A.	73747.50	
Trans. Allow.	21240.00	

## Agriculture L.S.S

Pay.	2456600.00	
D.A.	1074429.00	
H.R.A.	147107.00	
Trans. Allow.	40894.00	
Other Allow.	1122.00	6150073.50

## Agriculture Other Charges

Maint. of Jeep	46520.00	
Maint. of Tractor	20222.00	
Printing & Stn.	19002.10	
Contingency	10221.90	
Lab. Chem. G—Wares	710.00	
Meeting Exp.	3987.00	
Travelling Exp.	5488.00	
Postage & Tele.	175.00	
Repair & Replacement	9103.00	
Cultivation Exp.	19437.00	
Beautification of Campus	1400.00	
Electricity charges	334831.00	
Telephone Charges	58081.48	
Remun. extra Works	80850.00	
Washing Allowance	36812.00	
Re-imbur.—Medicine	164125.00	
Guests & Delegates	510.00	
Festival Expenses	3619.00	
Educational Excurtion	34843.00	
Contingency (Misc.)	4488.00	854485.48

**VISVA-BHARATI UNIVERSITY****PALLI SIKSHA BHAVANA, SRINIKETAN***Receipt and Payment Account, 2001-02***RECEIPTS****B.F.****74031.00****Crop Improvement (Horticulture)**

Sale of Seasons Flowers 2398.00

Sale of garden crop

Misc. Receipt. 11104.50

**13502.50****C.O.****87533.50****PAYMENTS****B.F.****13572150.98****Agronomy-ASEPAN**

Printing &amp; Stationery 3416.50

Postage &amp; Tele. 90.25

T.A. &amp; D.A. 148.00

Meeting Expenses 1935.00

Transport to Students 5000.00

Tools &amp; Equipment 17172.00

Lab. Che. Glass ware 35094.00

Repair &amp; Replacement 6075.00

Contingency 6593.76

Research Contingency 9498.00

Furniture 4925.00

Farmers Meet 6458.00

Fuel for Gas Plant 3494.00

Audio Visual Aids 1230.00

Telephone Charges 2664.00 103793.51

**Crop Improvement (Horticulture)**

Printing &amp; Stationery 4470.00

Meeting Expenses 800.00

Tools &amp; Equipment 2442.00

Lab. Che. Glass ware 12578.00

Repair &amp; Replacement 1957.00

Contingency 3558.64

Research Contingency 3751.00

Mt. of Hort. Garden 25627.00

Furniture 6450.00

Beautification of Campus 1804.00

Purchase of plant Mat. 1381.00

Hort. Land Development 3798.00

T.A. &amp; D.A. 149.00

Transport to Students 2500.00 71265.64

**Plant protection/Herbarium Dept. of Plant Protection**

Printing &amp; Stationery 3500.00

Meeting Expenses 520.00

Tools and Equipment 6525.00

Lab. Chemical &amp; glass ware 8542.00

Repair &amp; Replacement 2744.00

Contingency 3051.27

Furniture 4980.00

Research Contingency 1830.00

Telephone Charge 2202.00

Teaching Aids 1435.00

Publication/Res. Bulletin 1700.00

Insecticides &amp; Pesticides 499.00

T.A. &amp; D.A. 350.00

Seminar 1800.00

Insectory &amp; Mass Culture 890.00

Mother Culture for Spawn 780.00

Herbarium 703.00 42051.27

**C.O.****1,37,89,261.40**

**VISVA-BHARATI UNIVERSITY**

PALLI SIKSHA BHAVANA, SRINIKETAN

*Receipt and Payment Account, 2001-02***RECEIPTS****B.F.**

87533.50

**PAYMENTS****B.F.**

1,37,89,261.40

**M.Sc Agri.Horticulture**

Contingency 2858.00

Field Equipment 1008.00 3866.00

**Agri.Extn.Eco & Stat.**

Printing &amp; Stationery 5651.00

Meeting Expenses 1302.00

Extn. Work &amp; Field Work 11918.50

Repair &amp; Replacement 3430.00

Contingency 3782.00

Seminar 3513.00

Lab. Che. &amp; Glass wares 1845.00

Tools &amp; Equipment 210.00

Research Conting.(T.S) 3411.00

Telephone Charges 3913.00

Travelling Allowance 616.00

Transport to Student 420.00

Community Work &amp; F.Wrk 2364.00 42375.50

**Agriculture Farm Experiment (Non-Teach.)**

Pay 230870.00

D.A 100547.00

H.R.A. 17319.00

Transport Allow. 6875.00 355611.00

**Agriculture Farm Experiment (Other Charges)**

Sale of Paddy 37061.00

Sale of Garden Crop 16513.10

Sale of fish —

Misc. Receipt 590.00 54164.10

**Agriculture Farm Experiment Other Charges)**

Repair &amp; Replacement 3100.00

Contg.including Stn 3657.05

Cultivation Expenses 17548.00

Misc. Garden Crop 1585.00

Seedling Materials 211.00 26101.05

**Dairy & Poultry Farm**

Sale of Milk 11330.00

Sale of Milk (CR.) 18110.50

Sale of Eggs &amp; Birds 26730.50

Sale of Y. Livestock 2476.00

Sale of manure Cr. 1680.00 60327.00

**Dairy & Poultry Farm (Non-Teaching)**

Pay 90900.00

D.A 39589.00

H.R.A 6823.00

Transport Allowance 2200.00 139512.00

**Dairy & Poultry Farm (L.S.S.)**

Pay 278285.00

D.A 120762.00

H.R.A. 2317.00

Transport Allowance 5475.00 425339.00

**Dairy & Poultry Other Charges**

Feeds for Cattle &amp; Birds 234602.00

Medical Treatment —

For Cattle &amp; Birds 5845.60

Contingency 9163.50

Repair &amp; Replacement 5383.00

Sanitary Meas. &amp; Equip. 1381.00

Purchase of Cattle &amp; Birds 3150.00 259525.10

**C.O**

2,02,024.60

1,50,41,591.05

**VISVA-BHARATI UNIVERSITY****PALLI SIKSHA BHAVANA, SRINIKETAN***Receipt and Payment Account, 2001-02***RECEIPTS****B.F.****2,02,024.60****PAYMENTS****B.F.****1,50,41,591.05****Agri. Workshop -EME Teaching**

Pay	244303.00	
D.A	104970.00	
H.R.A.	18112.00	
Transport Allowance	7394.00	374779.00

**Agri. Workshop -EME LSS**

Pay	33400.00	
D.A	14549.00	
H.R.A.	2509.00	
Transport Allowance	825.00	51283.00

**Library (Non-Teaching)**

Pay	305060.00	
D.A	132838.00	
H.R.A.	17469.00	
Transport Allowance	8800.00	464107.00

**Library (L.S.S.)**

Pay	125843.00	
D.A	54595.00	
H.R.A.	5406.00	
Transport Allowance	2013.00	187857.00

**Library Other Charges**

Library Other Charges  
Cost of lost of Books

**573.64**

Agri.-		
Journal	65367.00	
Books	112686.00	
Book Biniding	6803.00	
Contingency	4499.00	
S.W-		
Journal	32509.00	
Books	113995.00	
Contingency	4615.00	340474.00

**Physical Education ( Teaching)**

Pay	148800.00	
D.A	64813.00	
H.R.A.	11162.00	
Transport Allow	4000.00	228775.00

**Physical Education (L.S.S)**

Pay	91375.00	
D.A	39489.00	
H.R.A.	6794.00	
Transport Allow.	1650.00	139308.00

**C.O.****2,02,598.24****C.O.****1,68,28,174.05**

## VISVA-BHARATI UNIVERSITY

PALLI SIKSHA BHAVANA, SRINIKETAN

*Receipt and Payment Account, 2001-02*

## RECEIPTS

B.F.

2,02,598.24

## PAYMENTS

B.F.

1,68,28,174.05

## Stipend &amp; Scholarship

Spl. Stipend Agri.

1080.00

## Physical Education – Other Charges

Pur.of Sports Goods,—

Repair &amp; Washing 14870.00

Annual Sports &amp; Tour. 4250.00

Allow.for P.T.Staff&amp;St. 2500.00

Award &amp; Prize 1275.00

Contingency 1700.00

Exp.for visiting –Mat 1918.00 26513.00

## Stipend &amp; Scholarship

Social Work 2880.00

Social Work 32918.00

Spl. Stipend 27480.00

Agriculture 22460.00

Social Work 6720.00 92458.00

## Soil Testing Laboratory

Contingency 4050.00

Travelling Expenses 802.00

Glass &amp; Chemical 18293.00

Repair &amp; Replacement 14796.00 37941.00

## P.S.B.Refectory ( Non-Teaching)

Pay 123800.00

D.A 52528.00

H.R.A. 5219.00

Transport Allowance 825.00 182372.00

## P.S.B.Refectory (L.S.S.)

Pay 221403.00

D.A 98495.00

H.R.A. 11143.00

Transport Allowance 3300.00

C.P.F.Contb. 4697.00 339038.00

## Contingency

Agriculture 353.00

Social Work 187.50 540.50

## P.S.B. Hostel Contingency

Agricultural 12792.00

Social Work 6101.00

Cheep Kuthi 9642.00 28535.00

C.O.

203678.24

C.O.

1,75,35,571.55

## VISVA-BHARATI UNIVERSITY

PALLI SIKSHA BHAVANA, SRINIKETAN

Receipt and Payment Account, 2001-02

## RECEIPTS

B.F.

203678.24

## Social Work Receipts.

Admission Fees	6625.00
Lib. Admission Fees	58.00
Tuition Fees	24612.00
Seat Rent	17715.00
Library Fees	168.00
Medical Fees	565.00
Sports & Games Fees	462.00
Surcharges	2887.00
Misc. Receipts	340.00
Duplicate Idnty. Card	21.00

53453.00

## PAYMENTS

B.F.

1,75,35,571.55

## Miscellaneous ( P.S.B. &amp; S.W )

Temporary Estab.Provision for	
Leave Reserve	266262.00
Stu.Comm.Room Amen.	
incl'd. News Paper :-	
Agricultural	5041.00
Social Work	3616.00
L.T.C	2631.00
Furniture	8025.00
Staff Excurtion	5000.00
Ad-Hoc Bonus	295220.00
Retirement Benefits :-	
Leave Salary	155026.00
Other Allowance	7797.00
	748618.00

## Salary &amp; Wages for L.S.S

Pay	516820.00
D.A	225020.00
H.R.A.	16308.00
Transport Allowance	4050.00
	762198.00

## Social Work ( Teaching )

Pay	1874637.00
D.A	815314.00
H.R.A.	79271.00
Transport Allowance	26000.00
Other Allowance	3650.00
	2798872.00

## Social Work (Non-Teaching )

Pay	66086.00
D.A	28589.00
H.R.A.	1841.00
Transport Allowance	525.00
	97041.00

## Social Work ( L.S.S. )

Pay	28490.00
D.A	12408.00
H.R.A	2133.00
Transport Allowance	825.00
	43856.00

## Social Work ( Extension) Non Teaching

Pay	171750.00
D.A	74806.00
H.R.A.	8952.00
Transport Allowance	1650.00
	257158.00

## Social Work (Extn.) L.S.S

Pay	33235.00
D.A	14192.00
H.R.A.	2498.00
Transport Allowance	863.00
	51088.00

C.O.

2,57,131.34

C.O.

2,22,94,402.55



**VISVA-BHARATI UNIVERSITY**

PALLI SIKSHA BHAVANA, SRINIKETAN

*Receipt and Payment Account, 2001-02***RECEIPTS****B.F.**

2,57,131.24

**PAYMENTS****B.F.**

2,22,94,402.55

**Social Work Research Project**

Pay	68375.00	
D.A.	29777.00	
H.R.A.	5128.00	
Transport Allowance	825.00	
Other Allowance	3120.00	
Contingency	1151.00	108376.00

**University Receipt**

House Rent	50135.00	
Furniture Rent	2563.00	
Night Watch	248.00	52946.00

**Social Work Other Charges**

Printing & Stationary	10778.00	
Contingency	14319.60	
Travelling Expenses	3349.00	
Electric Charges	133121.00	
Telephone Charges	9976.00	
Meeting Expenses	3260.00	
Maintenance of Jeep	61036.00	
Guest & Deligate	3859.00	
Row Mat.Tools & Equip.	12845.00	
Educational Excursion	29206.00	
Comm.Work & Fld. Work	11494.00	
Postage & Telegrams	1998.45	
Misc. Furniture.	9939.00	
Research Contg.	2971.00	308152.05

**U.G.C.Block Grant**

22617687.36

**Arrear Salary**

Pay	25835.00	
D.A.	190999.00	216834.00

**TOTAL OF PART -I**

2,29,27,764.60

22927764.60

## VISVA-BHARATI UNIVERSITY

PALLI SIKSHA BHAVANA, SRINIKETAN

Receipt and Payment Account, 2001-02

## RECEIPTS

## PART-II

## I.C.A.R.- Ixth Plan (UGC)

Agri. Teaching 34956.00

## SCHEME

N.T.R.F. Project	180000.00	
Godrej soap Project	30000.00	
T.P.T.S.I Project	117889.00	
Asses. of Effi. F.F. Org.	30000.00	
Assosment of effi.-		
EL+ + Veg. Crops	20000.00	
Phos. Patastium Mang-		
Fish Pond...oil Zone	83000.00	
PRIA—Primary Edn	60000.00	
PRIA—RNC Project	37000.00	
Ident....Bakish Water	78.00	
Increasing Effi...Fresh-		
Water Aqua Culture	726600.00	1284567.00

I.S.D.P. Project

209890.00

## PAYMENTS

## I.C.A.R.- Ixth Plan

Student Amintities	150817.00	
Audiovisual Aids	28120.00	
Ljh. Books & journals	640647.50	
Lab. facilities, Field Equip-.		
& Lab. Equipment	670158.00	
Computer & Accessories	11655.00	
Cont. Grant Ednl. Prog.	8790.00	
National Seminer of Financial		
Assistance	44134.00	1554321.50

## I.C.A.R.- Ixth Plan (UGC)

Pay	22194.00	
D.A	9987.00	
H.R.A	1665.00	
Trans.	1110.00	34956.00

## SCHEME

N.T.R.F. Project	98026.00	
Godrej soap Project	10121.50	
Phos. Pota. Fish Pond-		
Red & Lat. Soil Zone	28772.00	
Productivity Manag. Red -		
Letaratic Soil—Culture	103.70	
TIPTSI Std. on Trdnl Post-		
Hervt. Technology & S. Cane	296077.66	
Identification of Major Che.-		
Breackish water	22000.00	
Recyling Flyash Fertilizer-		
through Vermicomposting	1616.25	
Asses. of Effi. F.F. Org	24378.50	
PRIA—Primary Education	21518.00	
PRIA—RNC	31052.00	
RSMML Projec	164283.25	
Increasing Effi. Nitrogen...-		
Fresh Water Aqua Culture	65993.00	
Use of Vermi—Red. L. Soil.	3752.00	
Strengthening—Soil Test. Lab.	273128.00	1040821.86

## Nodal Agency

Family Councelling. Prog.		
Contingency	3692.60	
Training g. Seminar	11500.00	
	15192.60	
Pre-Merital Councelling Pro.	2.50	
Older Person	4349.00	19544.10

C.O.

15,29,413.00 C.O.

26,49,643.46

## VISVA-BHARATI UNIVERSITY

PALLI SIKSHA BHAVANA, SRINIKETAN

Receipt and Payment Account, 2001-02

## RECEIPTS

B.F. 15,29,413.00

Use of Agro Technology  
For Dev. of Rural Project  
Grant 200000.00  
Cost of critical Impt.  
(Refund) 10138.00 210138.00

Scholarship  
Others 55700.00

Advance  
Advance(Gen.) 70841.66  
Festival Advance 435100.00 505941.66

Revenue Imprest 23335400.00

Deposit General  
Depo.General 2155108.50  
G.P.F 2254122.00  
P.Tax 136508.00  
I.Tax 1379672.00  
L.I.C 604624.12  
V.B.Co-op. Bank 1904645.00  
Deposit Centl.Office 717712.64  
„ Earnest.Money 5050.00 9157442.26

Registration Agri 562.00  
„ S.W. 344.00  
„ Ph.D. 660.00 1566.00

Total :- Part II 34795600.92  
Total :- Part I 22927764.60  
Total Receipt 57723365.52  
Opening Balance 4174563.51

61897929.03

## PAYMENTS

B.F. 26,49,643.46

I.S.D.P.Project  
Demonstration 51218.00  
Seeds Production 3000.00  
Farmers Training Prog. 5689.65  
Publication 280.00  
Add. Petrol Charge 1493.00  
T.A. 10027.00  
Contingency 1366.00  
Salary 112302.00 185375.65

Use of Agro Technology  
For Dev. of Rural Area Project  
Salary 70000.00  
Contingency 397.00  
T.A. 3044.00  
Other cost of critl.Impt. 6700.00  
Data Collector 17000.00 97141.00

Scholarship  
Other Scholarship 52900.00

Advance  
Advance(Gen.) 69902.86  
Festival Advance 522600.00 592502.86


Revenue Imprest 23335400.00


Deposit General  
Deposit General 2003550.00  
G.P.F 2295102.00  
P.Tax 136157.00  
I. Tax 1308102.00  
LIC 604254.42  
V.B.Co-op. Bank 1900130.00  
„ Earnest.Money 4350.00  
Sales Tax 398.00  
Deposit K.S.S.S 144.00  
„ Central Office 34956.00 8287143.42

Total :- Part II 35200106.39  
Total :- Part I 22927764.60  
Total Payment 58127870.99  
Closing Balance 3770058.04

61897929.03

  
Asstt. Account Officer  
Visva-Bharati

  
Finance Officer  
Visva-Bharati

  
Karma Sachiva  
Visva-Bharati

**VISVA - BHARATI**

SILPA-SADANA, SRINIKETAN

Balance Sheet as at 31.3.2002

LIABILITIES :	Rs.	P.	Rs.	P.	ASSETS :	Rs.	P.	Rs.	P.
1. Block Value as per Contra			1,01,500.04		1. Fixed Assets :				
2. Funds :					Land and Building	34,151.85			
(a) Capital Fund	1,63,591.87				2. Shed :				
(b) Depreciation Fund					As per last A/c.	21,383.39			
As per last A/c.	76,522.64		2,40,114.51		3. Water Work :				
3. Advance/Deposit					As per last A/c.	677.30			
As per last A/c.	79,86,573.20				4. Plant & Machinery :				
Add: This year	14,36,700.77		94,23,373.97		As per last A/c.	7,797.33			
4. Other Liabilities			26,281.01		5. Furniture & Equipments :				
					As per last A/c.	36,786.24			
					6. Motor Vehicles :				
					As per last A/c.	703.93		1,01,500.04	
					7. Advance/Deposit :				
					(a) Deposit General	10,115.06			
					(b) Imprest	400.00		10,515.06	
					8. Outstanding Dues			20,28,343.26	
					9. Store Stock :				
					Weaving	3,78,490.46			
					Carpentry	5,84,708.59			
					Book binding	14,356.47			
					Leather	19,910.40			
					Batik	3,096.88			
					H.M. Paper Making	15,102.15			
					Pottery	13,584.66			
					General Office	18.13		10,29,267.58	
					10. Profit & Loss Ac. :				
					As per last A/c.	47,22,615.87			
					Weaving	6,28,574.21			
					Carpentry	6,52,991.42			
					Book Binding	3,93,217.08			
					Leather	42,633.29			
					Batik	23,499.14			
					H.M. Paper Making	57,141.58			
					Pottery	18,820.00			
					Bonus	82,151.00		66,21,643.59	
			97,91,269.53					97,91,269.53	

**VISVA - BHARATI**

SILPA-SADANA, SRINIKETAN

Abstract Balance Sheet as at 31.3.2002

LIABILITIES :	Rs.	P.	ASSETS :	Rs.	P.
1. Block Value as per Contra (Schedule)		1,01,500.04	1. Fixed Assets A-1		1,01,500.04
2. Fund (Schedule L-1)		2,40,114.51	2. Advance/Deposit / Imprest A-2		10,515.06
3. Advance/Deposit		94,23,373.97	3. Outstanding Dues		20,28,343.26
4. Other Liabilities Sundry Creditors (Schedule L-2)		26,281.01	4. Profit & Loss		66,21,643.59
			5. Store-Stock		10,29,267.58
		97,91,269.53			97,91,269.53

Asstt. Accountg Officer  
Visva Bharati, Sriniketan

Finance Officer  
Visva-Bharati

Registrar  
Visva-Bharati

**VISVA - BHARATI**

SILPA-SADANA, SRINIKETAN (GENERAL)

*Income & Expenditure Accounts for the Year Ending 31.3.2002*

EXPENDITURE :	Rs.	P.	INCOME :	Rs.	P.
Salary	2,29,720.00		<u>Contribution</u>		
D.A.	98,868.00		Weaving	1,32,355.86	
H.R.A.	6,430.00		Carpentry	1,69,687.00	
Transport	1,575.00		Paper Making	10,181.22	
Other Allowances	578.00		Batik	10,181.22	
Stationary & Printing	1,477.00		Pottery	3,393.74	
Contingency	1,520.75		Leather	13,574.96	
Sale tax & S. Charge	726.00		Closing Stock	18.13	
Opening Stock	18.13				
	<u>3,39,392.13</u>			<u>3,39,392.13</u>	

**SRINIKETAN SHOP**

Salary	84,890.00		<u>Contribution</u>		
D.A.	36,975.00		Weaving	97,970.34	
H.R.A.	2,913.00		Paper Making	6,280.15	
Transport	825.00		Batick	7,536.18	
			Pottery	3,768.09	
			Leather	10,048.24	
	<u>1,25,603.00</u>			<u>1,25,603.00</u>	

**SANTINIKETAN SHOP**

Salary	57,632.00		<u>Contribution</u>		
D.A.	25,099.00		Weaving	68,544.06	
H.R.A.	4,321.00		Paper Making	4,393.85	
Transport	825.00		Batick	5,272.62	
			Pottery	2,636.31	
			Leather	7,030.16	
	<u>87,877.00</u>			<u>87,877.00</u>	

**MARKETING SECTION**

Packing and Forwarding	381.00		<u>Contribution</u>		
Exhibition	3,400.00		Weaving	3,506.10	
Repair Replacement	714.00		Paper Making	224.75	
			Batick	269.70	
			Pottery	134.85	
			Leather	359.60	
	<u>4,495.00</u>			<u>4,495.00</u>	



Asstt. Accounts Officer  
Visva-Bharati, Sriniketan

**VISVA - BHARATI**

SILPA-SADANA, SRINIKETAN

*Income & Expenditure Accounts of Weaving Section for the Year Ending 31.3.2002*

EXPENDITURE :	Rs.	P.	Rs.	P.	INCOME :	Rs.	P.	Rs.	P.
PRODUCTION COST :					BY SALE :			1,81,227.90	
Raw Materials	1,02,380.60								
Labour	1,46,434.00								
Contingency	328.00				Closing Stock	2,50,945.01			
Pay	40,812.50				Raw Material	<u>1,27,545.45</u>			
D.A.	17,753.50							3,78,490.45	
Transport	200.00								
H.R.A.	300.00								
Pay	16,880.00								
D.A.	7,350.50								
H.R.A.	1,266.50								
Transport	412.50								
Equipment	<u>2,530.00</u>								
			3,36,648.10						
TO SELLING COST :									
Pre-Grant Expenditure	1,32,355.86								
Sriniketan Shop	97,970.34								
Santiniketan Shop	68,544.06								
Marketing Section	<u>3,506.10</u>								
			3,02,376.36						
TO OPENING STOCK :									
Finished Goods	3,94,340.95				Excess Expenditure				
Raw Materials	<u>1,54,927.16</u>				over Income			6,28,574.21	
			5,49,268.11						
			<u>11,88,292.57</u>					<u>11,88,292.57</u>	

**VISVA - BHARATI**

SILPA-SADANA, SRINIKETAN

*Income & Expenditure Accounts of Carpentry Section for the Year Ending 31.3.2002*

EXPENDITURE :	Rs.	P.	Rs.	P.	INCOME :	Rs.	P.	Rs.	P.
PRODUCTION COST :					By Sale			2,34,219.51	
Pay	78,175.00								
D.A.	34,047.00				By Closing Stock :				
H.R.A.	4,156.50				Finished Goods	47,673.39			
Transport	825.00				Raw Materials	<u>5,37,035.20</u>			
Pay	14,135.00							5,84,708.59	
D.A.	6,158.00								
H.R.A.	1,058.50				Excess Exp.				
Transport	412.50				over Income			6,52,991.42	
Raw Materials	20,094.92								
Labour	3,63,410.00								
Contingency	<u>865.00</u>								
			5,23,337.42						
SELLING COST :									
Prod. Gl. Expenditure			1,69,687.00						
TO OPENING STOCK :									
Finished Goods	1,29,489.70								
Raw Materials	<u>6,49,405.40</u>								
			7,78,895.10						
			<u>14,71,919.52</u>					<u>14,71,919.52</u>	

  
 Asstt. Accounts Officer  
 Visva-Bharati, Sriniketan

**VISVA - BHARATI**

SILPA-SADANA, SRINIKETAN

*Income & Expenditure Accounts of Pottery Section for the Year Ending 31.3. 2002*

EXPENDITURE :	Rs.	P.	Rs.	P.	INCOME :	Rs.	P.	Rs.	P.
To Raw Materials	1,301.80				By Sale			5,968.10	
Labour	9,607.00								
			10,908.80						
SELLING COST :					By CLOSING STOCK :				
Preparation General Exp.	3,393.74				Finished Goods	4,472.08			
Sriniketan Shop	3,768.09				Raw Materials	9,112.58		13,584.66	
Santiniketan Shop	2,636.31								
Marketing Section	134.85								
			9,932.99						
OPENING STOCK :					Excess of Expenditure				
Finished Goods	5,044.10				over Income			18,820.00	
Raw Materials works	12,486.87								
			17,530.97						
			38,372.76					38,372.76	

**LEATHER COMMERCIAL**

To Materials	19,483.00				By Sale			17,793.15	
Labour	1,876.00								
			21,359.00		CLOSING STOCK :				
SELLING COST :					Finished Goods	13,148.42		19,910.24	
Preparation of Gen. Exp.	13,574.96				Raw Materials & Work	6,761.82			
Sriniketan Shop	10,048.24								
Santiniketan Shop	7,030.16								
Marketing Section	359.60								
			31,012.96						
TO OPENING STOCK :					By Excess of Expenditure				
Finished Goods	24,237.35				over Income			42,633.29	
Raw Material	3,727.37								
			27,964.72						
			80,336.68					80,336.68	

**BOOK-BINDING**

To Raw Materials	24,997.00				By Sale				
Labour	3,65,230.25								
T. Equipment	1,524.00								
			3,91,751.25		By CLOSING STOCK :				
SELLING COST :					Finished Goods	9,609.47			
Preparation of Gen. Exp.	-				Raw Materials	4,747.00		14,356.47	
OPENING STOCK :									
Raw Materials	3,126.50				Excess of Expenditure				
Finished Goods	12,695.80				over Income			3,93,217.08	
			15,822.30						
			4,07,573.55					4,07,573.55	

  
Asstt. Accounts Officer  
Visva-Bharati, Sriniketan

**VISVA - BHARATI**


SILPA-SADANA, SRINIKETAN

*Income & Expenditure Accounts of Paper Making for the Year Ending 31.3.2002*

EXPENDITURE :	Rs.	P.	Rs.	P.	INCOME :	Rs.	P.	Rs.	P.
Raw Materials		594.00			By Sale			12,754.50	
Labour		36,159.00							
			36,753.00						
SELLING COST :					CLOSING STOCK :				
Raw Preparation of General	10,181.22				Finished Goods	1,959.45			
Sriniketan Shop	6,280.15				Raw Materials	13,142.70		15,102.15	
Santiniketan Shop	4,393.85								
Marketing Section	224.75								
			21,079.97		Excess of Expenditure			57,141.58	
TO OPENING STOCK :					over Income				
Finished Goods	15,194.10								
Raw Materials	11,971.16								
			27,165.26						
			84,998.23					84,998.23	

**BALIK**

To Raw Materials	6,022.40				By Sale			14,130.00	
Labour	5,060.00								
			11,082.40						
SELLING COST :					CLOSING STOCK :				
Preparation of General	10,181.22				Raw Materials	1,474.25			
Sriniketan Shop	7,536.18				Finished Goods	1,622.63		3,096.88	
Santiniketan Shop	5,272.62								
Marketing Section	269.70								
			23,259.72						
OPENING STOCK :					Excess of Expenditure			23,499.14	
Finished Goods	5,083.50				over Income				
Raw Materials	1,300.40								
			6,383.90						
			40,726.02					40,726.02	

  
 Asstt. Accounts Officer  
 Visva-Bharati, Sriniketan





**VISVA - BHARATI**  
PUBLISHING DEPARTMENT  
*Schedule to Balance Sheet as at 31st March 2002*

Particulars	Debit Rs.	Credit Rs.	Debit Rs.	Credit Rs.
<b>Schedule - 1</b>				
CAPITAL ACCOUNTS				23,19,634.58
Capital Account				23,19,634.58
<b>Schedule - 2</b>				
FUNDS				64,21,139.88
Building Fund				26,14,632.81
Depreciation Fund				38,06,507.07
<b>Schedule - 3</b>				
RESERVES				4,62,82,214.19
Building & Press Reserve				5,82,187.57
Development Reserve				25,13,313.96
General Reserve				75,86,001.01
Profit & Loss Appropriation A/c.				3,11,91,507.05
Reserve for Rab. Resc. Scheme				7,12,500.00
Royalty Equilisation Reserve				25,20,773.17
Stock & Store Reserve				11,75,931.43
<b>Schedule - 4</b>				
FIXED ASSETS		2,12,83,226.25		
Blocks		1,71,196.96		
Building at Kolkata		11,14,632.81		
Building at Santiniketan		17,350.00		
Corpus of Various Reserves		1,56,07,830.90		
Depreciation Fund Investments		19,19,139.11		
Furniture & Equipment		3,98,665.02		
Land in Kolkata		15,00,000.00		
Library Books		20,616.81		
Misc. Equipment		52,563.20		
Motor Vehicle		3,34,231.44		
Pension & Gratuity Fund Investment		1,47,000.00		
<b>Schedule - 5</b>				
INVESTMENT:		59,31,948.00		
G.V. Development Fund		88,777.50		
G.V. General Reserve Fund		55,610.50		
Investment (UBI, TV Park):1		50,00,000.00		
Investment (UBI, TV Park):2		7,77,560.00		
V.B. S.S. (100 Shares @ 100/-)		10,000.00		
<b>Schedule - 6</b>				
DEPOSIT: LIABILITIES				20,31,914.01
Advance Go				2,89,764.98
CD-cum-Cassette				1,12,817.10
Deposit				10,78,403.43
Rabindra-Bhavana (Pic. & Paint)				21,819.00
Rabindra-Bhavana Dev.				185.00
Repayment of Conv. Adv. Int.				15,693.70
Repayment of Conv. Adv.				1,24,033.80
Repayment of Loan P.F. (L)				9,450.00
Salary Savings Insurance (L)				344.73
Sales Tax (TDS)				7,051.00
Seed Fund (H.B.L.)				3,34,175.00
Staff Benevolent Fund				36,097.22
Staff Welfare Fund				2,044.05
Subscription to GP Fund				35.00
<b>Schedule - 7</b>				
DEPOSIT RABINDRA-BHAVANA FUND				6,10,870.63
Deposit Rabindra-Bhavana Fund				6,10,870.63
<b>Schedule - 8</b>				
LIABILITIES				69,41,618.78
Liabilities				69,41,618.78
<b>Schedule - 9</b>				
PROVISIONS				55,21,778.38
Provisions for P & G				55,21,778.38

## V I S V A - B H A R A T I

## PUBLISHING DEPARTMENT

## Schedule to Balance Sheet as at 31st March 2002

Particulars	Debit Rs.	Credit Rs.	Debit Rs.	Credit Rs.
<b>Schedule - 10</b>				
RACH. (POPULAR): LIABILITIES				4,80,381.95
RRP Received in Advance				66,420.00
SBI Park St. A/c. OPR. (RRP)				1,13,961.95
<b>Schedule - 11</b>				
SURPLUS ROYALTY				91,02,432.84
Surplus Royalty				91,02,432.84
<b>Schedule - 12</b>				
V.B. PATRIKA: LIABILITIES				84,742.17
Advance Revenue (VBP)				8,666.00
Contribution (VBP)				50,000.00
Sales (VBP)				26,076.17
<b>Schedule - 13</b>				
BANK ACCOUNTS			48,55,054.92	
SBI Santiniketan			2,25,722.44	
SBI Shakespeare Sarani			22,36,459.00	
UBI College Street			6,08,878.14	
UBI Tivoli Park			17,83,995.34	
<b>Schedule - 14</b>				
CASH-IN - HAND			1,55,36,652.01	
Cash			21,561.74	
S.B.I., Park St. BR.			1,55,15,090.27	
<b>Schedule - 15</b>				
CURRENT ASSET			77,58,847.24	
ADVANCE (A)			8,70010.52	
Adv. FOVB (Computer)	15,250.00			
Advance	4,41,561.40			
Advance FOVB	3,56,497.91			
Dristi O Shrishu	118.80			
Imprest	56,582.41			
COPYRIGHT			32,370.50	
Copyright	32,370.50			
INTEREST RECEIVABLE			7,50,000.00	
Accrued Interest	7,50,000.00			
SALES RECEIVABLE			1,85,991.02	
Credit Sales Receivables	1,77,367.19			
VP Sales Receivables	8,623.83			
SHORT TERM DEPOSIT SUSPENSE			40,00,000.00	
Suspense	19,20,475.20		19,20,475.20	
<b>Schedule - 16</b>				
DEPOSITS (ASSET)			3,42,288.30	
Adv From Staff Bene. Fnd.			13,642.00	
CD-cum-Cass Sales Receivable			750.00	
Deposit with CESC			4,685.24	
Deposit with HS Council			3,02,000.00	
Group Insurance Scheme			10.00	
Guarantee Deposit: UBI (JSK)			1,500.00	
Income Tax (TDS)			802.08	
Professional Tax (A)			20.00	
Rounding off (A)			0.25	
Salary Income Tax			504.00	
Sales Receivable			14,363.73	
Security Deposit			4,011.00	
<b>Schedule - 17</b>				
RACH. (POPULAR): ASSETS			96,01,008.00	
RRP Sales Receivables			450.00	
SBI Park St A/c Sub (RRP)			20,660.00	
Short Term Deposit (RRP)			95,79,898.00	
<b>Schedule - 18</b>				
STAMP STOCK, SERVICE			9,505.72	
Stamp Stock, Service			9,505.72	



## VISVA - BHARATI

PUBLISHING DEPARTMENT

Schedules to Profit &amp; Loss Account for the year 2001-2002

Particulars	Debit Rs.	Credit Rs.	Debit Rs.	Credit Rs.
<b>Schedule - 1</b>				
ESTABLISHMENT COST (P)			24,31,765.34	
Bonus (Inc. Allow.): P			29,604.00	
CCA: P			43,025.00	
Dearness Allowance: P			5,21,975.00	
GV. Contrb. to Gratuity Sch. (P)			25,228.74	
GV. Contrb. to Pension Sch. (P)			1,68,191.60	
HRA: P			3,48,010.00	
Medical Aid: P			38,490.00	
Salary: P			11,59,941.00	
Temp. App. & Leave Arrgmt.: P			48,000.00	
Transport Allowance (Prod)			49,300.00	
<b>Schedule - 2</b>				
PRODUCTION COST			48,79,994.26	
Binding			9,52,047.76	
Paper Purchase			33,56,350.50	
Printing			5,71,030.00	
Transport Cost (Paper)			566.00	
<b>Schedule - 3</b>				
AGENCY PUBLICATIONS			1,866.09	
Agency Publication			1,866.09	
<b>Schedule - 4</b>				
ESTABLISHMENT COST			60,20,195.45	
Bonus (Inc. Allow.)			1,08,342.00	
Cash & Counter Allowance			7,638.00	
CCA			1,09,875.00	
Charge Allowance (G)			50.00	
Dearness Allowance			12,88,058.00	
GV. Contrb. to Gratuity Sch. (G)			62,235.55	
GV. Contrb. to Pension Sch. (G)			4,14,903.65	
HRA			8,06,399.00	
Medical Aid			1,37,769.00	
Overtime Allowance			19,189.75	
Salary			28,60,978.50	
Salary Etc.			34,268.00	
Small Family Norms			4,375.00	
Special Allowance			9,859.00	
Temp. App. & Leave Arrgmt.			64,195.00	
Transport Allowance (Gen)			83,100.00	
Washing Allowance			8,960.00	
<b>Schedule - 5</b>				
OFFICE COST			10,22,782.14	
Annual Excursion			4,000.00	
Bank Charges			225.00	
Contingency & Sundry Exp.			34,184.05	
Contrn. to Office Canteen			16,654.00	
Depreciation			43,833.84	
Electricity Charges			1,21,398.00	
Forms & Stationery			74,384.50	
Honorarium			1,31,352.79	
Insurance: Fire Etc.			1,20,400.00	
Motor Vehicle Maintn. Chg.			1,89,873.65	
Municipal Tax			25.00	
Rent			40,032.20	
State Tax on Profession			600.00	
Tagore Birth & Death Annv. Exp.			24,864.00	
Telephone Charges			93,272.00	
Trade & Sign Bld. Lics.			35.00	
Travelling & Conveyance			13,829.95	
Uniform			5,282.00	
Upkeep & Maintenance			1,08,536.16	
<b>Schedule - 6</b>				
PURCHASED BOOKS			73,725.00	
Purchased Books			73,725.00	

## VISVA - BHARATI

## PUBLISHING DEPARTMENT

Schedules to Profit &amp; Loss Account for the year 2001-2002 (Amount in Rs.)

Particulars	Debit Rs.	Credit Rs.	Debit Rs.	Credit Rs.
Schedule - 7				
RACHANABALI (POPULAR): EXPENSES			4,09,797.50	
Binding (RRP)			3,53,284.00	
Printing (RRP)			38,930.00	
Publ. & Adv. (RRP)			17,581.00	
Trav. & Conv. (RRP)			2.50	
Schedule - 8			80,14,646.91	
SELLING COST			1,605.00	
Cartage & Collie			44,26,862.77	
Commission on Sales			17,851.00	
Freight			6,301.00	
Postage			3,31,659.00	
Publicity & Advertisement			32,30,368.14	
Royalty on Sale of Books				
Schedule - 9				932.91
COMMISSION ON AGENCY PUB.				932.91
Commission on Agency Pub.				
Schedule - 10				28,397.50
COMMISSION ON MISC. ROYALTY				28,397.50
Commission on Misc. Royalty				
Schedule - 11				4,350.00
COMMISSION ON PURCHASED BOOK				4,350.00
Commission on Purchased Book				
Schedule - 12				22,94,203.00
INTEREST RECEIVED				22,94,203.00
Interest				
Schedule - 13				54,000.00
MISC. RECEIPT				54,000.00
Misc. Receipt				
Schedule - 14				11,99,695.60
RACHANABALI (POPULAR): INCOME				810.40
Postage & Packing (RRP) Receipt				11,98,885.20
Subscription (RRP)				



Adhyaksha (Director)  
Granthana Vibhaga

## V I S V A - B H A R A T I

PUBLISHING DEPARTMENT

*Profit & Loss Appropriation Statement for the year ended 31st March 2002 (Amount in Rs.)*

PARTICULARS		PARTICULARS	
PROVISION FOR P & G	34,65,723.00	BALANCE B.F.	3,23,64,064.63
BALANCE C.O.	3,11,91,507.05	PROFIT & LOSS (Net Profit)	22,93,165.42
	<u>3,46,57,230.05</u>		<u>3,46,57,230.05</u>

*Profit & Loss Statement (RRP Schedule) for the year 2001-2002 (Amount in Rs.)*

PARTICULARS	Sch.	PARTICULARS	Sch.
OPENING STOCK		CLOSING STOCK	
Stock-in-Trade (RRP-1)	5,91,390.00	Stock-in-Trade (RRP-1)	4,91,370.00
Stock-in-Trade (RRP-2)	13,80,200.00	Stock-in-Trade (RRP-2)	22,16,522.00
EXPENSES (INDIRECT)		INCOME (REVENUE)	
Rachanabali (Popular):		Rachanabali (Popular):	
Expenses:	1 4,09,797.50	Expenses:	2 11,99,695.60
NET PROFIT			
	15,26,200.10		
TOTAL	<u>39,07,587.60</u>	TOTAL	<u>39,07,587.60</u>

## V I S V A - B H A R A T I

PUBLISHING DEPARTMENT

*Schedules to (R.R.P.) Profit & Loss Account for the year 2001-2002 (Amount in Rs.)*

PARTICULARS	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
<b>Schedule - 1</b>				
RACHANABALI (POPULAR): EXPENSES			4,09,797.50	
Binding (RRP)			3,53,284.00	
Printing (RRP)			38,930.00	
Publ. & Adv. (RRP)			17,581.00	
Trav. & Conv. (RRP)			2.50	
<b>Schedule - 2</b>				
RACHANABALI (POPULAR): INCOME				11,99,695.60
Postage & Packing (RRP) Receipt				810.40
Subscription (RRP)				<u>11,98,885.20</u>

Adhyaksha (Director)  
Grantham Vibhaga

**VISVA - BHARATI**  
• MUSIC BOARD  
*Balance Sheet as at 31st March 2002*

2000-2001	LIABILITIES	2001-2002	2000-2001	ASSETS	2001-2002
22,827.50	<b>RESERVE FUND</b> As per Last Account	22,827.50	94,887.86	<b>FURNITURE &amp; EQUIPMENTS</b> As per Last Account	94,887.86
45,48,480.77	<b>DEPOSITS</b> As per Last Account	51,32,006.54		Less: Depreciation	7,116.59
	Less: Transferred to Distressed Rabindra Sangit Artists Fund	45,48,480.77	13.06	<b>BLOCK</b> As per Last Account	13.06
	Add: Royalty for 2001-2002	5,00,000.00		Less: Depreciation	0.98
		40,48,480.77		<b>INVESTMENT (F.O. Visva-Bharati)</b> As per Last Account	18,250.00
	<b>DISTRESSED RABINDRA SANGIT ARTISTS FUND</b>	10,83,525.77		<b>FIXED DEPOSIT: U.B.I. Tivoli Park Br.</b> As per Last Account	83,78,695.00
	Less: Payments 2001-2002	51,32,006.54		Add: Addition this year	30,06,825.00
		5,00,000.00		<b>FIXED DEPOSIT with U.T.I. Bank</b> As per Last Account	—
10,25,000.00	<b>VISVA-BHARATI MUSIC BOARD DEVELOPMENT FUND</b> As per Last Account	10,25,000.00	83,78,695.00	<b>SECURITY DEPOSIT WITH CALCUTTA TELEPHONES</b> As per Last Account	2,280.00
46,97,333.25	<b>INCOME &amp; EXPENDITURE ACCOUNT</b> As per Last Account	54,72,304.55	2,280.00	<b>IMPREST</b> As per Last Account	2,500.00
	Add: Excess of Income over Expenditure	46,97,333.25	20,000.00	<b>ADVANCE</b>	—
0.13	<b>SUSPENSE</b> As per Last Account	0.13		<b>FESTIVAL ADVANCE</b> As per Last Account	750.00
	Add: THIS YEAR	0.40	1,234.07	<b>STOCK OF NOTATION SHEETS</b> As per Last Account	1,234.07
0.50	<b>ADVANCE</b> As per Last Account	0.50	7,50,782.16	<b>CASH &amp; BANK BALANCES</b> Cash in hand	6,43,822.20
				With U.B.I. Tivoli Park Br.	N I L
				(S/B A/C No. 49280)	6,43,822.20
1,02,93,642.15		1,21,42,139.62	1,02,93,642.15		1,21,42,139.62

*(Signature)*  
Honorary Secretary  
Visva-Bharati Music Board





# VISVA - BHARATI

## MUSIC BOARD

Receipts & Payments Account as on 31st March 2002

2000-2001	RECEIPTS	2001-2002	2000-2001	PAYMENTS	2001-2002
20,465.00	Interest (Bank)	22,105.00	1,81,200.00	Salary & Allowances	1,93,000.00
18,24,695.00	Income from Investment	10,27,938.00	28,530.30	Contingency & Sundry Expenses	35,099.40
4,000.00	Miscellaneous Receipts	—	6,036.00	Postage	6,751.00
1,91,750.00	Approval Fees	81,525.00	13,272.00	Forms & Stationary	10,245.00
38,350.00	Audition Fees	28,150.00	20,340.50	Travelling & Conveyance	14,145.00
26,006.00	Royalty on Stage Right	14,400.00	360.00	Bank Charges	350.00
8,68,800.25	Royalty on Disc. Records & Cassettes	7,75,617.69	1,42,150.00	Honorarium to Rabindra Sangeet Experts	1,71,300.00
10,400.00	Royalty on Rabindra Sangeet for Film	8,050.00	—	Legal Expenses	13,495.00
4,13,349.00	Royalty on Radio Broadcast & T. V. Telecast	4,44,500.00	2,795.70	Meeting Expenses	5,731.00
35,000.00	Royalty on Filming	1,89,500.00	22,657.50	Audition Expenses	40,643.60
6,000.00	Advance (C)	20,000.00	16,000.00	Tagore's Birth & Death Annvy. Expenses	16,000.00
—	F.D. with U.T.I. (Withdrawal)	10,25,000.00	20,000.00	Advance	—
—	Festival Advance	750.00	24,78,695.00	Fixed Deposit with U.B.I. Tivoli Park Br.	30,06,825.00
—	Suspense	0.40	13,487.00	Telephone Charges	12,614.00
			1,800.00	Renovation of Office Room	—
			—	Deposit (Trustees R.N. Tagore Estate)	37,398.00
			1,800.00	Publicity & Advertisement	—
			16,350.00	Furniture & Equipments	—
			10,559.50	Smaran Sandhya of Kanika Banerjee	—
			23,227.00	Birth Centenary of S.R. Majumdar	—
			1,56,000.00	Service Charges to G. V.	54,000.00
			10,600.00	Bonus (Incentive Allowance)	11,800.00
			—	Press Conference	4,848.25
			—	Special Programme 2001	46,679.40
			—	Patha-Bhavana Centenary 2001	42,071.40
			—	Distressed Rabindra Sangeet Artist Fund	10,000.00
			—	Contribution for Special Programme	10,000.00
			—	Festival Advance	1,500.00
4,77,827.41	OPENING BALANCE	7,50,782.16	7,50,782.16	CLOSING BALANCE	6,43,822.20
39,16,642.66		43,88,318.25	39,16,642.66		43,88,318.25

*[Signature]*  
 Honorary Secretary  
 Visva-Bharati Music Board

**VISVA-BHARATI**  
SANTINIKETAN  
PROVIDENT FUND ACCOUNT

**BALANCE-SHEET AS ON 31.3.2002 FOR THE YEAR 2001-2002**

<b>LIABILITIES</b>		<b>ASSETS</b>	
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
<b>MEMBERS FUND:</b>			
A) G.P.F Subscription as per last account	218672537.64	Advance Account As per last a/c	32077037.57
Add (+) This year Subscription	33765343.84	Add: (+) This Year	20894504.66
Add (+) This year Profit	21682355.00		52971542.23
	274120236.48	Less: (-) this Year realisation	18969410.36
Less (-) this year refund/Withdrawal	26780753.15		34002131.87
			34002131.87
		247339473.33 Fixed Deposit:	
B) CPF Subscription as per last account	14224011.95	S.B.I. Santiniketan as per last a/c	58570500.00
Add: (+) This Year Subscription	2678996.00	Add: (+) This year Investment	13022500.00
Add: (+) This Year Profit	1163244.00		71593000.00
	18066251.95		71593000.00
Less (-) this year refund or withdrawal	4464195.17	S.B.I. Calcutta as per last a/c	21786575.00
	13602056.78	Add: (+) This year investment	1000000.00
			22786575.00
		13602056.78	22786575.00
C) VB Contribution as per last account	7994333.83		
Add: (+) This year contribution	963189.00	U.B.I. Bolpur as per last a/c	37202450.00
Add: (+) This year Profit	457575.00	Add: (+) last year year due	456264.00
	9415097.83		37658714.00
Less: (-) this year refund/ Withdrawal	473805.05	Add: (+) This year investment	9334000.00
			46992714.00
		8941292.78 Less: (-) This year Maturity	7718050.00
			39274664.00
			39274664.00
		U.B.I. Bhubandanga as per last a/c	51508000.00
		Add: (+) This year investment	6565000.00
			58073000.00
		less (-) this year maturity	4010000.00
			54063000.00
		269882822.89	54063000.00
			54063000.00
		C.O.	221719370.87



**VISVA-BHARATI**  
**SANTINIKETAN**  
**PROVIDENT FUND ACCOUNT**  
**INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2001-2002**

EXPENDITURE	(Rs.)	INCOME	(Rs.)
Excess of Income over Expenditure	23,731,509.51	By Interest on Fixed Deposit as per General ledger	9,627,559.33
		By Accrued Interest against S.T.D.R. R.I.P.	
		S.B.I. Santiniketan	4245785.12
		S.B.I. Calcutta	1038664.06
		U.B.I. Bolpur	4411236.00
		U.B.I. Bhubangdanga	<u>4408265.00</u>
			14103950.18
	<u>23,731,509.51</u>		<u>23,731,509.51</u>

  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

**VISVA-BHARATI**  
SANTINIKETAN  
PROVIDENT FUND ACCOUNT

**RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2001-2002**

**RECEIPTS:**

Repayment of Advance:	
Deposit Account:	
S.B.I. Bond:	
U.B.I. Bolpur:	
U.B.I. Bhubandanga:	
G.P.F. Subscription:	
C.P.F. Subscription:	
V.B. Contribution	
Interest on Fixed Deposit:	
S.B.I. Santiniketan	
S.B.I. Calcutta	
U.B.I. Bolpur:	
U.B.I. Bhubandanga:	
S.B.I. Bond	
Opening Balance :	
S.B.I. Santiniketan	
S.B.I. Calcutta	
U.B.I. Bolpur	
U.B.I. Bhubandanga	

**PAYMENTS**

(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
18969410.36	Members Fund	31718763.37
251730.09	Deposit Account	376909.48
550000.00		
7718050	Fixed Deposit	
4010000.00	S.B.I. Santiniketan	13022500.00
33765343.84	S.B.I. Calcutta	1000000.00
2678996.00	U.B.I. Bolpur	9334000.00
963189.00	U.B.I. Bhubandanga	5565000.00
3023835.00	Advance Account	29921500.00
1381091.33	Income & Expenditure Account	20894504.66
1894273.75		6491.00
2805859.25		
522500.00	Closing Balance :	
	S.B.I. Santiniketan	5511148.13
9627559.33	S.B.I. Calcutta	730212.50
	U.B.I. Bolpur	282590.29
	U.B.I. Bhubandanga	584734.81
		7108685.73
5508553.48		
695880.04		
4266.54		
333875.56		

6542575.62

90026854.24

90026854.24

*Signature*  
Accounts Officer  
Visva-Bharati

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005